



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 08 फरवरी, 2023 / 19 माघ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 002, 01 फरवरी, 2023

संख्या: टी.पी.टी.—एफ(2)—2/2021—III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव—बी—ए(3)—3/2014—IV,

243—राजपत्र / 2023—08—02—2023

(9779)

तारीख 22-08-2022 द्वारा गठित बहुविषयी विशेषज्ञ समूह की सिफरिशों पर और हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 12 के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार/उत्तर रेलवे/रेलवे विकास निगम (लिमिटेड), को, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 10 गांवों, नामतः 1. नोग, 2. बल्ही बिल्ला, 3. बल्ही झलेडा, 4. भराथू, 5. बघड़ी, 6. बैरी रजादयां, 7. खतेड, 8. भटेड उपरली, 9. बरमाणा, 10. मण्डी उपबन्ध-“क” पर यथा संलग्न खसरा नम्बरों से समाविष्ट कुल क्षेत्र रकबा 538-13-05 बिघा (40.54 हैक्टेयर) भूमि को भानुपल्ली-बिलासपुर- बैरी, न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाईन परियोजना के निर्माण के लिए अर्जित करने की सिफारिश करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
(आर. डी. नजीम),
प्रधान सचिव (परिवहन)।

“उपबन्ध-क”

नई भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के सन्निर्माण के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का गांव/तहसीलबार ब्यौरा—

तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0 प्र0 (तृतीय अनुभाग)

क्रम संख्या	गांव/हदबस्त का नाम	निजी भूमि			विवरण
		कित्ता	रकबा (बीघों में)	रकबा (है0 में)	
1.	नोग / 178	53	60-6	4.54	
2.	बहली बिला / 151	26	21-9	1.61	
3.	बहली झलेडा / 153	3	4-0	0.30	
4.	भराथू / 149	29	24-3-05	1.82	
5.	बघड़ी / 148	5	22-9	1.69	
6.	बैरी रजादयां / 141	1	0-7	0.03	
7.	खतेड / 130	118	210-2	15.81	
8.	भटेड उपरली / 129	83	104-5	7.84	
9.	बरमाणा / 128	34	91-8	6.88	
10.	मण्डी / 226	1	0-4	0.02	
	कुल जोड़. .	353	538-13-05	40.54	

सूची महालबार तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

क्रम सं०	खेवट / खतौनी नं०		सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र बीघों में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1. नोग ह०नं० 178											
1.	1 मिन	1 मिन	50	मुश्तरका	चाही	3-10	कुल 2 भाग:—नंद लाल पुत्र व सर्व श्रीमती लता देवी, नरेन्द्रा कुमारी पुत्रियां शिवराम पुत्र नरैणू समभाग 1 भाग जगरनाथू पुत्र नरैणू पुत्र मोती 1 भाग स्थानीय वासी।	महाल बहली बिला	महाल बह्यात	महाल जंगल संगल	महाल मिया बन्ता
2.	2 मिन	2 मिन	573 / 128 / 1	निजि	चाही	0-2	लच्छमण सिंह पुत्र देवीसरन पुत्र मोती स्थानीय वासी।				
3.	4 मिन	4 मिन	43 / 1	मुश्तरका	चाही	1—15	लच्छमण सिंह, गरजा राम पुत्र देवीसरन पुत्र मोती समभाग स्थानीय वासी।				
			109		गैर मु० बीड़ चाही	1—5					
						0—10					
			किता—2			2—11	4—6				
4.	8 मिन	8 मिन	49 / 1	मुश्तरका	बंजर कदीम	0—9	बंगाली, चेताराम पुत्र रामदितू पुत्र शेरू समभाग स्थानीय वासी				
			51		चाही	0—4					
			52 / 1		चाही	1—11					
			किता—3			2—4					
5.	9 मिन	9 मिन	40 / 1	मुश्तरका	चाही	1—19	कुल 2 भाग:— वन्ताराम पुत्र गुलजारी पुत्र मोती 1 भाग बलवीर सिंह, मदन लाल, सुखदेव पुत्र वन्ताराम पुत्र गुलजारी समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
6.	10 मिन	10 मिन	646 / 41 / 1	मुश्तरका	चाही	1—7	मस्त राम, नन्दलाल पुत्र व श्रीमती शीला पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी विधवा निक्का पुत्र तरडू समभाग स्थानीय वासी।				
7.	11 मिन	11 मिन	647 / 41 / 1	मुश्तरका	चाही	4—10	कुल 5 भाग :- रामलाल, रोशन लाल, रतन लाल, श्याम लाल, पुत्र लखू पुत्र तरडू समभाग 4 भाग सोनू, मोनू पुत्र व श्रीमती सोमा देवी विधवा प्रेमलाल पुत्र लखू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
			42 / 1		बागीचा चाही खडैतर	2—13					
						1—17					
			किता—2			0—2					
						4—12					
8.	24 मिन	24 मिन	47 / 1	मुश्तरका	चाही	0—2	रोहडू, सुखिया पुत्र गोविंद पुत्र मेहलर समभाग स्थानीय वासी।				
9.	31 मिन	31 मिन	113 / 1	निजि	चाही	0—4	ज्ञानचन्द पुत्र कांशी राम पुत्र वजीरू स्थानीय वासी।				
			113 / 2		चाही	0—16					
			113 / 3		चाही	0—1					
			किता—3			1—1					
		32 मिन	110	निजि गैर मौरूसी	चाही	0—5	ज्ञान चन्द मालिक वर्णित ----- X ----- श्रीमती चन्दो पुत्री वजीरू पुत्र गोहडू स्थानीय वासी गैर मौरूसी।				
जोड़ खेवट:—			किता—4			1—6					

10.	37 मिन	40 मिन	125/1	मुश्तरका	चाही	0-9	जगरनाथ, सीता राम पुत्र हरीमन पुत्र रामदास समभाग स्थानीय वासी।
11.	42 मिन अब्बल	45 मिन	660/127	निजि	चाही	0-5	मनोहर लाल पुत्र जीत राम पुत्र सुदामा स्थानीय वासी।
	45 मिन अब्बल	48 मिन	662/127/1 186/2/1		चाही वारानी	0-3 0-14	
			किता-3			1-2	
12.	42 मिन दोम	45 मिन	661/127	निजि	चाही	0-4	बलदेव पुत्र जीत राम पुत्र सुदामा स्थानीय वासी।
	46 मिन	49 मिन	186/1/1		बारानी	0-6	
			201/1		खडैतर	0-2	
			किता-3			0-12	
13.	43 मिन	46 मिन	659/127	निजि	चाही	0-4	नन्दलाल पुत्र जीत राम पुत्र सुदामा स्थानीय वासी।
14.	44 मिन	47 मिन	644/34/1	निजि	चाही	0-19	प्रेम लाल पुत्र परस राम पुत्र सुदामा स्थानीय वासी
			663/127/1		चाही	0-6	
			किता-2			1-5	
15.	45 मिन दोयम	48 मिन	35/1	मुश्तरका	चाही	0-6	कुल 560 भाग:- मनीराम 283 भाग प्यारे सिंह 277 भाग पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र गंगा राम स्थानीय वासी।
			662/127/2		चाही	2-7	
			किता-2			2-13	
16.	49 मिन	52 मिन	574/128/1	मुश्तरका	चाही	0-6	कुल 4 भाग :- नन्दलाल, चमनलाल पुत्र भिखू पुत्र सरदारु समभाग 1 भाग, अंकू पुत्र श्यामलाल पुत्र भिखू 1 भाग श्रीमती जियूणी पुत्री सरदारु पुत्र दुन्दिया 2 भाग..स्थानीय वासी।
17.	60	63	111	मुश्तरका	चाही	0-2	कुल 174 भाग:- लच्छमण सिंह, गरजा राम पुत्र देवीसरन पुत्र मोती समभाग 6 भाग, मुन्शी, रामलाल समभाग 18 भाग पुत्र व श्रीमति रामजानी, श्रीमती सीता समभाग 12 भाग पुत्रियां सुन्दर पुत्र मोती, देवीराम, रणजीत पुत्र दिलवर पुत्र नौधा समभाग 138 भाग स्थानीय वासी ——— X ————— देवीराम, रणजीत समभाग हिस्सादारान बजातेही 138 भाग वनीज गैरमौरूसी 36 भाग मिनजानिव दिगर हिस्सादारान।
18.	61 मिन	64 मिन	112	निजि	चाही	0-2	देवीराम, रणजीत पुत्र दिलवर पुत्र नौधा समभाग स्थानीय वासी।
			188/1		वारानी	0-12	
			188/2		वारानी	0-4	
			किता-3			0-18	
19.	69 मिन अब्बल	72 मिन	288/1	मुश्तरका	गैर मुमकिन कुहल	0-11	कुल 184320 भाग:-नन्द लाल पुत्र व सर्व श्रीमती लता देवी, नरेन्द्रा कुमारी पुत्रियां शिव राम पुत्र नरैणू समभाग 4800 भाग, जगरनाथू पुत्र नरैणू पुत्र मोती समभाग 4800 भाग लच्छमण

						<p>सिंह, गरजा राम पुत्र देवीसरण पुत्र मोती समभाग 9600 भाग, मुनसी, राम लाल समभाग 7040 भाग पुत्र व श्रीमती रामजानी 2560 भाग पुत्री सुन्दर पुत्र मोती, बंगाली, चैतराम पुत्र रामदितू पुत्र शेरू समभाग 14400 भाग, बन्ता राम पुत्र गुलजारी पुत्र मोती 7200 भाग, बलवीर सिंह, मदनलाल, सुखदेव पुत्र बन्ताराम पुत्र गुलजारी समभाग 7200 भाग, राम लाल, रोशन लाल, रतन लाल, श्याम लाल पुत्र लखू पुत्र तरडू समभाग 13824 भाग, सोनू, मोनू पुत्र व श्रीमती सोमा विधवा प्रेम लाल पुत्र लखू समभाग 3456 भाग, मस्त राम, नन्द लाल पुत्र व श्रीमती शीला पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी विधवा निका पुत्र तरडू समभाग 17280 भाग, लेखराम, रामलाल, जोगिन्द्र पुत्र भगत राम पुत्र गान्धी समभाग 720 भाग, सन्तराम पुत्र गान्धी पुत्र धारी 9360 भाग, अन्तरिक्ष, तुषार पुत्र व श्रीमती सुजातारानी विधवा रामदयाल पुत्र अनन्त राम समभाग 120 भाग, शेखर, सोनू पुत्र व श्रीमती अरुणा देवी पुत्री रामलीला पुत्री अनन्त राम समभाग 150 भाग, सीता राम पुत्र व श्रीमती लज्जा देवी, नीलम देवी पुत्रियां अनन्त राम पुत्र गान्धी समभाग 450 भाग, भूपेन्द्र सिंह पुत्र बालक राम पुत्र गोकल 2160 भाग, रोहडू, सुखिया पुत्र गोविन्द पुत्र मेहलर समभाग 2160 भाग, कांशी राम, निक्का राम पुत्र देवीरूप पुत्र मेहलर समभाग 2160 भाग, ज्ञान चन्द पुत्र कांशी राम पुत्र बजीरू 10800 भाग, रूप सिंह पुत्र तुलसी पुत्र साधू 4320 भाग जगरनाथ, सीताराम पुत्र हरीमन पुत्र रामदास समभाग 3456 भाग, प्रेम लाल पुत्र परस राम पुत्र सुदामा 5376 भाग, मनीराम, प्यारे सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र गंगा राम समभाग 5376 भाग, नन्द लाल, मनोहर लाल समभाग 3584 भाग व बलदेव 3520 भाग पुत्र जीतराम पुत्र सुदामा, श्रीमती रामकू पुत्री दुन्दिया पुत्र मोती 360 भाग, नन्द लाल, चमन लाल पुत्र भिखू पुत्र सरदारू समभाग 275 भाग।</p>				
19.	वर्णित					<p>अंकू पुत्र श्याम लाल पुत्र भिखू 225 भाग श्याम लाल पुत्र भिखू पुत्र सरदारू 25 भाग, श्रीमती फूला, कान्ता पुत्रियां व श्रीमती कृष्णी विधवा भिखू पुत्र सरदारू समभाग 75 भाग, श्रीमती जियुणी पुत्री व श्रीमती सुहारू विधवा सरदारू पुत्र दुन्दिया समभाग 1200 भाग, लच्छमण, सोहन लाल, सीता राम पुत्र राम सिंह पुत्र गोसाळ समभाग 1080 भाग रोशन लाल पुत्र बुधू पुत्र सरन 2880 भाग, श्रीमती पुष्पा उर्फ</p>				

							कमला विधवा दया राम पुत्र बुधू 2880 भाग, देवी राम पुत्र व श्रीमती कालो देवी विधवा शेरू पुत्र मोहन समभाग 5760 भाग, रणजीत, देवी राम पुत्र दिलवर पुत्र नौधा समभाग 2160 भाग मनिया राम पुत्र व श्रीमती माया देवी पुत्री गणपत पुत्र फूहणू समभाग 2520 भाग बाबू राम पुत्र गरजा पुत्र गोवर्धन 17280 भाग स्थानीय वासी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी गोरख सिंह पुत्र दुर्गा 1728 भाग निवासी बलवाड़।				
20.	69 मिन दोम	75 मिन	48 / 1	मुश्तरका	चाही	0-1	<p>कुल 7920 भाग:- लेखराम, रामलाल, जोगिन्द्र पुत्र भगत राम पुत्र गान्धी समभाग 720 भाग रोहड़ू सुखिया पुत्र गोविन्द पुत्र मेहलर समभाग 2160 भाग नन्दलाल, चमनलाल समभाग 325 भाग श्यामलाल पुत्र व श्रीमती फूलां देवी, कान्ता देवी पुत्रियां व श्रीमती कृष्णी विधवा मिखू पुत्र सरदारू समभाग 200 भाग, अंकू पुत्र श्यामलाल पुत्र मिखू 225 भाग श्रीमती जियुणी पुत्री व श्रीमती स्वारू विधवा सरदारू पुत्र दुन्दिया समभाग 1200 भाग मनिया राम पुत्र व श्रीमती माया देवी पुत्री गणपत पुत्र फूहणू समभाग 2520 भाग.. सीता राम पुत्र व श्रीमती लज्जा देवी, श्रीमती नीलम देवी पुत्रियां अन्नत राम पुत्र गान्धी समभाग 360 भाग, शेखर, सोनू पुत्र व श्रीमती अरुणा देवी पुत्री श्रीमती रामलीला पुत्री अन्नत राम 120 भाग अंतरिक्ष, तुषार पुत्र व श्रीमती सुजाता रानी विधवा रामदयाल पुत्र अन्नत राम समभाग 90 भाग स्थानीय वासी</p> <p>-----x-----</p> <p>सुखिया, रोहड़ू समभाग 2160 भाग हिस्सादारान बजाते ही वनिज गैर मौरूसी 5760 भाग मिनजानिब दिगर हिस्सादारान।</p>				
21.	110 मिन	120मिन	271 / 1	मुश्तरका	वारानी बीड़ खडैतर	3-2 0-15	<p>कुल 11760 भाग:- वृजलाल, श्याम लाल, नरोतमदत्त पुत्र व श्रीमती रामवन्ती, श्रीमती हरदेई पुत्रियां गिनू पुत्र ज्योती समभाग 11200 भाग कुलदीप, मदन लाल पुत्र शिवराम पुत्र रघुवीर समभाग 140 भाग प्रकाश चन्द, हरीराम समभाग 105 भाग.. पुत्र व श्रीमती रतनी देवी 35 भाग विधवा अर्जन पुत्र रघुवीर, राजू राम, सोहन लाल समभाग 80 भाग पुत्र व श्रीमती रामप्यारी 24 भाग विधवा भगत राम पुत्र रघुवीर, अभिषेक 24 भाग पुत्र व कुमारी अंकिता, कुमारी दिक्षिता पुत्रियां व श्रीमती पवना देवी विधवा बलदेव कुमार पुत्र भगत राम समभाग 12 भाग, शशी पाल, खेमचन्द पुत्र व श्रीमती रीता देवी पुत्री व श्रीमती सत्या देवी विधवा नन्दलाल पुत्र रघुवीर समभाग 140 भाग स्थानीय वासी।</p>				
			272 / 1		वारानी बीड़ खडैतर	4-5 4-0					
			273 / 1		गैर मु0 ढिंग	2-14					
			276 / 1		वारानी	0-2					
			किता-4			10-18					

22.	129 मिन अब्बल	139 मिन	189 / 1 189 / 2 किता-2	मुश्तरका किता-3	वारानी वारानी	0-2 0-7 0-9	रामपाल, सुमन कुमार पुत्र लेखराम पुत्र वधावा समभाग स्थानीय वासी।					
		139 मिन	190 / 2	निजि / लीज गरिन्दा	वारानी खडैतर गैर मु0 आवादी	2-7 1-12 0-13 0-2	रामपाल आदि मालकान वर्णित ----- X ----- रामपाल, सुमन कुमार समभाग हिस्सादार कुल 47 भाग विला लीज 31 भाग लीज दहिन्दगान 16 भाग अखिलेश संख्यान पुत्र नरेन्द्र कुमार पुत्र निवासी जुखाला लीज गरिन्दा 16 भाग।					
	जोड़ खेवट:-		किता-3			2-16						
23.	129 मिन दोम	139 मिन	190 / 1	निजि	वारानी	0-6	श्रीमती लीला देवी विधवा जगरनाथ पुत्र बलीराम स्थानीय वासी।					
24.	137 मिन	147 मिन	192 513 / 455 / 2 55 / 1	निजि	वारानी वागीचा वारानी	3-1 0-1	जगतपाल पुत्र सन्तराम पुत्र जियूणू स्थानीय वासी।					
			किता-2			3-2						
25.	143 मिन	153 मिन	26 / 1 27 / 1 36 37 38 / 1	मुश्तरका	चाही चाही चाही चाही गैर मु0 आवादी	4-6 1-17 0-5 0-6 7-9 0-5	कुल 12 भाग:- देवीराम, अनन्त राम समभाग 7 भाग शिव सिंह 5 भाग पुत्र बुधू पुत्र हजारू स्थानीय वासी।					
			किता-5			14-8						
26.	221 मिन	233 मिन	24 / 1		चाही	0-1						आवादी देह
			25 / 1		कोहली	0-5						
			198 / 1		वारानी	0-19						
			किता-3			1-5						
	कुल जोड़:-		किता-53			60.6						
2. बहली बिला ह0नं0 151												
1.	1 मिन	1 मिन	62 / 38 63 / 38 / 1 65 / 38 / 1 74 / 46 / 1 74 / 46 / 2 किता 5	मुश्तरका	वारानी गैर मु0 आवादी वारानी वारानी बंजर कदीम बंजर कदीम	0-11 0-4 0-7 0-3 0-5 0-2 0-3	कुल 7 भाग :- रामसहाई, रामलाल समभाग 6 भाग पुत्र व श्रीमती गीता देवी 1 भाग पुत्री किरपु पुत्र लौहका स्थानीय वासी।	उप महाल जंगल झलेडा	महाल नोग दली	महाल बहली झलेडा	महाल दली	
						1-4						
2.	2 मिन	2 मिन	34	मुश्तरका	वारानी	0-10 0-6	कुल 1395 भाग:- जगरनाथ 320 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती बन्ती					

			37/1		खडैतर	0-4	देवी, रीता देवी, मीरा देवी पुत्रियां व श्रीमती कर्मदेई समभाग 755				
			67/38/1		वारानी	0-4	भाग विधवा सुखराम पुत्र लौहका,				
					खडैतर	0-4	अशोक कुमार, पंकज कुमार				
							समभाग 256 भाग पुत्र व श्रीमती				
							रामप्यारी 64 भाग विधवा कृष्ण				
							राम पुत्र सुख राम स्थानीय				
							वासी।				
					वारानी	2-13					
					खडैतर	0-12					
					गैर मु0	0-11					
					आवादी						
					गैर मु0	0-2					
					बीड़						
			67/38/2		खडैतर	0-4					
			70/39/1		खडैतर	0-12					
			73/46/1			0-12					
					बंजर	0-6					
					कदीम						
					खडैतर	0-6					
			73/46/2		खडैतर	0-2					
			76/50			3-10					
					वारानी	3-4					
					बीड़	0-6					
					खडैतर						
			51/1		खडैतर	1-17					
			किता-9			11-13					
3.	3	3	75/50	निजि	वारानी	0-5	बुधी राम पुत्र लौहका पुत्र जोखर				
							स्थानीय वासी।				
4.	4 मिन	4 मिन	64/38	मुशतर्का	वारानी	0-2	कुल 8590 भाग:- रामसहाई, रामलाल पुत्र व सर्व श्रीमती रामप्यारी, रोशनी देवी, रतनी देवी, गीता देवी पुत्रियां व श्रीमती जानकी देवी विधवा किरपू पुत्र लौहका समभाग 2265 भाग अशोक कुमार, पंकज कुमार समभाग 2048 भाग पुत्र व श्रीमती रामप्यारी 512 भाग विधवा कृष्ण राम पुत्र सुखराम, जगर नाथ 2560 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती वन्ती देवी, रीता देवी, मीरा देवी पुत्रियां व श्रीमती कर्मदेई समभाग 1040 भाग विधवा सुखराम पुत्र लौहका, बुधि राम पुत्र लौहका पुत्र जोखर 165 भाग स्थानीय वासी।				
5.	5	5	49	मुशतर्का	वारानी	0-6	कुल 30 भाग:- अशोक कुमार, पंकज कुमार समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमती रामप्यारी 1 भाग विधवा कृष्ण राम पुत्र सुखराम, जगर नाथ पुत्र व सर्व श्रीमती वन्ती देवी, रीता देवी, मीरा देवी पुत्रियां व श्रीमती कर्म देई विधवा सुखराम पुत्र लौहका समभाग 25 भाग स्थानीय वासी।				
6.	7	7	54/53	मुशतर्का	गैर मु0 खण्डर	0-5	कुल 3 भाग:- प्रेम लाल पुत्र परस राम पुत्र सुदामा 1 भाग मनी राम, प्यारे सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र गंगा राम समभाग 1 भाग नन्द लाल, मनोहर लाल, बलदेव सिंह पुत्र जीत राम पुत्र सुदामा समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				

7.	9 मिन	9 मिन	14/1	मुशतर्का	वारानी	0-2	अन्नत राम, तुलसी राम, काशी राम, सदाराम, सीता राम पुत्र डण्डू पुत्र मौजी समभाग स्थानीय वासी।
			27/1		वारानी	0-1	
			किता-2			0-3	
8.	10	11	35 36	मुशतर्का	वारानी वारानी	0-12 0-5	अमन कुमार, रमन कुमार पुत्र वृजलाल पुत्र दितू समभाग स्थानीय वासी।
			किता-2			0-17	
9.	11 मिन	12 मिन	52/1 52/2	मुशतर्का	खडैतर खडैतर	6-5 0-3	कुल 96 भाग:- ब्रह्म, देवराज, सुरेन्द्रपाल पुत्र व सर्व श्रीमती बिमला, वीना पुत्रियां व श्रीमती चिन्ता देवी विधवा कांशी राम पुत्र वरडू समभाग 8 भाग कुलदीप, ललितसेन पुत्र व सर्व श्रीमती सन्तोष, अम्बिका, जगतम्बा पुत्रियां बक्शी पुत्र बरडू समभाग 8 भाग दौलत राम पुत्र व सर्व श्रीमती सावित्री, अनिता पुत्रियां व श्रीमती रामप्यारी विधवा नत्थू पुत्र बरडू समभाग 8 भाग गंगा राम, हेमराज, देशराज पुत्र व सर्व श्रीमती बोहरी देवी, भीमा देवी पुत्रियां श्रीमती पारवतू पुत्री बरडू समभाग 5 भाग पवन कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र व श्रीमती सरोज देवी पुत्री प्रेम लाल पुत्र श्रीमती पारवतू समभाग 1 भाग वासूदेव, अमरनाथ, भवदेव, पुत्र श्रीमती बन्ती देवी पुत्री श्रीमती पारवतू समभाग 1 भाग कपिल पुत्र व श्रीमती ज्योति पुत्री श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्रीमती पारवतू समभाग 1 भाग सर्व श्रीमती द्रोपती, कृष्णी पुत्रियां बरडू पुत्र फौजू समभाग 16 भाग देव कुमार, सुरेश कुमार, प्रेम कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र व कुमारी मन्जू माला, कुमारी राजमाला पुत्रियां व श्रीमती वन्ती विधवा मनशा राम पुत्र गोकल समभाग 8 भाग अमन कुमार, रमन कुमार पुत्र वृजलाल पुत्र दितू समभाग 40 भाग स्थानीय वासी।
			किता-2			6-8	
10.	12	13	30	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	0-5	कुल 5 भाग:- अमन कुमार, रमन कुमार पुत्र वृजलाल पुत्र दितू समभाग 1 भाग सर्व श्रीमती पत्तू देवी उर्फ तिलफू, डिब्बो, फिफडी पुत्रियां गुसाऊ पुत्र सिन्धू समभाग 4 भाग स्थानीय वासी।
11.	14 मिन	15 मिन	31/1	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	0-1	रतन लाल, प्रेम लाल, श्याम सिंह पुत्र रामसरण पुत्र मेहलर समभाग स्थानीय वासी।
कुल जोड़:-			किता-26		21-9		

3. बहली झलेडा ह0 नं0 153											
1.	1 मिन	1 मिन	35/1	मुशतर्का	वारानी बीड खडैतर	0-17 0-15 0-2	कुल 3750 भाग:-रोशन लाल, प्रेम कुमार, श्याम लाल, अमर जीत पुत्र लच्छमण पुत्र माधो समभाग 1250 भाग बृजलाल, कुलदीप कुमार, चमन लाल, ज्ञान चन्द, गोपाल पुत्र सन्तराम पुत्र माधो समभाग 1250 भाग सीता राम पुत्र कांसीराम पुत्र माधो 1241 भाग चन्द्रमणी पुत्र सीता राम पुत्र कांसी राम 9 भाग स्थानीय वासी।	उप महाल जंगल झलेडा	महाल नौग	महाल कुडडी	महाल बहली बिला
			किता- 2			3-2 0-15 1-17 0-10					
2.	2 मिन	2 मिन	46 / 1	मुशतर्का	वारानी	0-1	कुल 16 भाग:- रामकिशन, रमेश समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमति सरवनू 3 भाग विधवा मुनशी पुत्र दत्त, श्रीमती सवित्री विधवा मस्त राम पुत्र मुनशी 1 भाग तुलसी पुत्र दत्त पुत्र गुजू 8 भाग स्थानीय वासी।				
	कुल जोड़:-			किता-3		4-0					
4. भराथू ह0नं0 149											
1.	3 मिन	3 मिन	50 / 1	मुस्तर्का	कोहली	0-3	भूरी सिंह, बलवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र गुलावा समभाग स्थानीय वासी।	महाल बघडी	महाल कुडडी	जंगल ब्रांस	जंगल झलेडा, बहली झलेडा
2.	5 मिन	5 मिन	60 / 1	मुस्तर्का	कोहली	0-3	कुल 2 भाग:-करतार सिंह, संजय कुमार, पुत्र व श्रीमती रोशनी विधवा सुखिया पुत्र फिहजा समभाग 1 भाग भूरी सिंह, बलवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र व सर्व श्रीमती सुनीता देवी, शीला देवी पुत्रियां प्रेम सिंह पुत्र गुलावा समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
3.	6 मिन	6 मिन	36	मुस्तर्का	कोहली बीड खडैतर	1-5 1-2 0-3	काली दास, बलदेव सिंह, शिव राम पुत्र व श्रीमती ब्रह्मी देवी पुत्री व श्रीमती बन्ती देवी विधवा सहलो राम पुत्र बिहारी समभाग स्थानीय वासी।				
4.	8 मिन	8 मिन	34	मुस्तर्का	कोहली गैर मु0 पत्थर	0-18 0-15 0-3	कुल 2 भाग:-काली दास, बलदेव सिंह, शिव राम पुत्र व श्रीमती ब्रह्मी देवी पुत्री व श्रीमती बन्ती देवी विधवा सहलो राम पुत्र बिहारी समभाग 1 भाग साऊला उपनाम श्याम लाल पुत्र बिहारी पुत्र कपुरू 1 भाग स्थानीय वासी				
5.	11 मिन	11 मिन	30 / 1	मुस्तर्का	कोहली	2-1	कुल 3 भाग:-भूरी सिंह, बलवीर सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र व सर्व श्रीमती सुनीता देवी, शीला देवी पुत्रियां प्रेम सिंह पुत्र गुलावा समभाग 1 भाग काली दास, बलदेव सिंह, शिव राम पुत्र व श्रीमती ब्रह्मी देवी पुत्री व श्रीमती बन्ती देवी विधवा सहलो राम पुत्र बिहारी समभाग 1 भाग साऊला उपनाम श्याम लाल पुत्र बिहारी पुत्र कपुरू 1 भाग स्थानीय वासी।				
6.	13 मिन	14 मिन	42 / 1	गैर मौरुसी	कोहली	0-1	साऊलू पुत्र लच्छमू पुत्र फिहजा स्थानीय वासी -----x-----वखसी पुत्र लच्छमू पुत्र मेदू स्थानीय वासी गैर मौरुसी।				
7.	14 मिन	15 मिन	44	मुस्तर्का	कोहली	0-14	कुल 140 भाग:-मनोज कुमार, बलविन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती पानों देवी विधवा तोता पुत्र बोहरा समभाग 13 भाग प्यार				

							सिंह 13 भाग रोशन 39 भाग पुत्र बोहरा पुत्र फिथू, तुलसी पुत्र फिथू पुत्र छज्जू 75 भाग स्थानीय वासी।
		16 मिन	27/1	गैर मौरुसी	कोहली	0-15	मनोज कुमार आदि वर्णित:- कुल 5 भाग:- मनोज कुमार, बलविन्द्र कुमार, श्रीमती पानों देवी समभाग 1 भाग प्यार सिंह 1 भाग रोशन 3 भाग हिस्सादारान धनी राम पुत्र गुसांऊ पुत्र जालम स्थानीय वासी गैर मौरुसी।
	जोड़ खेवट		किता-2		1-9		
8.	22 मिन	27 मिन	45/1	मुस्तर्का	कोहली	1-0	प्रकाश पुत्र बंगाली पुत्र साधू स्थानीय वासी।
			45/3		कोहली	0-2	
			किता-2			1-2	
9.	24 मिन	29 मिन	49/1	मुस्तर्का	कोहली	0-9	जय सिंह, चमन लाल पुत्र नन्द लाल पुत्र लोभी समभाग स्थानीय वासी।
			61/1		वारानी	0-5	
			किता-2			0-14	
10.	37 मिन	43 मिन	405/32/1	मुस्तर्का	कोहली	0-1	कुल 5 भाग:-जगरनाथ, सदा राम, दौलत राम, हरी दास पुत्र बगसी पुत्र लछमू समभाग 4 भाग राजेश कुमार, चैन सिंह, रणजीत पुत्र व श्रीमती गीता देवी विधवा अनन्त राम पुत्र बगसी समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।
			405/32/2		कोहली	0-1	
			416/43/1		कोहली	2-6	
			किता-3			2-8	
11.	41 मिन	47 मिन	406/32/1	मुस्तर्का	कोहली	0-2	कुल 36 भाग:-मनीश कुमार, प्रवीण कुमार समभाग 26 भाग पुत्र व कुमारी रंजना, कुमारी आरती पुत्रियां व श्रीमती इन्दी समभाग 3 भाग विधवा प्रीतम चन्द पुत्र गंगा राम, श्रीमती गुलाबी विधवा गंगा राम पुत्र लछमू 7 भाग स्थानीय वासी।
			417/43/1		कोहली	0-7	
			किता-2			0-9	
12.	42 मिन	48 मिन	418/43/1	मुस्तर्का		0-18	नरैणू, प्रभू, नुरातू, बुधू, ध्यान सिंह पुत्र व श्रीमती शीला देवी पुत्री कांशी राम पुत्र मेदू समभाग स्थानीय वासी।
					कोहली	0-17	
					गैर मु0 पत्थर	0-1	
			419/43/1		कोहली	0-10	
			किता-2			1-8	
13.	45 मिन	51 मिन	407/32/1	निजी	कोहली	0-4	बुधू पुत्र कांशी राम पुत्र मेदू स्थानीय वासी।
14.	46 मिन	52 मिन	35	मुस्तर्का/गैर मौरुसी	कोहली गैर मु0 पत्थर	0-17 0-14 0-3	कुल 32 भाग:-हरीमन, बली राम, रतन लाल समभाग 6 भाग बिला राहिन पुत्र व रणजीत 8 भाग बिला राहिन 4 भाग राहिन 4 भाग पुत्र सन्त राम पुत्र तिखू, प्रेम लाल, नन्द लाल पुत्र सुख राम पुत्र खजाना समभाग 6 भाग बिला राहिन श्रीमती लछमी पुत्री मोती पुत्र खोथू 3 भाग बिला राहिन बालक राम, सौजू राम पुत्र गंगू पुत्र नोधा समभाग 6 भाग बिला राहिन सन्त राम पुत्र शिव राम पुत्र चौधरी 3 भाग बिला राहिन स्थानीय वासी श्रीमती प्रसीनू पुत्री श्रीमती दर्शनू विधवा साधू

							स्थानीय वासी मुर्तहिना —x— श्रीमती लच्छमू पारवतू मुर्तहिनान दो तिहाई वनीज गैर मौरूसी तिहाई।				
15.	49 मिन	56 मिन	500/31/1	निजी	कोहली गैर मु0 बीड़	1-2 0-17 0-5	राम लाल पुत्र शिविया पुत्र फित्थू स्थानीय वासी।				
16.	50 मिन	57 मिन	501/31/1	मुस्तर्का	कोहली गैर मु0 बीड़	1-6 1-2 0-4	कुल 112 भागः —सर्व श्रीमती पूनम, रजनी देवी, आरती, अंजू देवी, लता देवी पुत्रियां व श्रीमती उर्मिला देवी विधवा काला राम पुत्र लेख राम समभाग 24 भाग रामदेव 28 भाग पुत्र व श्रीमती चन्दो विधवा लेख राम पुत्र शिविया 39 भाग अशीष कुमार पुत्र व श्रीमती किरण कुमारी पुत्री व श्रीमती इन्द्री देवी विधवा रविन्द्र कुमार पुत्र लेख राम समभाग 21 भाग स्थानीय वासी।				
17.	51 मिन	58 मिन	26/1	निजी	कोहली गैर मु0 बीड़	1-16 1-12 0-4	देवी राम पुत्र धनी राम पुत्र गुसाऊ स्थानीय वासी।				
			28/1		कोहली गैर मु0 पत्थर कोहली	6-1 5-15 0-6 0-00-05					
			29/1								
			किता-3			7-17-05					
	62 मिन		37/1	निजी	कोहली	0-5	देवी राम वर्णितः—धनी राम हिस्सादार तवादला दहिन्दा प्यार सिंह पुत्र लालमन पुत्र सरदारू स्थानीय वासी तवादला गरिन्दा।				
	जोड़ खेवट		किता-4			8-2-05					
18.	62 मिन	76 मिन	396/65/1	मुस्तर्का	कोहली	0-4	कुल 24 भागः — सन्तोष कुमार 14 भाग पुत्र व श्रीमती सरस्वती देवी 1 भाग पुत्री व दमोदरी देवी 9 भाग विधवा बन्सी पुत्र गोकल स्थानीय वासी।				
19.	70 मिन	88 मिन	33	मुस्तर्का	कोहली	0-7	रोशन लाल, कशमीर सिंह पुत्र साऊला पुत्र नरैणू समभाग स्थानीय वासी।				
	कुल जोड़ः—		किता-29			24-3-05					
5. बघड़ी ह0 नं0 148											
1.	31 मिन	36 मिन	219/1	मुस्तर्का/ गैर मौरूसी	वाराणी खडैतर गैर मु0 बीड़ गैर मु0 आवादी	7-4 5-1 0-10 1-4 0-9	कुल 112896 भागः —महेन्द्र सिंह, कृष्ण गोपाल पुत्र व श्रीमती उर्मिला कुमारी पुत्री व श्रीमती निर्मला देवी विधवा श्याम लाल पुत्र बुधि सिंह समभाग 420 भाग भूरी सिंह पुत्र फिहना पुत्र सरन 546 भाग मेहर सिंह पुत्र काला पुत्र सरन 546 भाग श्रीमती नानकी, दुर्गी पुत्रियां सरन पुत्र मोलक समभाग 504 भाग सुनील	सतयुज	महाल मराथू, जंगल ब्रांस	जंगल ब्रांस	महाल मराथू

			351 / 1		वारानी गैर मु0 पत्थर	0-19 0-14 0-5	कुमार पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी, सीमां देवी पुत्रियां व श्रीमती रामप्यारी विधवा रणजीत सिंह पुत्र सन्त राम समभाग 2464 भाग, प्यार सिंह, प्रेम सिंह, जै सिंह पुत्र व श्रीमती सावित्री देवी समभाग 12320 भाग पुत्री व श्रीमती दमोदरी देवी विधवा सन्त राम पुत्र श्रीमती पारवतू 3696 भाग सुन्दर लाल पुत्र श्रीमती पारवतू पुत्री गोकल 18480 भाग राजेश कुमार, नरेश कुमार पुत्र व श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री व श्रीमती रूपां देवी विधवा रतन लाल पुत्र श्रीमती पारवतू समभाग 18480 भाग जगदीश, राजेन्द्र, कृष्ण समभाग 16920 भाग व रूप लाल 13704 भाग पुत्र व श्रीमती राजदेई, बिक्रमू देवी समभाग 1128 भाग पुत्रियां सीटू पुत्र नरैणू, रोशन लाल, कशमीर सिंह पुत्र साऊला पुत्र नरैणू समभाग 23688 भाग स्थानीय वासी ----- -----X----- कुल 110880 भाग:- रूप लाल 13704 भाग जगदीश, राजेन्द्र, कृष्ण समभाग 16920 भाग श्रीमती राजदेई, बिक्रमू देवी समभाग 1128 भाग रोशन लाल, कशमीर सिंह समभाग 23688 भाग सुन्दर लाल 18480 भाग राजेश कुमार, नरेश कुमार, श्रीमती उर्मिला देवी, रूपां देवी समभाग 18480 भाग सुनील कुमार, श्रीमती चम्पा देवी, सीमां देवी श्रीमती रामप्यारी समभाग 2464 भाग, प्यार सिंह, प्रेम सिंह, श्रीमती सावित्री देवी समभाग 12320 श्रीमती दमोदरी देवी 3696 भाग वजाते ही वनीज गैर मौरुसी मिन जानिव दीगर हिस्सादारान 2016 भाग।					
			किता-2			8-3						
2.	53 मिन	58 मिन	217 / 1 / 1	मुस्तर्का	खडैतर	0-10	कुल 10 भाग:-मनेन्द्र सिंह पुत्र हंस राज पुत्र अमर सिंह 5 भाग अरुण सिंह 4 भाग पुत्र व श्रीमती हेमावती 1 भाग विधवा रतन सिंह पुत्र विजय राम निवासी सलनू।					
3.	93 मिन	100 मिन	348/1 349/1	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	वारानी खडैतर वारानी गैर मु0 बीड़	8-1 1-15 6-6 5-15 4-15 1-0	कुल 3226720 भाग:- श्रीमती हेमा देवी विधवा प्रेम सिंह पुत्र खड़का 1210020 भाग लालमन 564375 भाग मस्त राम 235299 भाग जगवीर सिंह पुत्र व श्रीमती कौशल्या, विद्या समभाग 190275 भाग पुत्रियां व श्रीमती अच्छरी देवी 18401 भाग विधवा पोहलो पुत्र रामा, बाबू राम, मंगत राम, राजू उपनाम देवी राम, पुन्नू राम पुत्र निक्कू पुत्र रामा समभाग 1008350 भाग स्थानीय वासी ----- -----X----- -----कुल 2016700 भाग:- पोहलो पुत्र रामा पुत्र अर्जन 1008350 भाग, बाबू राम, मंगत					

							राम, राजू उपनाम देवी राम, पुनू राम समभाग 1008350 भाग हिस्सादारान वनीज गैर मौरूसी मिन जानिव श्रीमती हेमा देवी हिस्सादारा 1210020 भाग।				
			किता-2			13-16					
	कुल जोड़:-		किता-5			22-9					
6. महाल बैरी रजादयां ह0नं0 141											
1.	144 मिन	163 मिन	568/112/1	मुस्तर्का	बंजर कदीम	0-7	कुल 3 भाग:-कृष्ण दास, रोशन लाल पुत्र गोरख पुत्र दुडू उर्फ दुर्गा समभाग 2 भाग श्रीमती कांता देवी विधवा प्रेम लाल पुत्र गोरख 1 भाग स्थानीय वासी।	महाल सलनू	महाल दसगांव	महाल खतेड़	जंगल ब्रांस
7. महाल खतेड़ ह0नं0 130											
1	1	1	567/185/2 569/188	मुस्तर्का	खडैतर बारानी बीड़ खडैतर गैर मु0 आबादी	5-14 3-19 3-0 0-14 0-5	कुल 8 भाग:- रामप्रकाश पुत्र व श्रीमती गोदावरी समभाग 2 भाग पुत्री व श्रीमती हिमा देवी 6 भाग विधवा प्रेमा पुत्र खडका निवासी सलनू।	सतलुज	महाल लघट	महाल भटेड़ उपरती	महाल बैरी रजादयां
			किता-2			9-13					
	जोड़ खेवट		572/189	गैर मौरूसी	बारानी	0-3	रामप्रकाश आदि वर्णित:- श्रीमती हिमा देवी हिस्सादारा मारफत दुर्गा, छोटा पुत्र चुहा पुत्र मसदी समभाग स्थानीय वासी गैर मौरूसीयान।				
		2	किता-3			9-16					
2.	11 मिन	12 मिन	461/384/84	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 पत्थर	1-11 1-10 0-1	कुल 42 भाग:-बलवन्तराज, राज कुमार पुत्र व श्रीमती अमरी देवी पुत्री व श्रीमती जयदेई विधवा कृष्णू राम पुत्र रामधन समभाग 7 भाग प्रेम चन्द, जगदीश कुमार पुत्र रामधन पुत्र खजाना समभाग 14 भाग श्याम लाल, सुरेश कुमार पुत्र तोता राम पुत्र सोहणू राम समभाग 18 भाग कुलदीप पुत्र अमर नाथ पुत्र शिव राम 3 भाग स्थानीय वासी।				
3.	12 मिन	13 मिन	458/83/1	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी	3-12 2.7 1-5	कुल 56700 भाग:-बलवन्तराज, राज कुमार समभाग 6825 भाग पुत्र व श्रीमती अमरी देवी पुत्री व श्रीमती जयदेई समभाग 2625 भाग विधवा कृष्णू राम पुत्र रामधन प्रेम चन्द, जगदीश कुमार पुत्र रामधन पुत्र खजाना समभाग 18900 भाग, श्याम लाल, सुरेश कुमार पुत्र तोता राम पुत्र सोहणू राम समभाग 23652 भाग श्रीमती जुध्या देवी पुत्री सोहणू राम पुत्र संगारू 648 भाग कुलदीप पुत्र अमर नाथ पुत्र शिव राम 4050 भाग स्थानीय वासी।				
4.	13 मिन	14 मिन	466/86	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी	3-9 3-0 0-9	कुल 6 भाग:-बलवन्तराज, राज कुमार पुत्र श्रीमती अमरी देवी पुत्री व श्रीमती जयदेई विधवा कृष्णू राम पुत्र रामधन समभाग 1 भाग प्रेम चन्द, जगदीश कुमार पुत्र रामधन पुत्र खजाना				

							समभाग 2 भाग श्याम लाल, सुरेश कुमार पुत्र तोता राम पुत्र सोहणू राम समभाग 3 भाग स्थानीय वासी।				
		15	30 45 186 187		खडैतर बारानी खडैतर खडैतर	0-3 0-14 0-10 0-1	बलवन्तराज आदि वर्णित:- कुल 3 भाग:- बलवन्तराज, राज कुमार, श्रीमती अमरी देवी श्रीमती जयदेई समभाग 1 भाग प्रेम चन्द, जगदीश कुमार समभाग 2 भाग हिस्सादारान।				
			किता-4			1-8					
	जोड खेवट:-		किता-5			4-17					
5.	15 मिन	18 मिन	46 53	मुस्तर्का	बंजर कदीम खडैतर	0-13 0-10	कुल 270 भाग:-श्रीमती पूनम पत्नी बलजीत सिंह पुत्र श्रीमती लच्छमी 90 भाग पवन कुमार, चमन लाल, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 33 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी 57 भाग विधवा भूरी सिंह पुत्र पोहलो, देवराज पुत्र कांशी राम पुत्र रामदिता 20 भाग रतना, प्रेम चन्द समभाग 40 भाग पुत्र व श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी समभाग 10 भाग विधवायें कांशी राम पुत्र रामदिता, मनदीप सिंह, गगनदीप सिंह पुत्र सकतू पुत्र कांशी राम समभाग 20 भाग स्थानीय वासी।				
			किता-2			1-3					
6.	16	20	48	मुस्तर्का	बारानी बीड़ खडैतर गैर मु0 पत्थर गैर मु0 आबादी	4-2 3-6 0-6 0-8 0-2	कुल 11070 भाग:-अजय कुमार, विजय कुमार पुत्र व श्रीमती रतनी देवी विधवा सुख लाल पुत्र चिन्त राम समभाग 2025 भाग श्रीमती पूनम पत्नी बलजीत सिंह पुत्र श्रीमती लच्छमी 1665 भाग पवन कुमार, चमन लाल, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 1353 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी 2337 भाग विधवा भूरी सिंह पुत्र पोहलो, देवराज, प्रेम चन्द समभाग 1640 भाग व रतना पुत्र व श्रीमती रतनी समभाग 820 भाग पुत्री व श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी समभाग 410 भाग विधवायें कांशी राम पुत्र रामदिता, मनदीप सिंह, गगनदीप सिंह पुत्र सकतू पुत्र कांशी राम समभाग 820 भाग स्थानीय वासी।				
7.	17 मिन	21 मिन	513/118/1	मुस्तर्का	वारानी गैर मु0 आवादी गैर मु0 पत्थर	4-12 4-2 0-8 0-2	कुल 28080 भाग:- श्रीमती पूनम पत्नी बलजीत सिंह पुत्र श्रीमती लच्छमी 8280 भाग, कुमारी मेहर पुत्री हरदयाल सिंह पुत्र श्रीमती लच्छमी 135 भाग पवन कुमार, चमन लाल, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 3432 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी 5928 भाग विधवा भूरी सिंह पुत्र पोहलो, देवराज, रतना समभाग 4160 भाग व प्रेम चन्द 1270 भाग पुत्र व श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी समभाग 1040 भाग विधवायें कांशी राम पुत्र रामदिता, मनदीप सिंह 1985 भाग गगनदीप सिंह 1040 भाग पुत्र सकतू पुत्र कांशी राम, मस्त राम पुत्र ओमप्रकाश पुत्र				

							रामदितू 810 भाग स्थानीय वासी।				
8.	18 मिन	22 मिन	565/184	मुस्तर्का	खडैतर	0-4	कुल 16 भाग:- देशराज 4 भाग पुत्र व श्रीमती शकुन्तला देवी 1 भाग विधवा रूप लाल पुत्र लच्छमण, कर्म सिंह 6 भाग पुत्र व श्रीमती चिन्ती 5 भाग विधवा लच्छमण पुत्र फुहणू स्थानीय वासी।				
9.	21 मिन	25 मिन	451/68/1	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी गैर मु0 पत्थर	6-18 5-7 0-14 0-17	कुल 576 भाग:- हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 174 भाग सुनील कुमार 281 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 121 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम स्थानीय वासी।				
10.	22	26	353/31 354/31	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी गैर मु0 पत्थर बारानी बीड़ खडैतर गैर मु0 आबादी	0-12 0-6 0-5 0-1 6-18 6-0 0-5 0-13	कुल 1200 भाग:- प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 600 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 263 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरू, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 225 भाग जितेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र तुलसी राम 112 भाग स्थानीय वासी।				
			किता-2			7-10					
11.	23 मिन	27 मिन	38/1 600/251 किता-2	मुस्तर्का	बंजर कदीम बारानी	0-1 1-1 1-2	कुल 48 भाग:- रोहड़ू पुत्र शेरू पुत्र कनिया 16 भाग हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 8 भाग सुनील कुमार 4 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 4 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 8 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 5 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरू, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 3 भाग स्थानीय वासी।				
12.	24	28	44	मुस्तर्का	बंजर कदीम	0-16	कुल 96 भाग:- कर्म सिंह 18 भाग पुत्र व श्रीमती चिन्ती 15 भाग विधवा लच्छमण पुत्र फुहणू देशराज 12 भाग पुत्र व श्रीमती शकुन्तला देवी 3 भाग विधवा रूप लाल पुत्र लच्छमण, रोहड़ू पुत्र शेरू पुत्र कनिया 16 भाग हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 8 भाग सुनील कुमार 4 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 4 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 8 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 5 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरू, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 3 भाग स्थानीय वासी।				

13.	25	29	684/462/ 384/85	मुस्तर्का	गैर मु0 दुकान	0-1	कुल 8 भाग :- श्रीमती द्रोपती विधवा राम पुत्र टौणू 4 भाग संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सपना देवी पुत्री व श्रीमती रूपा देवी विधवा बाबू राम पुत्र बुधू समभाग 3 भाग श्रीमती सारिका, सृष्टी पुत्रियां व श्रीमती कौशल्या देवी विधवा विजय कुमार पुत्र बाबू राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।
14.	27 मिन	31 मिन	67/1	मुस्तर्का	खडैतर गैर मु0 आबादी	0-19 0-14 0-5	कुल 40 भाग:- हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 11 भाग संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सपना समभाग 4 भाग पुत्री व श्रीमती रूपां देवी विधवा बाबू राम पुत्र बुधू 17 भाग श्रीमती सारिका, सृष्टी पुत्रियां व श्रीमती कौशल्या देवी विधवा विजय कुमार पुत्र बाबू राम समभाग 2 भाग अमर नाथ पुत्र कलिया पुत्र मोती 6 भाग स्थानीय वासी।
15	29 मिन	33 मिन	728/449/66	मुस्तर्का	बारानी	0-4	होशियार सिंह, जसवन्त सिंह, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुन्दरी देवी विधवा तरहडू पुत्र मोती समभाग स्थानीय वासी।
16.	30 मिन	34 मिन	51 54 57/1 58	मुस्तर्का	बारानी बंजर कदीम खडैतर बारानी गैर मु0 आबादी बारानी गैर मु0 आबादी	0-1 2-18 0-3 2-15 1-16 1-10 0-6 0-13 0-5 0-8	कुल 192 भाग:- चैत राम, अच्छर सिंह पुत्र बलिया पुत्र मोती समभाग 64 भाग अमर नाथ पुत्र व श्रीमती सपना कुमारी समभाग 32 भाग पुत्री व श्रीमती खलैली देवी 19 भाग विधवा कलिया पुत्र मोती, अभिषेक, अनिकेत पुत्र व श्रीमती निक्को देवी उर्फ मनीषा देवी विधवा हंस राज पुत्र कलिया समभाग 13 भाग, होशियार सिंह, जसवन्त सिंह, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुन्दरी देवी विधवा तरहडू पुत्र मोती समभाग 64 भाग स्थानीय वासी।
			किता-4			5-8	
17.	33 मिन	37 मिन	515/120/1 121	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी बारानी	7-11 6-6 1-5 0-14	सन्त राम, जोधा पुत्र व श्रीमती पारवतू विधवा तुलसी पुत्र लाला समभाग स्थानीय वासी।
			किता-2			8-5	
18.	34 मिन अब्बल	38 मिन	729/449/ 66/1	निजी	बारानी	0-3	सतीश कुमार पुत्र तरहडू पुत्र मोती स्थानीय वासी।
19.	34 मिन दोम	38 मिन	729/449/66/ 2/1 817/790/ 488/94 816/786/ 689/ 670/ 506/98/1 814/776/617/ 412/279/1	निजी	बारानी बारानी गैर मु0 आबादी खडैतर गैर मु0 पत्थर	2-18 0-8 2-3 1-19 0-4 2-14 2-10 0-4	रोशन लाल पुत्र कांशी राम पुत्र कदारू स्थानीय वासी।
			किता-4			8-3	

20.	35 मिन	40 मिन	818/790/488/94/1	निजी	बारानी	1-4	राजेन्द्र कुमार पुत्र कांशी राम पुत्र कदारु स्थानीय वासी				
			95 815/786/689/ 670/506/98/1 813/776/617/ 412/279/1		बारानी बारानी	0-5 0-13 1-13					
					खडैतर गैर मु0 पत्थर	1-10 0-3					
			किता-4			3-15					
21.	36	41	791/488/94	मुस्तर्का	बारानी	0-3	रोशन लाल, राजेन्द्र कुमार पुत्र कांशी राम पुत्र कदारु समभाग स्थानीय वासी				
22.	39 मिन अब्बल	44 मिन	785/689/670/ 506/98/1	मुस्तर्का	बारानी	1-1	कुल 54 भाग:- गंगा सिंह 17 भाग पुत्र व श्रीमती दमोदरी 22 भाग विधवा हरी दास पुत्र कदारु स्थानीय वासी श्रीमती सोनिका देवी पत्नी भरतभूषण पुत्र सदा राम 5 भाग निवासी बनौला श्रीमती सुन्दरु देवी पत्नी शंकर पुत्र खजाना 10 भाग निवासी भटेड़ उपरली				
23.	39 मिन दोम	44 मिन	792/488/94 490/96 657/493/96/1 किता-3	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी बारानी	4-5 0-1 1-5 5-11	गंगा सिंह पुत्र व श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र कदारु समभाग स्थानीय वासी				
24.	43 मिन	48 मिन	453/382/69/1	मुस्तर्का/ गैर मौरुसी	बारानी	2-4	कुल 4 भाग:- श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र कदारु 1 भाग होशियार सिंह, जसवन्त सिंह, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुन्दरी देवी विधवा तरहडू पुत्र मोती समभाग 3 भाग स्थानीय वासी —x— होशियार सिंह, जसवन्त सिंह, सतीश कुमार, श्रीमती सुन्दरी देवी समभाग 3 भाग वजातेही वनीज गैर मौरुसी 1 भाग मिन जानिबा दमोदरी हिस्सादारा				
25.	44 मिन	49 मिन	122/1	मुस्तर्का	बारानी	0-17	कुल 10 भाग:- सर्व श्रीमती कमला, विमला देवी, गीता देवी, कौशल्या देवी पुत्रियां दलेला पुत्र फिहना समभाग 1 भाग बसन्त सिंह, कृष्ण चन्द पुत्र पीरु पुत्र फिहना समभाग 5 भाग श्रीमती कमला पत्नी हुक्म चन्द पुत्र वरडू 1 भाग श्रीमती बिमला देवी पत्नी हरनाम सिंह पुत्र नामालूम 1 भाग स्थानीय वासी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी ज्ञान सिंह पुत्र किरपू 1 भाग निवासी छजवाला श्रीमती गीतां देवी पत्नी कर्म सिंह पुत्र रमल 1 भाग निवासी बलोह				
			126/1		बारानी	0-1					
			613/269		खडैतर	7-10					
			किता-3			8-8					
26.	46 मिन	55 मिन	517/129/1 517/129/2	मुस्तर्का	बारानी बारानी	0-3 0-1	कुल 2852 भाग:- जोगिन्द्र सिंह, राजेन्द्र कुमार समभाग 744 भाग पुत्र व श्रीमती मड़ी देवी 341 भाग विधवा नन्दू पुत्र पीरु, रवि कुमार पुत्र व श्रीमती मनीषा कुमारी पुत्री व श्रीमती रूको देवी विधवा सुरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दू समभाग 341 भाग बसन्त सिंह 736 भाग व कृष्ण चन्द 690 भाग पुत्र पीरु पुत्र फिहना स्थानीय वासी।				
			किता-2			0-4					

27.	47 मिन	56 मिन	82६1	मुस्तर्का	बारानी गैर मु० आबादी गैर मु० पत्थर	5-5 4-19 0-4 0-2	कुल 1560 भाग:- जोगिन्द्र सिंह, राजेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती मड़ी देवी विधवा नन्दू पुत्र पीरू समभाग 531 भाग, रवि कुमार पुत्र व श्रीमती मनीषा कुमारी पुत्री व श्रीमती रूको देवी विधवा सुरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दू समभाग 177 भाग बसन्त सिंह पुत्र पीरू पुत्र फिहना 294 भाग कुलदीप सिंह, रमेश चन्द, सुरजीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह पुत्र पीरू समभाग 96 भाग अवतार सिंह पुत्र कशमीर सिंह पुत्र महाजन 32 भाग स्थानीय वासी चमन लाल पुत्र परस राम पुत्र गोकल 16 भाग निवासी निहारखन वासला, सीता राम पुत्र सन्त राम पुत्र मसताना 12 भाग अजय कुमार पुत्र विशन दास पुत्र सन्त राम 12 भाग, कृष्ण चन्द पुत्र पीरू पुत्र फिहना 390 भाग स्थानीय वासी।				
28.	49 मिन	58 मिन	789/766/652/ 478/388/91/1	मुस्तर्का	बारानी	0-9	कुल 7 भाग:-परमजीत, शमशेर सिंह पुत्र व सर्व श्रीमती अंजना कुमारी, शीला देवी पुत्रियां व श्रीमती सावित्री देवी विधवा सुख राम पुत्र मनी राम समभाग 1 भाग, बाबू राम, प्रकाश चन्द, राम पाल पुत्र व सर्व श्रीमती सावित्री देवी, सोमा देवी, सुनीता पुत्रियां व श्रीमती प्रसीनू विधवा मनी राम पुत्र बुधू समभाग 6 भाग स्थानीय वासी।				
	206 मिन	221 मिन	486/93 612/268/1 417/283/1		गैर मु० आबादी खडैतर बंजर कदीम गैर मु० पत्थर	0-1 1-2 4-3 3-19 0-4					
			किता-4			5-15					
29.	54 मिन	63 मिन	693/508/103/1 442/59/1	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	बारानी गैर मु० आबादी बंजर कदीम	4-3 3-15 0-8 0-1	कुल 540 भाग:-श्रीमती पूनम पत्नी बलजीत सिंह पुत्र श्रीमती लच्छमी 45 भाग पवन कुमार, चमन लाल, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 33 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी 57 भाग विधवा भूरी सिंह पुत्र पोहलो, देवराज, रतना, प्रेम चन्द समभाग 60 भाग पुत्र व श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी समभाग 10 भाग विधवायें कांशी राम पुत्र रामदिता, मनदीप सिंह, गगनदीप सिंह पुत्र सकतू पुत्र कांशी राम समभाग 20 भाग श्रीमती नरेन्द्रा विधवा राम लाल पुत्र विजे राम 270 भाग श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्त राम पुत्र संगारू 45 भाग स्थानीय वासी				
			किता-2			4-4	-----x----- कुल 540 भाग:-श्रीमती पूनम 45 भाग पवन कुमार, चमन लाल, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 33 भाग श्रीमती कृष्णी 57 भाग, देवराज, रतना, प्रेम चन्द समभाग 60 भाग श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी समभाग 10 भाग, मन्दीप सिंह, गगनदीप सिंह समभाग 20 भाग, श्रीमती गीता देवी 45 भाग वजातेही 270 भाग वनीज गैर मौरुसी मिन जानिव श्रीमती नरेन्द्रा 270 भाग हिस्सादारा।				

30.	55	65	32	मुस्तर्का / गैर मौरूसी	बंजर कदीम गैर मु0 बीड़	2-2 1-4 0-18	<p>कुल 1008 भाग:- रोहडू पुत्र शेरू पुत्र कनिया 240 भाग हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 120 भाग सुनील कुमार 60 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 60 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 120 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 75 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरू, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 45 भाग स्थानीय वासी सीता राम पुत्र व सर्व श्रीमती स्वारू, जयदेई पुत्रियां गोपाला पुत्र जग्गा समभाग 72 भाग सर्व श्रीमती निर्मला देवी, सुमन देवी, कुसुम देवी पुत्रियां ब्रह्म पुत्र गोपाला समभाग 132 भाग श्रीमती गीता देवी विधवा ब्रह्म पुत्र गोपाला 36 भाग प्रीतम सिंह, सुरेश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र गोपाला समभाग 16 भाग अरुनीश कुमार पुत्र व श्रीमती माया देवी पुत्री रमेश चन्द पुत्र रोशन लाल समभाग 8 भाग जगदीश, प्यार सिंह पुत्र व श्रीमती कमला, बन्ती, नीमां पुत्रियां श्रीमती बन्जारू पुत्री गोपाला समभाग 20 भाग विकास ठाकुर पुत्र व श्रीमती रीना कुमारी, मोनिका कुमारी, सोनू कुमारी पुत्रियां श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्रीमती बन्जारू समभाग 4 भाग निवासी नालग</p> <p>-----x-----</p> <p>हिमत सिंह, हुक्म चन्द समभाग 15 भाग वजातेही वनीज गैर मौरूसी 6 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान</p>				
31.	56 मिन	66 मिन	39/1	मुस्तर्का / गैर मौरूसी	बंजर कदीम	0-5	<p>कुल 672 भाग:- रोहडू पुत्र शेरू पुत्र कनिया 176 भाग हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरू 88 भाग सुनील कुमार 44 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 44 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 88 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 55 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरू, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 33 भाग रोहित कुमार पुत्र व श्रीमती लता देवी, सपना देवी पुत्रियां व श्रीमती कला देवी विधवा जोधा पुत्र संसारू समभाग 16 भाग सुखिया 64 भाग व रामा नन्द 16 भाग पुत्र संसारू पुत्र मोहन, श्रीमती कासू पुत्री नेगी पुत्र जवाहर 48 भाग स्थानीय वासी -----x-----कुल 672 भाग:- रोहडू 176 भाग हिमत</p>				

							सिंह 88 भाग सुनील कुमार 44 भाग श्रीमती डिम्पल, श्रीमती रोशनी समभाग 44 भाग, प्रकाश चन्द, श्रीमती कलां समभाग 88 भाग श्रीमती लच्छमी देवी 55 भाग रविन्द्र, श्रीमती प्रिकल, श्रीमती शीला देवी समभाग 33 भाग वजातेही 528 भाग वनीज गैर मौरुसी मिन जानिव सुखिया, रामा नन्द, श्रीमती कासू, रोहित कुमार, श्रीमती लता देवी, सपना देवी, श्रीमती कला देवी समभाग 144 भाग हिस्सादारान				
32.	57	67	40	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	बंजर कदीम	0-7	<p>कुल 64 भाग:- रोहडू पुत्र शेरु पुत्र कनिया 16 भाग हिमत सिंह पुत्र मुनसी राम पुत्र शेरु 8 भाग सुनील कुमार 4 भाग पुत्र व श्रीमती डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 4 भाग विधवा हुक्म चन्द पुत्र मुनसी राम, प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती कलां समभाग 8 भाग पुत्री व श्रीमती लच्छमी देवी 5 भाग विधवा तुलसी राम पुत्र शेरु, रविन्द्र पुत्र व श्रीमती प्रिकल पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा नन्द लाल पुत्र तुलसी राम समभाग 3 भाग मनसा पुत्र व श्रीमती मनभरू विधवा बलिया पुत्र लटूरिया समभाग 16 भाग स्थानीय वासी</p> <p>-----x-----</p> <p>रोहडू 16 भाग हिमत सिंह 8 भाग सुनील कुमार 4 भाग श्रीमती डिम्पल, श्रीमती रोशनी समभाग 4 भाग, प्रकाश चन्द, श्रीमती कलां समभाग 8 भाग श्रीमती लच्छमी देवी 5 भाग रविन्द्र, श्रीमती प्रिकल, श्रीमती शीला देवी समभाग 3 भाग वजातेही 48 भाग वनीज गैर मौरुसी मिन जानिव मनसा, श्रीमती मनभरू 16 भाग हिस्सादारान</p>				
33.	58 मिन	68 मिन	37/1	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	बारानी गैर मु0 आबादी	<p>2-18</p> <p>1-18</p> <p>1-0</p>	<p>कुल 691200 भाग:- श्रीमती प्रशोतमा विधवा प्रकाश चन्द पुत्र रामदितू 336 भाग श्रीमती जुध्या विधवा ध्याना पुत्र जालम 21600 भाग श्रीमती सुख देई विधवा पोला पुत्र नरंजन 21600 भाग श्रीमती हरदेई विधवा शिव राम पुत्र जोती 12960 भाग श्रीमती मंगला देवी विधवा सन्त राम पुत्र पोहलो 2025 भाग सर्व श्रीमती घोगा, गौरजू विधवायें घमीरा पुत्र भजनू समभाग 21600 भाग अभिषेक ठाकुर पुत्र चमन लाल पुत्र रामदास 1050 भाग श्रीमती दर्शनू विधवा संसारू पुत्र काजी 405 भाग श्रीमती कृष्णी विधवा वरडू पुत्र संसारू 135 भाग श्रीमती कैली विधवा बालकू पुत्र जियूणू 14400 भाग श्रीमती रेशमू विधवा गोकल पुत्र गुरमुख 1200 भाग श्रीमती</p>				

							द्वारकू विधवा संगारा पुत्र फुहणू 10800 भाग रूप सिंह, रतन सिंह पुत्र चिन्त राम पुत्र फुहणू समभाग 383686 भाग विजय कुमार, अजय कुमार पुत्र व श्रीमती रतनी देवी विधवा सुख लाल पुत्र चिन्त राम समभाग 191843 भाग श्रीमती साऊली विधवा रामधन पुत्र फुहणू 2160 भाग श्रीमती पंचू विधवा भगत राम पुत्र फुहणू 5400 भाग स्थानीय वासी ———x—— विजय कुमार, अजय कुमार, श्रीमती रतनी समभाग 191843 भाग रूप सिंह, रतन सिंह समभाग 383686 भाग वजातेही 575529 भाग वनीज गैर मौरुसी मिन जानिव दीगर हिस्सादारान 115671 भाग।				
34.	59 मिन	69 मिन	691/672/99/1	मुस्तर्का	बारानी	0-4	कुल 8 भाग:- संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सपना समभाग 2 भाग पुत्री व श्रीमती रूपा देवी विधवा बाबू राम पुत्र बुधू 5 भाग श्रीमती सारिका, सृष्टी पुत्रियां व श्रीमती कौशल्या देवी विधवा विजय कुमार पुत्र बाबू राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
35.	60 मिन	70 मिन	440/56/1	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	बारानी	4-6	कुल 20 भाग:- कर्म सिंह 8 भाग पुत्र व श्रीमती चिन्ती 5 भाग विधवा लच्छमण पुत्र फुहणू देश राज 6 भाग पुत्र व श्रीमती शकुन्तला देवी 1 भाग विधवा रूप लाल पुत्र लच्छमण स्थानीय वासी				
36.	87	99	125	मुस्तर्का	बारानी	0-3	कुल 24 भाग:- अभिया राम, रतन लाल, विद्यासागर पुत्र बालकू पुत्र फौजू समभाग 15 भाग, सुरेन्द्र, रजिन्द्र पुत्र किरपा पुत्र बालकू समभाग 5 भाग स्थानीय वासी श्रीमती रेशमू पुत्री फौजू पुत्र कुन्दो निवासी भटेड उपरली 4 भाग				
37.	88	100	123	मुस्तर्का	बारानी	0-10	कुल 9240 भाग:- सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना देवी पुत्रियां मगनी राम उर्फ मगन दास पुत्र जमनू समभाग 1267 भाग रौणकी प्रसाद, सन्त राम पुत्र जमनू पुत्र जियूणू समभाग 1764 भाग अभय पुत्र व श्रीमती कांता देवी विधवा दयासागर पुत्र जमनू समभाग 882 भाग नीलम कुमार उर्फ अनिल कुमार 574 भाग कुलदीप कुमार, कशमीरी लाल समभाग 308 भाग पुत्र विशन दास पुत्र जमनू यशपाल पुत्र रामदास पुत्र संगारू 980 भाग श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्त राम पुत्र संगारू 1155 भाग रामलोक, श्रीराम, नन्द लाल पुत्र व सर्व श्रीमती प्रेमी, चम्पा पुत्रियां व श्रीमती निक्की विधवा मोहनू पुत्र फिथू समभाग 1980 भाग देवराज, प्रशोतम, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती मधू देवी				

							पुत्री श्रीमती रूपा पुत्री मोहनू समभाग 330 भाग स्थानीय वासी।				
38.	89	101	124	मुस्तर्का	बारानी	0-8	कुल 4 भाग: — बाबू राम 3 भाग पुत्र व श्रीमती गुर देई 1 भाग विधवा कृष्ण पुत्र कीडू स्थानीय वासी				
39.	90 मिन	102 मिन	282/1	मुस्तर्का		5-18	कुल 177724800 भाग: — लेख राम पुत्र किरपा पुत्र मसदी 4768500 भाग निवासी खलेट, सुरेन्द्र, रजिन्द्र पुत्र किरपा पुत्र बालकू समभाग 3856875 भाग अभिया राम, रतन लाल, विद्यासागर पुत्र बालकू पुत्र फौजू समभाग 11570625 भाग स्थानीय वासी श्रीमती रेशमू पुत्री फौजू पुत्र कुन्दो 3085500 भाग निवासी भटेड़ उपरली, हरीदास पुत्र रामदितू पुत्र गणेशा 9256500 भाग शिव राम पुत्र तिखू पुत्र गणेशा 9256500 भाग सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना देवी पुत्रियां मगनी राम उर्फ मगन दास पुत्र जमनू समभाग 7323260 भाग, रौणकी प्रसाद, सन्त राम पुत्र जमनू पुत्र जियूणू समभाग 10195920 भाग अभय पुत्र व श्रीमती कांता देवी विधवा दया सागर पुत्र जमनू समभाग 5097960 भाग नीलम कुमार उर्फ अनिल कुमार 3317720 भाग पुत्र व कुलदीप कुमार, कशमीरी लाल समभाग 1780240 भाग पुत्र विशन दास पुत्र जमनू, यशपाल पुत्र रामदास पुत्र संगारू 5664400 भाग श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्त राम पुत्र संगारू 6675900 भाग रामलोक, श्रीराम, नन्द लाल पुत्र व सर्व श्रीमती प्रेमी, चम्पा पुत्रियां व श्रीमती निक्की विधवा मोहनू पुत्र फिशू समभाग 11444400 भाग देवराज, प्रशोतम, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती मधू देवी पुत्री श्रीमती रूपा पुत्री मोहनू समभाग 1907400 भाग ओमप्रकाश 1264450 भाग व सुरेश कुमार पुत्र व श्रीमती रामप्यारी समभाग 6721550 भाग विधवा देवीरूप पुत्र नरेणू, राम लाल पुत्र व सर्व श्रीमती लच्छमी देवी, रामकली पुत्रियां श्रीमती राधा पुत्री नरेणू समभाग 3993000 भाग राकेश पुत्र व श्रीमती गीता विधवा रोड़ा पुत्र कोका समभाग 1496550 भाग कालू पुत्र कोका पुत्र मोहन 1496550 भाग कंचन, टोटो पुत्र व श्रीमती मीना कुमारी पुत्री व श्रीमती मड़ी विधवा सन्तू पत्र घुंगर समभाग 2993100 भाग श्रीमती सावित्री विधवा खजाना पुत्र हीरू 598620 भाग नरेश कुमार पुत्र व पूजा कुमारी,				
				बंजर		4-6					
				कदीम		1-8					
				खडैतर		0-4					
				बीड़							
				खडैतर							

							आरती कुमारी पुत्रियां व श्रीमती उर्मिला देवी विधवा खेम राज पुत्र बलिया समभाग 119724 भाग गोपाल, दीना नाथ पुत्र व सर्व श्रीमती इन्द्रा देवी, मधू पुत्रियां बलिया पुत्र हीरू समभाग 478896 भाग गोपाल दास पुत्र व श्रीमती फिफडी विधवा महन्तू पुत्र हीरू समभाग 598620 भाग तिलक राज, जैनन्द पुत्र व श्रीमती अच्छरी देवी विधवा गीगा पुत्र हीरू समभाग।				
39.	वर्णित						14265240 भाग श्याम लाल, जैकृष्ण, प्रेम लाल पुत्र मुनसी राम पुत्र रामजी समभाग 1347390 भाग श्रीमती सलिन्द्रा पत्नी पवन कुमार पुत्र मुनसी राम 449130 भाग बुधू निकनू पुत्र रामजी पुत्र मोहन समभाग 3593040 भाग राज कुमार पुत्र व श्रीमती वृन्दा पुत्री व श्रीमती रतनी विधवा निकडू पुत्र रामजी समभाग 1796520 भाग हरी कुमार, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती सरिता पुत्री व श्रीमती हीरा विधवा जौकी उर्फ जानकी राम पुत्र रामजी समभाग 1796520 भाग राज कुमार, रमेश चन्द पुत्र व श्रीमती गम्भरी देवी विधवा मनी राम पुत्र श्रीमती बन्जारू समभाग 7152750 भाग बाबू राम 8330850 भाग पुत्र व श्रीमती गुरदेई 2776950 भाग विधवा कृष्ण पुत्र कीडू, रतन लाल पुत्र सुदामा पुत्र जोधू 6171000 भाग दिनेश कुमार, बलराम पुत्र रतन लाल पुत्र सुदामा समभाग 2468400 भाग कुलदीप चन्द, ललीत सेन पुत्र वगसी पुत्र वरडू समभाग 7152750 भाग वासूदेव, ओमप्रकाश पुत्र लखू पुत्र फिथू समभाग 2993100 भाग श्रीमती दासी पुत्री सुदामा पुत्र जोधू 2468400 भाग स्थानीय वासी				
40.	92 मिन	106 मिन	71/1	मुस्तर्का	बारानी	0-3	कुल 6 भाग:- योगराज, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती सुमनलता, निशा कुमारी पुत्रियां रूप लाल पुत्र टीटा समभाग 3 भाग बिला राहिन हंसराज पुत्र चन्दू पुत्र बंशी 1 भाग बिला राहिन चन्दू पुत्र बंशी पुत्र बुधू 2 भाग राहिन स्थानीय वासी श्रीमती पानों पत्नी हुतासन पुत्र ना-मालूम निवासी भटेड उपरली मुर्तहिना				
41.	94 मिन	108 मिन	72/1	मुस्तर्का / गैर मौरुसी	बारानी	0-2	कुल 12 भाग:- योगराज, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती सुमनलता, निशा कुमारी पुत्रियां रूप लाल पुत्र टीटा समभाग 3 भाग हंसराज पुत्र चन्दू पुत्र बंशी 1 भाग, चन्दू पुत्र बंशी पुत्र बुधू 2 भाग स्थानीय वासी श्रीमती				

							नरिन्द्रा विधवा राम लाल पुत्र विजय राम 6 भाग निवासी मझासू -----x----- चन्दू, टीटा, हंसराज, रूप लाल वजातेही 1 भाग वनीज गैर मौरुसी 1 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान				
42.	101	115	483/92	मुस्तर्का	गैर मु0 दुकान	0-1	कुल 2 भाग:- राम लाल पुत्र मोती पुत्र श्यामू 1 भाग निवासी रोपा कुलातर, इन्द्रदत्त पुत्र महन्त राम पुत्र रामा 1 भाग निवासी कसमैला				
43.	102 मिन	116 मिन	482/92/1	मुस्तर्का/ दावेदार राहिन	गैर मु0 आबादी	0-1	कुल 2 भाग:- चमन लाल पुत्र कृष्ण पुत्र ना मालूम 1 भाग निवासी पधयाण, दलीप चन्द पुत्र कांशी राम पुत्र नामालूम 1 भाग निवासी हटवाड -----x-----विशन दास, निक्का पुत्र व श्रीमती रोशनी पुत्री व श्रीमती दसोधा विधवा लच्छमण पुत्र कपूरा समभाग स्थानीय वासी दावेदार राहिनान				
44.	104	118	476/388/91	मुस्तर्का	गैर मु0 आबादी	0-2	रमेश चन्द, गोपाल दास, सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती विद्या पत्नी शिवदत्त पुत्र लच्छमण समभाग निवासी महासन लैड़ी तहसील सुन्दरनगर				
45.	117 मिन अब्बल	131 मिन	798/741/605/258/1	निजी	बारानी	0-2	जीतराम पुत्र सुन्दर पुत्र निक्कू निवासी लैहड तह0 सुन्दरनगर जिला मण्डी				
46.	117 मिन दोम	131 मिन	798/741/605/258/2	निजी	बारानी गैर मु0 आबादी	3-10 3-5 0-5	श्रीमती मलो उर्फ रोशनी विधवा गोपाला पुत्र फान्दी स्थानीय वासी।				
47.	119	133	797/741/605/258	निजी	बारानी	0-2	अक्षय कुमार पुत्र कुलदीप चन्द पुत्र ज्ञान चन्द निवासी औहर तहसील घुमारवीं				
48.	120 मिन	134 मिन	740/605/258/1	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी	4-4 3-9 0-15	कुल 2 भाग:- लेख राम, प्यार सिंह समभाग 1 भाग पुत्र व श्रीमती द्रोपती 1 भाग विधवा सरन उपनाम रामसरन पुत्र फान्दी स्थानीय वासी				
49.	121 मिन	135 मिन	747/294/1 747/294/2 295/1 296 297/1 298/1	मुस्तर्का	खडैतर बीड़ खडैतर खडैतर बारानी बंजर कदीम खडैतर बीड़ खडैतर बंजर कदीम	3-13 3-9 0-4 0-1 0-6 0-6 1-13 1-4 0-9 0-2	पिकल कुमार पुत्र व श्रीमती सुहारु विधवा छोटा पुत्र चुहा समभाग स्थानीय वासी				
			किता-6			6-1					

50.	122 मिन	136 मिन	746/294/1 305/1	मुस्तर्का	बंजर कदीम खडैतर	0-1 4-1 4-2	अनन्त राम, नन्द लाल पुत्र दुर्गा पुत्र चुहा समभाग स्थानीय वासी				
51.	123	137	303	मुस्तर्का/ गैर मौरूसी	बारानी	0-19	कुल 16 भाग:- खजाना पुत्र संगारु पुत्र गुरमुख 1 भाग श्याम लाल, सुरेश कुमार पुत्र तोता राम पुत्र सोहणू राम समभाग 1 भाग अनन्त राम, नन्द लाल पुत्र दुर्गा पुत्र चुहा समभाग 7 भाग पिकल कुमार पुत्र व श्रीमती सुहारु विधवा छोटा पुत्र चुहा समभाग 7 भाग स्थानीय वासी—x— दुर्गा, छोटा समभाग 14 भाग वजातेही वनीज गैर मौरूसी 2 भाग मिनजानिव दीगर हिस्सादारान।				
52.	125 मिन	139 मिन	413/283/1	निजी	बारानी गैर मु0 बीड़	1-18 1-13 0-5	सूका राम पुत्र दुर्गा पुत्र चुहा स्थानीय वासी				
53.	130	144	477/388/91	मुस्तर्का	गैर मु0 आबादी	0-2	प्रशेतम लाल, ज्ञान चन्द, पूर्ण चन्द पुत्र गिरधारी लाल पुत्र गणेश दास समभाग निवासी घण्डालवी तहसील घुमारवीं।				
54.	161	175	414/283	निजी	बंजर कदीम गैर मु0 पत्थर बंजर जदीद	4-19 2-10 0-9 2-0	किरपा पुत्र विपतू पुत्र तिखू निवासी भटेड़ उपरली।				
55.	164	178	257	मुस्तर्का	खडैतर	0-16	कुल 12 भाग:- श्रीमती निक्की विधवा धनू पुत्र मकोड़ू 1 भाग सर्व श्रीमती जुध्या, वृकमू पुत्रियां मकोड़ू पुत्र जवाहर समभाग 1 भाग काला पुत्र व श्रीमती महन्तू विधवा टटू पुत्र जवाहर समभाग 4 भाग श्रीमती सोमां देवी पुत्री थेवड़ पुत्र फुहणू 3 भाग स्थानीय वासी कमल कुमार पुत्र बालक राम पुत्र गपिया 3 भाग निवासी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी।				
56.	165 मिन	179 मिन	24/1	मुस्तर्का	खडैतर	1-9	कुल 1032 भाग:- शशी शर्मा पुत्र किशन चन्द पुत्र कांशी राम 48 भाग वासूदेव पुत्र कांशी राम पुत्र नरपत 24 भाग निवासी बड़ाई तहसील बलदाड़ा जिला मण्डी, शशी पुत्र किशन चन्द पुत्र भगत राम 72 भाग निवासी कलौहड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी, श्रीमती निक्की विधवा धनू पुत्र मकोड़ू 86 भाग सर्व श्रीमती जुध्या, वृकमू पुत्रियां मकोड़ू पुत्र जवाहर समभाग 86 भाग काला 100 भाग पुत्र व श्रीमती महन्तू 172 भाग विधवा टटू पुत्र जवाहर, श्रीमती सोमां				

							देवी पुत्री थेवड़ पुत्र फुहणू 186 भाग अंशुल कुमार पुत्र व नितिका कुमारी, मनीषा कुमारी पुत्रियां व श्रीमती आशा देवी विधवा पवन कुमार पुत्र शिव राम समभाग 129 भाग सुभाष चन्द पुत्र शिव राम पुत्र फुहणू 129 भाग स्थानीय वासी।				
57.	166 मिन	180 मिन	21/1	मुस्तर्का	बारानी खडैतर	2-9 0-14 1-15	कुल 24 भाग:- सुभाष चन्द, सुरेश चन्द पुत्र चौधरी सिंह पुत्र रामा राम समभाग 3 भाग निवासी खनसरा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर, श्रीमती निक्की विधवा धनू पुत्र मकोड़ू 2 भाग सर्व श्रीमती जुध्या, वृकमू पुत्रियां मकोड़ू पुत्र जवाहर समभाग 2 भाग काला पुत्र व श्रीमती महन्तू विधवा टटू पुत्र जवाहर समभाग 8 भाग श्रीमती सोमा देवी पुत्री थेवड़ पुत्र फुहणू 6 भाग अंशुल कुमार पुत्र व नितिका कुमारी, मनीषा कुमारी पुत्रियां व श्रीमती आशा देवी विधवा पवन कुमार पुत्र शिव राम समभाग 3 भाग स्थानीय वासी				
58.	167 मिन	181 मिन	25/1	मुस्तर्का	बारानी बीड़ खडैतर गैर मु0 आबादी गैर मु0 पत्थर	17-4 14.16 0.10 1.6 0.12	कुल 387720 भाग:- मुनसी राम पुत्र पोहलो पुत्र मोहन 6480 भाग स्थानीय वासी श्रीमती सकीना देवी पत्नी मुनसी राम पुत्र पोहलो 1080 भाग निवासी भगोट तहसील घुमारवीं, किरपा राम पुत्र पोहलो पुत्र चुहड़ू 3240 भाग श्रीमती बिमला देवी पत्नी किरपा राम पुत्र पोहलो 3240 भाग स्थानीय वासी शशी शर्मा पुत्र किशन चन्द पुत्र कांशी राम 8640 भाग वासूदेव पुत्र कांशी राम पुत्र नरपत 9720 भाग निवासी बड़ाई तहसील बलढाड़ा जिला मण्डी, शशी पुत्र किशन चन्द पुत्र भगत राम 9720 भाग निवासी कलौहड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी, श्रीमती निक्की विधवा धनू पुत्र मकोड़ू 43110 भाग श्रीमती जुध्या, वृकमू पुत्रियां मकोड़ू पुत्र जवाहर समभाग 32310 भाग काला 36540 भाग पुत्र व श्रीमती महन्तू 64620 भाग विधवा टटू पुत्र जवाहर, श्रीमती सोमा देवी 73332 भाग व मीना देवी, श्रीमती रीना देवी समभाग 5238 भाग पुत्रियां थेवड़ पुत्र फुहणू, अंशुल कुमार पुत्र व श्रीमती आशा देवी विधवा पवन कुमार पुत्र शिव राम समभाग 45225 भाग सुभाष चन्द पुत्र शिव राम पुत्र फुहणू 45225 भाग स्थानीय वासी				
59.	172 मिन	186 मिन	50	मुस्तर्का	बारानी बीड़	8-5 6-6 0-19	कुल 280 भाग:- सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती पानों देवी पुत्री व श्रीमती बिमला देवी विधवा परस राम पुत्र सन्ता समभाग				

					खडैतर		105 भाग रवि डोगरा पुत्र व प्रिका पुत्री व श्रीमती प्रेमी देवी विधवा रमेश कुमार पुत्र परस राम समभाग 35 भाग जोगिन्दर सिंह, महिन्द्र लाल, रणजीत सिंह समभाग 65 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती रामप्यारी, मीरा देवी, वीना देवी, माया देवी समभाग 5 भाग पुत्रियां गुलावा पुत्र बुधू सुरेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार समभाग 56 भाग पुत्र व श्रीमती कमला विधवा प्रेमा पुत्र बुधू 14 भाग स्थानीय वासी सुभाष चन्द आदि वर्णित:-सुभाष चन्द, श्रीमती पानों देवी, श्रीमती बिमला देवी समभाग 3 भाग रवि डोगरा, प्रिका, श्रीमती प्रेमी देवी समभाग 1 भाग हिस्सादारान मलकीयत दहिन्दगान कुल 9 भाग:- काली दास, छोटा राम पुत्र बेली राम पुत्र मोहन समभाग 7 भाग आशीष ठाकुर, देवेन्द्र ठाकुर पुत्र कालीदास पुत्र बेली राम समभाग 1 भाग विकास ठाकुर पुत्र व श्रीमती प्रियंका ठाकुर पुत्री छोटा राम पुत्र बेली राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दगान।				
			682/70/1		गैर मु0 आबादी	1-0					
			270/1		बारानी गैर मु0 पत्थर	0-18 0-15 0-3					
					खडैतर गैर मु0 पत्थर	3-17 3-14 0-3					
			किता-3			13-0					
		187	681/70	मुस्तर्का		1-16					
					बारानी गैर मु0 आबादी	1-0 0-16					
	जोड खेवट:-		किता-4			14-16					
60.	173 मिन	188 मिन	17/1	मुस्तर्का	खडैतर	0-5	कुल 16520 भाग:- सुभाष चन्द 2485 भाग पुत्र व श्रीमती पानों देवी पुत्री व श्रीमती बिमला देवी विधवा परस राम पुत्र सन्ता समभाग 3850 भाग रवि डोगरा पुत्र व प्रिका पुत्री व श्रीमती प्रेमी देवी विधवा रमेश कुमार पुत्र परस राम समभाग 1925 भाग जोगिन्दर सिंह, महिन्द्र लाल, रणजीत सिंह समभाग 3835 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती रामप्यारी, मीरा देवी, वीना देवी, माया देवी समभाग 295 भाग पुत्रियां गुलावा पुत्र बुधू सुरेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार समभाग 3304 भाग पुत्र व श्रीमती कमला 826 भाग विधवा प्रेमा पुत्र बुधू स्थानीय वासी।				
61.	203 मिन	218 मिन	460/383/84	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी गैर मु0 पत्थर गैर मु0 मकान	1-10 0-19 0-10 0-1 0-7	सर्व श्रीमती सावित्री देवी, प्रेमी देवी, सीता देवी, वन्दना देवी, कान्ता देवी पुत्रियां हरिया पुत्र छज्जू समभाग स्थानीय वासी				
			455/381/69/1								
			किता-2			1-17					
62.	204	219	49	मुस्तर्का/ गैर मौरुसी	बारानी बीड़ खडैतर	1-14 1.10 0.4	कुल 269280 भाग:- श्रीमती निक्की विधवा मोहणू पुत्र फीथू 2890 भाग कंचन, टोटो पुत्र व श्रीमती मीना कुमारी पुत्री व श्रीमती मड़ी विधवा सन्तू पत्र घुंगर समभाग 4535 भाग				

							श्रीमती सावित्री विधवा खजाना पुत्र हीरू 907 भाग हरी कुमार, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती सरिता पुत्री व श्रीमती हीरा विधवा जौकी उर्फ जानकी राम पुत्र रामजी समभाग 907 भाग निकनू पुत्र रामजी पुत्र मोहन 907 भाग वासूदेव, ओमप्रकाश पुत्र लखू पुत्र फिथू समभाग 4535 भाग निवासी भटेड़ उपरली सर्व श्रीमती सावित्री देवी, प्रेमी देवी, सीता देवी, वन्दना देवी, कान्ता देवी पुत्रियां हरिया पुत्र छज्जू समभाग 254599 भाग स्थानीय वासी—x—श्रीमती सावित्री देवी, प्रेमी देवी, सीता देवी, वन्दना देवी, कान्ता देवी समभाग 254599 भाग वजातेही वनीज गैर मौरूसी 14681 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान				
63.	207मिन	222 मिन	416/283/1	निजी	बंजर कदीम गैर मु0 पत्थर	3-11 3-4 0-7	बृज लाल पुत्र बलवन्त पुत्रकुडू निवासी बैरी रजादयां।				
64.	210 मिन	225 मिन	459/383/84 465/86/1 475/388/91/1 564/184/1 566/185/1 568/188/1 568/188/2 571/189/1 601/251/1 602/252 604/258/1 614/269/1 615/412/279/1	निजी	गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी गैर मु0 कलौनी	0-1 0-15 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-19 0-7 5-1 1-3 7-2	ए0सी0सी0 लिमिटेड बरमाणा				
			किता-13			15-16					
65.	211	226	650/478/388/91	निजी	गैर मु0 मकान	0-3	भूतपूर्व सैनिक ट्रक आपरेटर्ज का0 बरमाणा				
66.	212	227	649/478/388/91 651/478/388/91	निजी	गैर मु0 मकान गैर मु0 मकान	0-9 0-6	हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक यूनियन हमीरपुर				
			किता-2			0-15					
67.	216 मिन	231 मिन	603/252		गैर मु0 आबादी	0-2	आबादी देह				
	कुल जोड़		किता-118		210.2						

8. भटेड़ उपरली ह0नं0 129											
1.	1 मिन	1 मिन	183/1	निजी	बारानी	0-5	सुरेश कुमार पुत्र देवीरूप पुत्र नरैणू स्थानीय वासी	गोविन्द सागर	खतेड़	बरमाणा	नालग
			419/185/1		बारानी	0-7					
			381/186		बारानी	0-3					
			421/187		बारानी	0-3					
			422/187		बारानी	0-9					
			किता- 5			1-7					
2.	4 मिन	4 मिन	305/176/1	मुश्तरका	बारानी	0-10	कुल 236 भाग:-सुरेश कुमार पुत्र देवीरूप पुत्र नरैणू 225 भाग सुशील शर्मा पुत्र किशोरी लाल पुत्र जयदेव 8 भाग निवासी देह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मनसा पुत्र रघवीर सिंह 1 भाग निवासी बड़ोआ परगना गेहड़वी, श्रीमती अनु पत्नी मनोज पुत्र सुभाष चन्द 1 भाग श्रीमती अनन्या पत्नी मुनीष पुत्र सुभाष चन्द 1 भाग निवासी जंगल सुंगल उपरला।				
			305/176/2		बारानी	0-1					
			किता- 2			0-11					
3.	5 मिन	5 मिन	184/1	मुश्तरका	बारानी	0-3	सुरेश कुमार पुत्र देवीरूप पुत्र नरैणू राहिन स्थानीय वासी सुखलाल पुत्र खजाना पुत्र ना-मालूम निवासी सलनू मुर्तहिन —X—कुल 3 भाग:- गुलाबा, रामू पुत्र फिहना पुत्र धुंगल समभाग 2 भाग कृष्णू पुत्र जंगी पुत्र फिहना 1 भाग स्थानीय वासी दावेदारान वै				
4.	7 मिन	7 मिन	373/121 374/122 किता-2	मुश्तरका	बारानी बारानी	1-19 0-11 2-10	राकेश पुत्र व श्रीमति गीता देवी विधवा रोड़ा पुत्र कुका समभाग स्थानीय वासी।				
5.	8 मिन	8 मिन	372/121/1 375/122/22	मुश्तरका	बारानी बारानी	0-18 1-12	कुल 14 भाग:- रमेश चन्द, मदन लाल समभाग 9 भाग पुत्र व श्रीमति शैलीन्द्रा 1 भाग पुत्री कालू पुत्र कूका, रोहित पुत्र व सर्व श्रीमति तनूजा, हर्षा, प्रतीज्ञा, शैलजा पुत्रियां व श्रीमति मनोरमा विधवा पवन कुमार पुत्र कालू समभाग 4 भाग स्थानीय वासी।				
			किता- 2			2-10					
6.	10 मिन	10 मिन	67/1	मुश्तरका	बारानी	0-2	कुल 1008 भाग:- रमेश चन्द 307 भाग मदन लाल 335 भाग पुत्र व श्रीमति शैलीन्द्रा 69 भाग पुत्री कालू पुत्र कूका, रोहित पुत्र व सर्व श्रीमति तनूजा, हर्षा, प्रतीज्ञा, शैलजा पुत्रियां व श्रीमति मनोरमा विधवा पवन कुमार पुत्र कालू समभाग 297 भाग स्थानीय वासी।				
7.	14 मिन	15 मिन	298/136/1	मुश्तरका	बारानी	0-18	कुल 2580 भाग:- श्रीमति सावित्री विधवा खजाना पुत्र हिरू 291 भाग नरेश कुमार पुत्र व सर्व श्रीमति पूजा, आरती पुत्रियां व श्रीमति उर्मिला देवी विधवा खेमराज पुत्र बलिया समभाग 172 भाग गोपाला,				
			298/136/2		गैर मु0 आवादी	0-6					
			किता-2			1-4					

							दिनानाथ पुत्र बलिया पुत्र हिरू समभाग 344 भाग तिलक राज, जयनन्द पुत्र व श्रीमति अच्छरी देवी विधवा गीगा पुत्र हिरू समभाग 1032 भाग गोपाल दास पुत्र व श्रीमति फिफडी विधवा महन्तू पुत्र हिरू समभाग 456 भाग विशनदास, निक्का राम पुत्र लच्छमण पुत्र कपूरा समभाग 165 भाग श्रीमति गीता देवी पत्नी विशनदास पुत्र लच्छमण 60 भाग स्थानीय वासी राजिन्द्र कुमार पुत्र डण्डू पुत्र कपुरू 60 भाग निवासी झनोड।				
8.	15 मिन	16 मिन	139/1	मुश्तरका	बारानी	0-17	कुल 12 भाग:- श्रीमति सावित्री विधवा खजाना पुत्र हिरू 3 भाग नरेश कुमार पुत्र व सर्व श्रीमति पूजा, आरती पुत्रियां व श्रीमति उर्मिला देवी विधवा खेमराज पुत्र बलिया समभाग 1 भाग गोपाला, दिनानाथ पुत्र बलिया पुत्र हिरू समभाग 2 भाग तिलक राज, जयनन्द पुत्र व श्रीमति अच्छरी देवी विधवा गीगा पुत्र हिरू समभाग 3 भाग गोपाल दास पुत्र व श्रीमति फिफडी विधवा महन्तू पुत्र हिरू समभाग 3 भाग स्थानीय वासी।				
9.	18 मिन	20 मिन	92/1	मुस्त्री	बारानी	0-19	कुल 80 भाग:- हरीश उपनाम हरी कुमार, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमति सरीता देवी पुत्री व श्रीमति हिरा देवी विधवा जाँकी उर्फ जानकी राम पुत्र रामजी समभाग 20 भाग श्यामलाल, प्रेम लाल समभाग 10 भाग जयकृष्ण 10 भाग पुत्र मुनसी राम पुत्र रामजी, जयलाल पुत्र व श्रीमति विद्यादेवी विधवा बुधू पुत्र रामजी समभाग 20 भाग रीतीश कुमार, प्रवेश कुमार पुत्र व श्रीमती रीना देवी विधवा सुरेन्द्र पुत्र निकनू समभाग 3 भाग संजू उर्फ संजीव कुमार, प्रदीप कुमार समभाग 8 भाग पुत्र व श्रीमति हिमादेवी 5 भाग विधवा निकनू पुत्र रामजी, विक्रम, विकास पुत्र व श्रीमति सुषमा देवी विधवा राजेन्द्र कुमार पुत्र निकनू समभाग 4 भाग निवासी देह -----X----- कुल 20 भाग:- रीतीश कुमार, प्रवेश कुमार, श्रीमती रीना देवी समभाग 3 भाग संजू उर्फ संजीव कुमार, प्रदीप कुमार समभाग 8 भाग, श्रीमति हिमा देवी 5 भाग, विक्रम, विकास श्रीमति सुषमा देवी समभाग 4 भाग हिस्सादारान वायान प्यार सिंह पुत्र रामधन पुत्र फुहन स्थानीय वासी मुशत्री।				
10.	19 मिन अब्बल	21 मिन	314/194/1	मुश्तरका	बारानी गैर सु0	0-12 0-9 0-3	कुल 1110 भाग :- राज कुमार 202 भाग पुत्र व श्रीमति बृन्दा देवी पुत्री व श्रीमति रतनी समभाग 700 भाग विधवा				

					आवादी		निकडू पुत्र रामजी, रामपाल पुत्र मगनी राम पुत्र111 भाग, सर्व श्रीमति स्मृती, निधी, रोहणी पुत्रियां व श्रीमति सुमन विधवा रामरतन पुत्र चन्दू समभाग 60 भाग सुख राम पुत्र संसारु पुत्र मोहन 37 भाग स्थानीय वासी।				
11.	19 मिन दोम	21 मिन	249/195/1	मुश्तरका	बारानी	0-13	कुल 30 भाग:- राज कुमार 6 भाग पुत्र व श्रीमति बृन्दा देवी पुत्री व श्रीमति रतनी समभाग 20 भाग विधवा निकडू पुत्र रामजी, रामपाल पुत्र मगनी राम पुत्र..... 3 भाग सुख राम पुत्र संसारु पुत्र मोहन 1 भाग स्थानीय वासी।				
12.	23 मिन	25 मिन	93/1	मुश्तरका	बारानी	2-2	कुल 210 भाग:- हरीश उपनाम हरी कुमार, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमति सरीता देवी पुत्री व श्रीमति हिरा देवी विधवा जौंकी उर्फ जानकी राम पुत्र रामजी समभाग 40 भाग, श्याम लाल, प्रेम लाल समभाग 45 भाग व जय कृष्ण 45 भाग पुत्र मुनसी राम पुत्र रामजी, जयलाल पुत्र व श्रीमति विद्यादेवी विधवा बुधू पुत्र रामजी समभाग 40 भाग रीतीश कुमार, प्रवेश कुमार पुत्र व श्रीमती रीना देवी विधवा सुरेन्द्र पुत्र निकनू समभाग 6 भाग, संजू उर्फ संजीव कुमार, प्रदीप कुमार समभाग 16 भाग पुत्र व श्रीमती हिमा देवी 10 भाग विधवा निकनू पुत्र रामजी, विक्रम, विकास पुत्र व श्रीमती सुषमा देवी विधवा राजेन्द्र कुमार पुत्र निकडू समभाग 8 भाग स्थानीय वासी।				
13.	24 मिन	26 मिन	124/1 338/320/ 204/1 325/254/ 211/1 325/254/ 211/2 किता- 4	मुश्तरका	बारानी	2-13	कुल 8 भाग:- श्याम लाल, प्रेम लाल पुत्र मुनसी राम पुत्र रामजी समभाग 1 भाग जयलाल पुत्र व श्रीमती विद्या देवी विधवा बुधू पुत्र रामजी समभाग 2 भाग राजकुमार पुत्र व श्रीमती बृन्दा देवी पुत्री व श्रीमती रतनी विधवा निकडू पुत्र रामजी समभाग 2 भाग हरिश उपनाम हरि कुमार, अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती सरीता देवी पुत्री व श्रीमती हिरा देवी विधवा जौंकी उर्फ जानकी राम पुत्र रामजी समभाग 2 भाग जयकृष्ण पुत्र मुनसी राम पुत्र रामजी 1 भाग स्थानीय वासी।				
					बारानी	0-14					
					बारानी गैर मु0 सड़क बारानी	0-5 0-1 0-14					
		27	339/320/204	मुश्तरका		0-13					
					बारानी गैर मु0 आवादी	0-10 0-3	श्याम लाल आदि वर्णित:-श्याम लाल, जयकृष्ण, प्रेम लाल समभाग हिस्सादारान तबादला दहिन्दगान, सुखराम, रामा नन्द पुत्र संसारु पुत्र मोहन समभाग 2 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कला देवी विधवा जोधा पुत्र संसारु समभाग 1 भाग स्थानीय वासी तबादला गरिन्दगान।				
		28	252/211	मुश्तरका	गैर मु0 आवादी	0-1	श्याम लाल आदि वर्णित:-राज कुमार, श्रीमति बृन्दा देवी,				

							श्रीमती रतनी समभाग हिस्सादारान बायान श्रीमती नीलम पत्नी सदाराम पुत्र बंसी निवासी बैहल कन्डैला मुस्त्री।				
		29	253/211	मुश्तरका	गैर मु0 आबादी	0-2	श्याम लाल आदि वर्णित:-राज कुमार, श्रीमती बृन्दा देवी, श्रीमती रतनी समभाग हिस्सादारान बायान श्रीमती रतनी देवी पत्नी सुखदेव पुत्र श्रीमती जमना देवी निवासी तेगू बेड तहसील व जिला कुल्लू मुस्त्री।				
		30	324/211	मुश्तरका	गैर मु0 आबादी	0-2	श्याम लाल आदि वर्णित:-राज कुमार, श्रीमती बृन्दा देवी, श्रीमती रतनी समभाग हिस्सादारान बायान कुल 32 भाग:- सुरेन्द्र पाल, जितेन्द्र, मुकेश पुत्र व श्रीमति शीला विधवा सुन्दर लाल पुत्र रामलाल समभाग 1 भाग बालक राम पुत्र रामलाल पुत्र नरैणू 13 भाग नवीन कुमार, राजेश कुमार पुत्र व कुमारी पूजा पुत्री व श्रीमति सावित्री विधवा निकू राम पुत्र राम लाल समभाग 13 भाग श्रीमति रामप्यारी विधवा बाबू राम पुत्र रामलाल 5 भाग स्थानीय वासी मुश्त्रीयान।				
		जोड़ भू-सम्पत्ति		किता- 8			5.5				
14.	30 मिन	37 मिन	198/1	मुश्तरका	बारानी	0-1	कुल 144 भाग:- राज कुमार, रमेश चन्द पुत्र व श्रीमती गम्भरी देवी विधवा मनीराम पुत्र कनैईया समभाग 45 भाग कुलदीप, ललीतसेन पुत्र बगसी पुत्र बरडू समभाग 63 भाग लेखराम पुत्र किरपू पुत्र मसदी 36 भाग स्थानीय वासी				
		41	120		वारानी	1-10	काश्त कुलदीप, ललीतसेन समभाग हिस्सादारान				
		जोड़ भू-सम्पत्ति		किता-2		1-11					
15.	35 मिन	47 मिन	96/1	मुश्तरका	बारानी	4-17	कुल 428 भाग:- अभिया राम 107 भाग रतन लाल 105 भाग विद्या सागर 100 भाग पुत्र बालकू पुत्र फौजूर नरेन्द्र कुमार पुत्र रतन लाल पुत्र बालकू 2 भाग, सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र किरपा राम पुत्र बालकू समभाग 107 भाग कंचन कुमार पुत्र सन्तू पुत्र घुंगर 3 भाग श्रीमती सत्या देवी पत्नी कंचन कुमार पुत्र सन्तू 4 भाग स्थानीय वासी।				
16.	36 मिन	48 मिन	458/75/1	निजि	बारानी	2-3	हरीदास पुत्र रामदितू पुत्र गणेशा स्थानीय वासी।				
			461/150/1		बारानी	0-16					
			किता-2			2-19					
17.	39 मिन	51 मिन	478/456/75/1	मुश्तरका	बारानी	2-1	नीरज कुमार, राजेश कुमार, मदन गोपाल पुत्र व श्रीमती हिरा देवी विधवा शिवराम पुत्र तिखू समभाग स्थानीय वासी।				
			460/150		बारानी	4-4					
			किता-2			6-5					
18.	40	52	477/456/75	मुश्तरका	बारानी	0-6	तरसेम सिंह, सुमन कुमार पुत्र भूरी सिंह पुत्र पोहलो समभाग स्थानीय वासी।				

19.	45 मिन	57 मिन	287/68/1	मुश्तरका	बाराणी	2-2	कुल 72 भाग:- बाबू राम 27 भाग पुत्र व श्रीमती गुरदेई 9 भाग विधवा कृष्ण पुत्र किङ्क दिनेश कुमार, बलराम पुत्र रतन लाल पुत्र सुदामा समभाग 20 भाग श्रीमती दासी पुत्री व श्रीमति ज्ञानों विधवा सुदामा पुत्र जोधू समभाग 16 भाग स्थानीय वासी -----x-----
					गैर मु0 आबादी	1.2 1.0	कुल 4 भाग:- बाबू राम 3 भाग गुरदेई 1 भाग हिस्सादारान।
		58 मिन	247/148/1		बाराणी	2-12	बाबू राम आदि वर्णित:-दिनेश कुमार, बलराम, श्रीमती दासी, श्रीमती ज्ञानों समभाग हिस्सादारान।
		59	286/68	मुश्तरका	बाराणी	1-0	बाबू राम आदि वर्णित:-बाबू राम हिस्सादार बाया रोशन लाल, राजेन्द्र कुमार पुत्र कांशी राम पुत्र कदारू समभाग मुशत्रीयान निवासी खतेड़।
		61	56	मुश्तरका	खडैतर	0-7	बाबू राम आदि वर्णित:-कुल 7 भाग:- श्रीमती दासी 2 भाग दिनेश कुमार, बलराम, समभाग 5 भाग हिस्सादारान मलकीयत दहिन्दगान, कुल 14 भाग:- गपाला राम, गुलाबा राम, लिखू राम पुत्र व श्रीमती जैना देवी श्रीमती रोशनी समभाग 10 भाग पुत्रियां व निका राम 4 भाग पुत्र सिंहणू पुत्र साधू स्थानीय वासी मलकियत गरिन्दगान।
		63	251/203/1	मुश्तरका	बाराणी	2-17	बाबू राम आदि वर्णित:-कुल 6 भाग:- श्रीमती दासी 1 भाग दिनेश कुमार, बलराम समभाग 5 भाग हिस्सादारान मलकियत दहिन्दगान नन्द लाल, बाबूराम पुत्र चैतराम पुत्र अच्छरा समभाग 3 भाग स्थानीय वासी मलकियत गरिन्दा बजाते ही बनीज गैर मौरुसी 1 भाग मिन जानिब श्रीमती ज्ञानों हिस्सादारा।
	जोड़ू भू-सम्पत्ति		किता- 5			8-18	
20.	49 मिन	75 मिन	128/1	निजी	बाराणी	1-13	सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना देवी पुत्रियां मगनी राम पुत्र जमनू समभाग स्थानीय वासी
21.	50 मिन अब्बल	76 मिन	78/1	मुश्तरका	बाराणी	1-13	कुल 17310720 भाग:- सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना देवी पुत्रियां मगनी राम पुत्र जमनू समभाग 1813504 भाग रौणकी प्रसाद, संतराम पुत्र जमनू पुत्र जियणू समभाग 2802688 भाग अभय 531622 भाग पुत्र व श्रीमती कान्ता 700672 भाग विधवा दयासागर पुत्र जमनू, नीलम कुमार उर्फ अनिल कुमार 741888 भाग कुलदीप कुमार, कशमीरी लाल समभाग 659456 भाग पुत्र विशनदास पुत्र जमनू, यशपाल पुत्र रामदास पुत्र संगारू 2293760 भाग श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्तराम पुत्र संगारू 2472960

							भाग रामलोक, श्रीराम समभाग 1884160 भाग नन्द लाल 925175 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती प्रेमी, चम्पा समभाग 1413120 भाग पुत्रियां मोहन पुत्र फतू, देवराज, प्रशोतम, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती मधू देवी पुत्री श्रीमती रूपो पुत्री मोहन समभाग 706560 भाग स्थानीय वासी सुरेश कुमार पुत्र ध्याना राम पुत्र शिवदयाल निवासी लददा तहसील घुमारवीं 179200 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी जोगिन्द्र कुमार पुत्र भोला राम, निवासी बल्ह चुरानी 118335 भाग संजीव कुमार पुत्र जगरनाथ पुत्र जियणू राम, निवासी सुन्हाणी, तहसील झण्डूता 50715 भाग नन्द लाल पुत्र सुन्दर पुत्र पोहलो 16905 भाग स्थानीय वासी।				
22.	50मिन दोम	76 मिन	140 / 1	मुश्तरका	बारानी	20-1	कुल 17310720 भाग:- रौणकी प्रसाद, संतराम पुत्र जमनू पुत्र जियणू समभाग 2802688 भाग अभय 531622 भाग पुत्र व श्रीमती कान्ता 700672 भाग विधवा दयासागर पुत्र जमनू सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना देवी पुत्रियां मगनी राम पत्र जमनू समभाग 1813504 भाग नीलम कुमार उर्फ अनिल कुमार 741888 भाग कुलदीप कुमार, कशमीरी लाल समभाग 659456 भाग पुत्र विशनदास पुत्र जमनू यशपाल पुत्र रामदास पुत्र संगारू 2472960 भाग श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्तराम पुत्र संगारू 2472960 भाग रामलोक, श्रीराम समभाग 1884160 भाग नन्द लाल 925175 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती प्रेमी, चम्पा समभाग 1413120 भाग पुत्रियां मोहन पुत्र फतू, देवराज, प्रशोतम, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती मधू देवी पुत्री श्रीमती रूपो पुत्री मोहन समभाग 706560 भाग नन्द लाल पुत्र सुन्दर पुत्र पोहलो 16905 भाग स्थानीय वासी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी जोगिन्द्र कुमार पुत्र भोला राम निवासी बल्ह चुरानी 118335 भाग संजीव कुमार पुत्र जगरनाथ पुत्र जियणू राम निवासी सुन्हाणी, तहसील झण्डूता 50715 भाग।				
23.	51 मिन	77 मिन	197 / 1	मुश्तरका	बारानी खडैतर गैर मु0 चोई	6-5 6.2 0.2 0.1	कुल 19110 भाग:- रौणकी प्रसाद, संतराम पुत्र जमनू पुत्र जियणू समभाग 3094 भाग अभय पुत्र व श्रीमती कान्ता देवी विधवा दयासागर पुत्र जमनू समभाग 1547 भाग सुरेन्द्र कुमार, संजीव कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती पुष्पा देवी, मीना				

							देवी पुत्रियां मगनी राम पुत्र जमनू समभाग 2002 भाग नीलम कुमार उर्फ अनिल कुमार 819 भाग पुत्र व कुलदीप कुमार, कशमीरी लाल समभाग 728 भाग पुत्र विशनदास पुत्र जमनू यशपाल पुत्र रामदास पुत्र संगारू 2730 भाग।				
23. वर्णित							श्रीमती गीता देवी पुत्री मस्तराम पुत्र संगारू 2730 भाग रामलोक, श्रीराम समभाग 2080 भाग नन्दलाल 260 भाग पुत्र व सर्वश्रीमती प्रेमी, चम्पा समभाग 1560 भाग पुत्रियां मोहन पुत्र फतू, देवराज, प्रशोतम, पंकज कुमार पुत्र व श्रीमती मधू देवी पुत्री श्रीमती रूपो पुत्री मोहण समभाग 780 भाग नन्द लाल पुत्र सुन्दर पुत्र पोहलो 780 भाग स्थानीय वासी।				
24.	58 मिन	84 मिन	260/228/55/1	मुश्तरका	बंजर कदीम	0-1	सुंका राम, प्रकाश चन्द पुत्र व सर्व श्रीमति रोशनी देवी, मीरा देवी, बिमला देवी पुत्रियां व श्रीमति प्रभी देवी विधवा कृष्ण पुत्र जंगी समभाग स्थानीय वासी।				
25.	62 मिन	88 मिन	118/1	मुश्तरका	बारानी	0-12	कुलदीप, ललीतसेन पुत्र बगसी पुत्र बरडू समभाग स्थानीय वासी।				
26.	63 मिन	89 मिन	73/1	मुश्तरका	बारानी	3-16	कुल 3326820 भाग:- हंसराज भारद्वाज पुत्र बालकु पुत्र चूहा 168210 भाग बाबू राम, नीलम कुमार समभाग 266733 भाग पुत्र व श्रीमती मंजू कुमारी पुत्री व श्रीमती रूपी देवी समभाग 69687 भाग सुनील कुमार, महेन्द्र सिंह, अनिकेश कुमार पुत्र व श्रीमती मीरा देवी विधवा जगदीश पुत्र धनी राम समभाग 401835 भाग प्रवीण कुमार, अशीष कुमार, सतपाल पुत्र धनी राम पुत्र भगतू समभाग 1205505 भाग कुलदीप, अशोक कुमार पुत्र सुख राम पुत्र संसारु समभाग 404950 भाग रामानन्द पुत्र संसारु पुत्र ना मालूम 404950 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कला देवी विधवा जोध सिंह पुत्र संसारु समभाग 404950 भाग स्थानीय वासी।				
27.	79 मिन	105 मिन	123/1	मुश्तरका	बारानी	0-18	वासूदेव, ओमप्रकाश पुत्र लखू पुत्र फित्थू समभाग स्थानीय वासी।				
28.	93	120	80	मुश्तरका	गैर मु0 आबादी	0-8	कुल 108 भाग:- खजाना, सोहणू पुत्र व श्रीमती बंजारु पुत्री व श्रीमति ज्ञानों विधवा संगारू पुत्र गुरमुख समभाग 27 भाग रामधन पुत्र खजाना पुत्र संगारू 14 भाग तोता पुत्र सोहणू पुत्र संगारू 13 भाग				

							<p>नैण सिंह पुत्र रामदिता पुत्र गोहड़ा 18 भाग पवन, चमन कुमार, तरसेम सिंह, सुमन कुमार समभाग 12 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती कृष्णी देवी, कादसी देवी समभाग 3 भाग विधवाएं भूरी सिंह पुत्र पोहलो, श्रीमति रामदेई विधवा पोहलो पुत्र रामदिता 3 भाग रतना, प्रेम चन्द, सक्त् देवराज पुत्र व सर्व श्रीमति सत्या, रतनी, मंहन्ती, अमरी समभाग 16 भाग पुत्रियां व सर्वश्रीमती ब्रह्मी देवी, सन्ती समभाग 2 भाग विधवाएं कांशी राम पुत्र रामदिता स्थानीय वासी—X—</p> <p>कुल 54 भाग:- नैण सिंह 18 भाग पवन, चमन कुमार, तरसेम सिंह, सुमन कुमार श्रीमती रामदेई समभाग 15 भाग श्रीमती कादसी देवी, कृष्णी देवी समभाग 3 भाग रतना, प्रेम चन्द, सक्त् देवराज, श्रीमती सत्या, रतनी, मंहन्ती, अमरी समभाग 16 भाग श्रीमती सन्ती, ब्रह्मी देवी समभाग 2 भाग हिस्सादारान मार्फत कुल 3 भाग:- नानकू पुत्र रामू पुत्र घिना 1 भाग कृष्णू पुत्र जगी पुत्र घिना 1 भाग प्रदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्र सुका पुत्र कृष्णू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी गैर मौरूसीयान।</p>				
29.	94 मिन	121 मिन	57/1	मुश्तरका	बारानी गैर मु0 आबादी	0-18 0-17 0-1	<p>कुल 140 भाग:- बाबू राम, नीलम कुमार समभाग 39 भाग पुत्र व श्रीमती मंजू कुमारी पुत्री व श्रीमती रूपी देवी समभाग 29 भाग विधवा कृष्णू पुत्र चुहा, सर्व श्रीमति हीरा देवी, कशमीरा देवी, सरोज देवी पुत्रियां केशव राम पुत्र चुहा समभाग 2 भाग सुनील कुमार 35 भाग पुत्र व कुमारी डिम्पल पुत्री व श्रीमती रोशनी समभाग 35 भाग विधवा हुकम चन्द पुत्र मुनशी स्थानीय वासी।</p>				
30.	97	124	94	मुश्तरका	गै0मु0 आबादी	0-8	सन्तराम, जोध सिंह पुत्र व श्रीमती पारवत् विधवा तुलसी पुत्र लाला समभाग निवासी खतेड़।				
31.	98	125	307/192	मुश्तरका	गै0 मु0 आबादी	0-6	<p>कुल 2 भाग:- राजेन्द्र कुमार, रोशन लाल पुत्र कांशी राम पुत्र कदारु समभाग 1 भाग गंगा राम पुत्र व श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र कदारु समभाग 1 भाग स्थानीय वासी</p> <p>—X—</p> <p>राजेन्द्र कुमार, रोशन लाल समभाग हिस्सादारान तबादला दहिन्दा किशोरी लाल पुत्र जय देव पुत्र मेहलर स्थानीय वासी तबादला गरिन्दा।</p>				
		126	193		बारानी	0-12 0-2	राजेन्द्र कुमार आदि वर्णित:-गंगा राम, श्रीमती				

					गै0मु0 आवादी	0-10	दमोदरी समभाग हिस्सादारान वायान कुल 3 भाग:- सुखराम, रामानन्द पुत्र संसारु पुत्र मोहन समभाग 2 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कला देवी विधवा जोधा पुत्र संसारु समभाग 1 भाग स्थानीय वासी मुश्त्रीयान				
	जोड़ भू-सम्पत्ति		किता- 2			0-18					
32.	99 मिन	127 मिन	310/192	मुश्तरका	बंजर कदीम गैर मु0 बीड़	0-8 0-6 0-2	कुल 20 भाग:-राजेन्द्र कुमार, रोशन लाल पुत्र कांशी राम पुत्र कदारु समभाग 10 भाग गंगा राम पुत्र व श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र कदारु समभाग 5 भाग रूप लाल, नन्द लाल पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री व श्रीमती नानकी देवी विधवा गुलाबा राम पुत्र गोकल राम समभाग 4 भाग हेमराज पुत्र व श्रीमती मंजू देवी पुत्री व श्रीमती सुखा देवी विधवा विजय राम पुत्र गुलाबा राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
33.	103 मिन	131 मिन	367/79/1	मुश्तरका	बारानी	1-3	कुल 160 भाग:- वचित्र सिंह, नेत्र सिंह पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी पुत्री व श्रीमती मंगला देवी विधवा सन्तराम पुत्र पोहलो समभाग 33 भाग, भाग सिंह, शंकर, राय सिंह समभाग 123 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती कृष्णी देवी, कौशल्या देवी, राधा देवी, कान्ता देवी समभाग 4 भाग पुत्रियां पोहलो पुत्र छांगा स्थानीय वासी।				
34.	104	132	382/187	मुश्तरका	बारानी गैर मु0 आबादी	1-2 0-16 0-6	कुल 10 भाग:- चमन लाल, राजकुमार, निका राम पुत्र व श्रीमती तिलफू देवी समभाग 9 भाग पुत्री व श्रीमती हरदेई 1 भाग विधवा शिव राम पुत्र ज्योती स्थानीय वासी।				
35.	105 मिन	133 मिन	119/1	निजी	बारानी	1-6	शंकर पुत्र खजाना पुत्र गोकल स्थानीय वासी।				
36.	106 मिन	134 मिन	285/64/1	मुश्तरका	बारानी गैर मु0 दुकान	1-15 1.0 0.15	कुल 964 भाग:- अभियाराम 219 भाग रतन लाल 195 भाग विद्यासागर 187 भाग पुत्र व श्रीमती कमला देवी 8 भाग पुत्री बालकू पुत्र फौजु, सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र किरपा राम पुत्र बालकू समभाग 186 भाग स्थानीय वासी प्रीतम चन्द उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र डूमणू राम पुत्र दिला राम 2 भाग निवासी चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, विनय कुमार, चेतन पुत्र व श्रीमती लतादेवी विधवा हरिभज पुत्र भोला समभाग 6 भाग श्रीमती लरजू देवी पत्नी भोला पुत्र दारा 2 भाग बृजलाल पुत्र शिव राम पुत्र फिथू 2 भाग इन्द्र सिंह पुत्र पंजकू पुत्र चैलू 2 भाग श्रीमती लता देवी पत्नी परमानन्द पुत्र प्रभू 5 भाग स्थानीय वासी चमन लाल पुत्र प्रभू पुत्र दूदू राम 4 भाग निवासी ननावआं				

							परगना सरीयून, सतपाल पुत्र धनी राम पुत्र भगतु 2 भाग रामधन, जगरनाथ पुत्र गोकल पुत्र मोती समभाग 4 भाग यशपाल सिंह पुत्र हरदेव पुत्र लच्छमण 4 भाग निवासी घंघोट कलां, कुलदीप चन्द पुत्र अमरनाथ पुत्र शिवराम 80 भाग मनोहर लाल, ज्ञान चन्द पुत्र कृष्णदयाल पुत्र गोकल समभाग 4 भाग स्थानीय वासी श्रीमति आशु पत्नी विनोद कुमार पुत्र जगरनाथ 2 भाग श्रीमति विवेका पत्नी संजय कुमार पुत्र जगरनाथ 2 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी जगरनाथ पुत्र कृष्णदयाल 2 भाग राजेन्द्र कुमार पुत्र सीता राम पुत्र तरडू राम 2 भाग, निवासी नालग, मस्तराम पुत्र सोई पुत्र फाला 12 भाग श्रीमती कान्ता पत्नी मस्तराम पुत्र सोई 16 भाग स्थानीय वासी हेमप्रभा पुत्र लटूरिया पुत्र जालम 8 भाग निवासी सुन्दरनगर, गपाला पुत्र हेमू पुत्र लटूरिया 8 भाग निवासी भराड़ी तहसील सुन्दरनगर।			
37.	107	135	308/192	मुश्तरका	गैर मु0 आबादी	0-7	कुल 3 भाग :- रामानन्द, सुखराम पुत्र संसारु पुत्र मोहण समभाग 2 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कला देवी विधवा जोधा पुत्र संसारु समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।			
38.	108 मिन	136 मिन	427/196/3/1 426/196/2	मुश्तरका	बारानी गैर मु0 आबादी बारानी	1-11 1-6 0-5 0-8	कुल 60 भाग:- शिवराम पुत्र तिखू पुत्र गणेशा 30 भाग रामानन्द 15 भाग सुख राम 14 भाग पुत्र संसारु पुत्र मोहण, राजकुमार पुत्र निकडू पुत्र रामजी 1 भाग स्थानीय वासी।			
			किता- 2			1-19				
		137 मिन	425/196/2/1	मुश्तरका	बारानी	1-18	शिवराम आदि वर्णित:-शिवराम हिस्सादार मलकियत दहिन्दा कुल 160 भाग:- वचित्र सिंह, नेत्र सिंह पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी पुत्री व श्रीमति मंगला देवी विधवा सन्तराम पुत्र पोहलो समभाग 33 भाग भाग सिंह, शंकर, राय सिंह समभाग 123 भाग पुत्र व सर्वश्रीमती कृष्णी देवी कौशल्या देवी, राधा देवी, कान्ता देवी समभाग 4 भाग पुत्रियां पोहलो पुत्र छांगा स्थानीय वासी मलकियत गरिन्दगान।			
	जोड़ भू-सम्पति		किता- 3		3-17					
39.	111	144	378/186 385/187	निजि	गैर मु0 आबादी बारानी गैर मु0 आबादी	0-7 0-6 0-2 0-4	रतन लाल, राकेश कुमार, कमलेश कुमार पुत्र मडू पुत्र बजीरा समभाग स्थानीय वासी।			
			किता- 2			0-13				

40.	112	145	379/186	निजी	गैर मु० आबादी	0-2	कपिलदेव पुत्र तुलसी पुत्र बुधू राम स्थानीय वासी				
41.	113	146	380/186 383/187	निजी	गैर मु० आबादी बारानी गैर मु० आबादी	0-2 0-1 0-1	श्रीमती कृष्णी विधवा बरडू पुत्र संगारु स्थानीय वासी				
			किता- 2			0-4					
42.	114 मिन	147 मिन	250/203/1	मुश्तरका	बारानी गैर मु० आबादी	1-14 1.8 0.6	कुल 1656 भाग:- बाबूराम 381 भाग पुत्र व श्रीमती गुरदेई 207 भाग विधवा कृष्णू पुत्र कीडू दिनेश कुमार, बलराम पुत्र रतन लाल पुत्र सुदामा समभाग 460 भाग श्रीमती दासी पुत्री व श्रीमती ज्ञानों विधवा सुदामा पुत्र जोधू समभाग 368 भाग जयपाल उर्फ छितरू पुत्र कृष्णू पुत्र गांधी 240 भाग स्थानीय वासी -----X----- बाबूराम, श्रीमती गुरदेई, जयपाल उर्फ छितरू समभाग हिस्सादारान।				
43.	116	150	365/79	निजि	बारानी गैर मु० आबादी	0-8 0-2 0-6	शंकर पुत्र खजाना पुत्र गोकल स्थानीय वासी।				
44.	117	151	366/79	निजि	बारानी गैर मु० आबादी	0-8 0-2 0-6	कालीदास पुत्र खजाना पुत्र गोकल स्थानीय वासी।				
45.	133 मिन	167 मिन	81	मुश्तरका	बारानी गैर मु० आबादी	0-16 0-15 0-1	कुल 3 भाग:- नानकू पुत्र रामू पुत्र फिना 1 भाग सूका राम, प्रकाश चन्द पुत्र व सर्व श्रीमती रोशनी देवी, मीरा देवी, बिमला देवी पुत्रियां व श्रीमती प्रभी देवी विधवा कृष्णू पुत्र जंगी समभाग 1 भाग प्रदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्र सूका राम पुत्र कृष्णू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
46.	146 मिन	180 मिन	53/2/1	मुश्तरका	बारानी गैर मु० आबादी	0-14 0-5 0-9	कुल 124 भाग:- रिकू कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र दया राम पुत्र सुन्दर समभाग 62 भाग गोविन्दू पुत्र नरैणू पुत्र साधू 57 भाग रामदास पुत्र गोविन्दू पुत्र नरैणू 5 भाग स्थानीय वासी।				
47.	164	198	74	मुश्तरका गैर मौरूसी	बारानी	0-6	कुल 32 भाग:- श्रीमती निक्की विधवा मोहण पुत्र फतू 1 भाग परसराम पुत्र सन्ता पूत्र जियूणू 31 भाग स्थानीय वासी -----X----- कुल 217 भाग:- परसराम, श्रीमति भरू देवी समभाग हिस्सादारान बजाते ही बनीज गैर मौरूसी 7 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान।				
48.	165 मिन	199 मिन	291/90/1	मुश्तरका	बारानी	3-18	कुल 3042 भाग:- बाबू राम पुत्र व श्रीमती गुरदेई विधवा कृष्णू पुत्र कीडू समभाग 1521 भाग दिनेश कुमार, बलराम पुत्र रतन लाल पुत्र सुदामा समभाग 791 भाग श्रीमति दासी 284 भाग पुत्री व श्रीमती ज्ञानो 338 भाग विधवा सुदामा पुत्र जोधू				

							स्थानीय वासी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी नत्थू राम पुत्र गोरखू 54 भाग निवासी पंजगाई, जय राम पुत्र दुर्गा दास पुत्र बरडू 54 भाग निवासी मटयारा सव तहसील बलद्वाड़ा।				
49.	166	200	384/187	निजी	बारानी गैर मु० आबादी	0-4 0-2 0-2	लेखराम पुत्र रामसरन पुत्र सरदारू स्थानीय वासी।				
50.	167	201	417/185 418/185	निजी	बारानी बारानी	0-3 0-2	श्रीमती जगतम्बा पत्नी लेख राम पुत्र रामसरन निवासी बलोह				
51.	168	202	420/386/187	निजी	बारानी	0-7	श्रीमती प्यारी पत्नी प्यारे लाल पुत्र रामदितू निवासी चम्पौण।				
52.	174 मिन	208 मिन	210 323/254/ 211/1 323/254/ 211/2 319/204/1	निजी	गैर मु० फैक्टरी गैर मु० फैक्टरी गैर मु० फैक्टरी गैर मु० फैक्टरी	0-8 1-13 0-12 0-13	ए०सी०सी० लि० बरमाणा				
			किता-4			3-6					
	कुल जोड़:-		किता- 83			104-5					
9. महाल बरमाणा ह० नं० 128											
1.	2 मिन	2 मिन	205/126/ 30/1 200/78/29/1 132/53/1 135/54/1	मुस्तर्का	बारानी बारानी गैर मु० बीड़ बारानी बारानी	6-14 1-4 0-14 0-10 17-4 14-19	कुल 48 भाग:- सुनील कुमार ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर पुत्र अच्छरू पुत्र लालमन समभाग 8 भाग बंसी पुत्र लालमन पुत्र छजू 4 भाग बाबू राम, शेर सिंह समभाग 8 भाग चैन सिंह, कमलेश समभाग 4 भाग पुत्र गोविन्द पुत्र छजू, दीना नाथ, वतन सिंह, रतन सिंह पुत्र दया राम पुत्र छजू, समभाग 12 भाग अमर चन्द 6 भाग जोगिन्दर सिंह 3 भाग पुत्र परस राम पुत्र छजू, निशान्त पुत्र हंस राज पुत्र परस राम 3 भाग स्थानीय वासी।	सतलुज	महाल नातग	डी०पी०एफ० जमथल	महाल भटेड़ जपरली
			किता-4			40-1					
2.	7 मिन	10 मिन	51/1	मुस्तर्का	बारानी	0-1	कुल 144 भाग:-रामा नन्द, सुख राम पुत्र संसारू पुत्र मोहन समभाग 16 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कला देवी समभाग 7 भाग विधवा व सर्व श्रीमती लता देवी, सपना देवी समभाग 1 भाग पुत्रियां जोध सिंह पुत्र संसारू, रतन लाल, जयपाल पुत्र किशन सिंह पुत्र दुर्गा समभाग 6 भाग निक्का राम 12 भाग पुत्र व श्रीमती प्रसीनू 6 भाग पुत्री दुर्गा पुत्र मोहन, ओम प्रकाश पुत्र रामदितू पुत्र मोहन 24 भाग श्रीमती काशू पुत्री नेगी पुत्र जवाहर 24 भाग कांशी राम पुत्र व श्रीमती चिन्ता पुत्री कदारू पुत्र साधू समभाग 16 भाग गंगा राम पुत्र व श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र				

							कदारु समभाग 8 भाग राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र दीपू 24 भाग स्थानीय वासी—x—कांशी राम, गंगा राम श्रीमती चिन्ता, दमोदरी, राम सिंह समभाग हिस्सादारान मलकीयत दहिन्दगान कुल 240 भाग —काली दास, दौलत राम, छोटा राम पुत्र खजाना पुत्र गुसांऊ समभाग 120 भाग हेम राज 42 भाग प्रकाश चन्द पुत्र व श्रीमती माया देवी समभाग 24 भाग पुत्री व श्रीमती कोड़ी देवी 19 भाग विधवा नन्दू पुत्र गुसांऊ, विकास, अनिल पुत्र व सर्व श्रीमती रीना देवी, सीमा देवी पुत्रियां व श्रीमती लच्छमी देवी विधवा बलदेव सिंह पुत्र नन्दू समभाग 35 भाग स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दगान।				
		11	48		बारानी	0-9	रामा नन्द आदि वर्णित— कुल 4 भाग —कांशी राम, गंगा राम, श्रीमती चिन्ता, दमोदरी, राम सिंह समभाग हिस्सादारान मलकीयत दहिन्दगान कुल 4 भाग —ओमप्रकाश पुत्र रामदितू पुत्र मोहण 1 भाग निक्का राम 2 भाग पुत्र व श्रीमती प्रसीनू 1 भाग पुत्री दुर्गा पुत्र मोहण स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दगान।				
	जोड़ खेवट:-		किता-2	1.0							
3.	8 मिन	12 मिन	37 / 1	मुस्तर्का	बागीचा बारानी बारानी	0-8	कुल 144 भाग —रामा नन्द, सुख राम पुत्र संसारु पुत्र मोहण समभाग 16 भाग रोहित पुत्र व श्रीमती कलां देवी समभाग 7 भाग विधवा व सर्व श्रीमती लता देवी, सपना देवी समभाग 1 भाग पुत्रियां जोध सिंह पुत्र संसारु, निक्का राम 12 भाग पुत्र व श्रीमती प्रसीनू 6 भाग पुत्री दुर्गा पुत्र मोहण, ओमप्रकाश पुत्र रामदितू पुत्र मोहण 30 भाग श्रीमती काशू पुत्री नेगी पुत्र जवाहर 24 भाग कांशी राम पुत्र व श्रीमती चिन्ता पुत्री कदारु पुत्र साधू समभाग 16 भाग गंगा राम पुत्र व श्रीमती दमोदरी विधवा हरी दास पुत्र कदारु समभाग 8 भाग राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र दीपू 24 भाग स्थानीय वासी।				
			47 / 1			1-3					
			किता-2			1-11					
4.	9 मिन	13 मिन	45/1	मुस्तर्का	बारानी	1-14	कुल 48 भाग —कशमीर सिंह 7 भाग राजेन्द्र सिंह 21 भाग पुत्र काला पुत्र बलिया, मनशा 14 भाग पुत्र व श्रीमती चुंहकी 6 भाग पुत्री बलिया पुत्र लटूरिया स्थानीय वासी।				
5.	10 मिन	14 मिन	46/1	मुस्तर्का	बारानी	2-9	कुल 288 भाग —श्रीमती निर्मला पुत्री ब्रह्म पुत्र गोपाला 48 भाग सीता राम पुत्र व श्रीमती सुहारु, जैदेई, पुत्रियां गोपाला पुत्र जघा समभाग 144				

							भाग जगदीश, प्यार सिंह पुत्र व सर्वश्रीमती कमला, बन्ती, नीमां पुत्रियां श्रीमती बन्जारु पुत्री गोपाला समभाग 40 भाग विशाल ठाकुर पुत्र व श्रीमती रीना कुमारी, मोनिका कुमारी, सोनू कुमारी पुत्रियां श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्रीमती बन्जारु समभाग 8 भाग अवनीश कुमार पुत्र व श्रीमती माया देवी पुत्री व श्रीमती इन्द्रा विधवा रमेश चन्द पुत्र रोशन समभाग 9 भाग प्रीतम सिंह, सुरेश कुमार समभाग 24 भाग पुत्र व श्रीमती कलां देवी 15 भाग विधवा रोशन पुत्र गोपाला स्थानीय वासी।				
6.	13 मिन	17 मिन	211/198/ 181/22/1	मुस्तर्का	बारानी	0-2	कुल 100640 भाग:- वचित्र सिंह, नेत्र सिंह पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी पुत्री व श्रीमती मंगला देवी विधवा सन्त राम पुत्र पोहलो समभाग 7293 भाग, भाग सिंह, शंकर राम, राये सिंह समभाग 19023 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती कृष्णी, कौशल्या, राधा, कांता समभाग 884 भाग पुत्रियां पोहलो पुत्र छांगा, नितीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी विधवा जगदीश पुत्र सहलो समभाग 9520 भाग कुलदीप चन्द पुत्र व श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री व श्रीमती कला देवी विधवा निहाला पुत्र फित्थू समभाग 41440 भाग मदन लाल पुत्र धनी राम पुत्र हीरू 8880 भाग बाबू राम 8160 भाग व भगत राम 5440 भाग पुत्र गोपाला राम पुत्र शिवदयाल स्थानीय वासी।				
7.	14 मिन	18 मिन	56	मुस्तर्का	बंजर कदीम	0-2	कुल 2 भाग:- ठाकुर दास पुत्र तुलसी पुत्र गपाला 1 भाग श्रीमती सुनीता देवी विधवा अमर सिंह पुत्र तुलसी 1 भाग स्थानीय वासी।				
8.	15 मिन	19 मिन	52/1	मुस्तर्का	गैर मु0 आवादी	0-2	काली दास, दौलत राम, छोटा राम पुत्र खजाना पुत्र गुसाऊं समभाग स्थानीय वासी।				
9.	17 मिन	21 मिन	50/1	मुस्तर्का	गैर मु0 आवादी	0-1	कुल 2016 भाग:- श्रीमती निर्मला पुत्री ब्रह्म पुत्र गोपाला 336 भाग सीता राम पुत्र व श्रीमती सुहारू, जैदेई पुत्रियां गोपाला पुत्र जघा समभाग 144 भाग जगदीश, प्यार सिंह पुत्र व सर्व श्रीमती कमला, बन्ती, नीमां पुत्रियां श्रीमती बन्जारु पुत्री गोपाला समभाग 40 भाग विशाल ठाकुर पुत्र व श्रीमती रीना कुमारी, मोनिका कुमारी, सोनू कुमारी पुत्रियां श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्रीमती बन्जारु समभाग 8 भाग अवनीश कुमार पुत्र व कुमारी माया देवी पुत्री व श्रीमती इन्द्रा विधवा रमेश चन्द पुत्र रोशन समभाग 9 भाग प्रीतम सिंह, सुरेश कुमार समभाग 24 भाग पुत्र व श्रीमती				

							कलां देवी 15 भाग विधवा रोशन पुत्र गोपाला, काली दास, दौलत राम, छोटा राम पुत्र खजाना पुत्र गुसाऊं समभाग 720 भाग हेम राज, प्रकाश चन्द समभाग 384 भाग पुत्र व श्रीमती माया देवी 72 भाग पुत्री व श्रीमती कौड़ी देवी 104 भाग विधवा नन्दू पुत्र गुसाऊं, अनिल कुमार, विकास पुत्र व श्रीमती रीना देवी, सीमा देवी पुत्रियां व श्रीमती लच्छमी देवी विधवा बलदेव पुत्र नन्दू समभाग 160 भाग स्थानीय वासी -----x----- कुल 160 भाग:- काली दास, दौलत राम, छोटा राम, हेम राज, प्रकाश चन्द, श्रीमती माया देवी, श्रीमती कौड़ी देवी, अनिल कुमार, विकास, श्रीमती रीना देवी, सीमा देवी, श्रीमती लच्छमी देवी समभाग 120 भाग वनीज गैर मौरुसी 40 भाग मिन जानिब दीगर हिस्सादारान				
10.	20 मिन अब्बल	24 मिन	218/196/29/2/1	मुस्तर्का	बारानी	2-5	नितीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी विधवा जगदीश पुत्र सहलो समभाग स्थानीय वासी				
	22 मिन अब्बल	51 मिन	216/107/23/3/1		बारानी	1-6					
			किता-2			3-11					
11.	20 मिन दोम	24 मिन	218/196/29/1/1	मुस्तर्का	बारानी	1-12	कुल 3 भाग:- कुलदीप चन्द 2 भाग पुत्र व श्रीमती कला देवी 1 भाग विधवा निहाला पुत्र फित्थू स्थानीय वासी।				
	22 मिन दोम	51 मिन	216/107/23/4/1		बारानी	1-9					
			किता-2			3-1					
12.	20 मिन सोम	24 मिन	180/22/1	मुस्तर्का	गैर मु0 आबादी	0-2	कुल 6 भाग:- नितीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी विधवा जगदीश पुत्र सहलो समभाग 3 भाग कुलदीप चन्द 2 भाग पुत्र व श्रीमती कला देवी 1 भाग विधवा निहाला पुत्र फित्थू स्थानीय वासी— x— कुल 3 भाग:- कुलदीप चन्द 2 भाग श्रीमती कला देवी 1 भाग हिस्सादारान वायान भाग सिंह, शंकर राम, राये सिंह पुत्र पोहलो पुत्र छांगा स्थानीय वासी मुशत्रीयान।				
13.	22 मिन सोम	51 मिन	216/107/23/2	मुस्तर्का	गैर मु0 रास्ता	0-1	कुल 2 भाग:- नितीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी विधवा जगदीश पुत्र सहलो समभाग 1 भाग कुलदीप चन्द पुत्र व श्रीमती कला देवी विधवा निहाला पुत्र फित्थू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी।				
14.	24 मिन	54 मिन	183/91/25/1	मुस्तर्का	वारानी गैर मु0 आवादी	4-4 3-13 0-11	कुल 846 भाग:- प्यार सिंह पुत्र रामधन पुत्र फुहणू 81 भाग श्रीमती नीलम कुमारी 15 भाग पुत्री व श्रीमती सत्या देवी 30 भाग विधवा सन्त राम पुत्र खजाना, सर्वश्रीमती लच्छमी, प्रेमी समभाग 94 भाग पुत्रियां व श्रीमती रामदेई 188 भाग विधवा कांशी राम पुत्र गान्धी, सन्तोष कुमार 235 भाग पुत्र व श्रीमती गंगा देवी 47 भाग विधवा				

							शंकर पुत्र गान्धी, राम लाल पुत्र सुख राम पुत्र गान्धी 46 भाग रिन्दू कुमार 46 भाग पुत्र व श्रीमती मीरा देवी 23 भाग विधवा रोशन लाल पुत्र सुख राम, राजेश कुमार, सुनील कुमार पुत्र राम लाल पुत्र सुख राम समभाग 23 भाग स्थानीय वासी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी भागीरथ पुत्र रिडकू 18 भाग निवासी बम्म परगना अजमेरपुर।				
15.	25 मिन	55 मिन	41/1	मुस्तर्का	गैर मु0 आबादी	0-4	कुल 21945 भाग:- विजय कुमार, अजय कुमार पुत्र व श्रीमती रतनी देवी विधवा सुख लाल पुत्र चिन्ता समभाग 7018 भाग रतन सिंह, रूप सिंह पुत्र चिन्ता पुत्र फुहणू 14036 भाग निवासी नालग, जौंकी, निकनू पुत्र रामजी पुत्र गोहड़ा समभाग 891 भाग स्थानीय वासी—x—विजय कुमार, अजय कुमार, श्रीमती रतनी देवी समभाग 7018 भाग रतन सिंह, रूप सिंह समभाग 14036 भाग हिस्सादारान वजातेही 21054 भाग वनीज गैर मौरुसी 891 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान।				
16.	29 मिन	59 मिन	128/39/1	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 आबादी गैर मु0 खलवाड़ा गैर मु0 बीड़	7-18 6-1 1-12 0-2 0-3	कुल 1980 भाग:- देशराज पुत्र खजाना पुत्र गोकल 120 भाग सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती कौशल्या विधवा दौलत राम पुत्र कहनू समभाग 240 भाग सर्व श्रीमती लच्छमी, प्रेमी समभाग 220 भाग पुत्रियां व श्रीमती राम देई 440 भाग विधवा कांशी राम पुत्र गान्धी, सन्तोष कुमार 40 भाग पुत्र व श्रीमती गंगा देवी 44 भाग विधवा शंकर पुत्र गान्धी, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी साऊणू पुत्र बेसरिया 180 भाग निवासी नालग, राम लाल पुत्र सुख राम पुत्र गान्धी 220 भाग रिन्दू कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र सुख राम 220 भाग राजेश कुमार, सुनील कुमार पुत्र राम लाल पुत्र सुख राम समभाग 110 भाग श्रीमती मीरा देवी विधवा रोशन लाल पुत्र सुख राम 110 भाग अमरजीत पुत्र व श्रीमती रेखा देवी पुत्री व श्रीमती सुईनी देवी विधवा बाबू राम पुत्र खजाना समभाग 27 भाग श्रीमती रामकू विधवा खजाना पुत्र मडू 9 भाग स्थानीय वासी।				
17.	30	60	40	मुस्तर्का	बारानी गैर मु0 बीड़	0-9 0-6 0-3	कुल 1964 भाग:- रोड़ा, कालू पुत्र कैला पुत्र गोहड़ा समभाग 297 भाग कंचन, टोटो पुत्र व श्रीमती मीना कुमारी पुत्री व श्रीमती मडी विधवा सन्तू पुत्र घुगर समभाग 297 भाग श्रीमती रामकू पुत्री शिवू पुत्र सुर्जन 150 भाग श्रीमती बन्जारू पुत्री फतू पुत्र तानी 340 भाग मसदी				

							पुत्र तानी पुत्र प्रीतम 340 भाग श्रीमती लौहकी विधवा लैहणू पुत्र तानी 340 भाग रतन लाल पुत्र व श्रीमती दासी पुत्री व श्रीमती ज्ञानों विधवा सुदामा पुत्र जोधू समभाग 100 भाग स्थानीय वासी श्रीमती साजू पुत्री जोधू पुत्र गंगू 100 भाग निवासी भटेड़ उपरली —x— मसदी हिस्सादार मलकीयत दहिन्दा, विजय कुमार, अजय कुमार पुत्र व श्रीमती रतनी देवी विधवा सुख लाल पुत्र चिन्ता समभाग 1 भाग रतन सिंह, रूप सिंह पुत्र चिन्ता पुत्र फुहणू समभाग 2 भाग मलकीयत गरिन्दगान।				
18.	33 मिन	63 मिन	38/1	मुस्तर्का	वारानी गैर मु0 आवादी	3-11 2-8 1-3	रणजीत सिंह, संजय कुमार, सुनील कुमार पुत्र व श्रीमती चैलू देवी विधवा ब्रह्मानन्द पुत्र धनू समभाग स्थानीय वासी।				
19.	38 मिन	74 मिन	189/57/1 59/1 61 116/99/66/1 67 68 69 70 / 1	निजी	गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी गैर मु0 फ़ैक्टरी	11-7 3-19 2-1 1-6 0-13 0-10 1-0 0-6	ए0सी0सी0 लिमिटेड बरमाणा				
			किता-8			21-2					
20.	39 मिन	75 मिन	49 / 1		गैर मु0 आवादी	0-3	आबादी देह				
	कुल जोड़		किता-34		91-8						
10. महाल मण्डी ह0नं0 226											
1.	21 मिन	21 मिन	85 / 12 / 1	मुस्तर्का	बंजर कदीम गैर मु0 आवादी	0-10 0-6 0-4	कुल 3 भाग:-जोगिन्द्र सिंह पुत्र जीत राम पुत्र शिबू 1 भाग स्थानीय वासी नोट:- कुल से 1/3 भाग रकबा तादादी 0-4 बीघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष 0-6 बीघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।	महाल माणवां	महाल भराड़ी	महाल माणवां	सतलुज
	कुल अर्जित रकबा:-		किता-353		538-13-05						

[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-2/2021-III dated 01-02-2023 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st February, 2023

No. TPT-F(2)-2/2021-III.—On the recommendations of the multidisciplinary Expert Group constituted by the Revenue Department vide notification No.Rev-B-A(3)-3/2014-IV, dated

22-08-2022 to evaluate the report of Social Impact Assessment Unit and further in exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with rule 12 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to recommend Central Government/Northern Railway/Railway Vikas Nigam Limited to acquire land at **10 villages**, i.e. 1. Nog, 2. Balhi Billa 3. Balhi Jhalede, 4. Bharathu 5. Baghdi, 6. Berri Rajadian, 7. Khater 8. Bhater Uperli, 9. Barmana, 10. Mandi of Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh, total area measuring 538-13-05 bigha (40.54 hectares) comprising of khasra Nos. as attached at Annexure "A" for construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new Broad Gauge Railway line project.

By order,

Sd/-

(R. D. NAZEEM)

Principal Secretary, (Transport).

ANNEXURE-"A"

**Village-wise detail of Land to be acquired for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri,
new B.G. Rail Line**

Tehsil Sadar, District, Bilaspur, H.P.

Sl. No.	Village/Hadbast Name	Private land			Remarks
		Kita	Land in bigha	Land in Hectares	
1.	Nog/178	53	60-6	4.54	
2.	Bahli Billa/151	26	21-9	1.61	
3.	Bahli Jhalede/153	3	4-0	0.30	
4.	Barathu/149	29	24-3-05	1.82	
5.	Baghdi/148	5	22-9	1.69	
6.	Berri Rajadian/141	1	0-7	0.03	
7.	Khater/130	118	210-2	15.81	
8.	Bhater Uperli/129	83	104-5	7.84	
9.	Barmana/128	34	91-8	6.88	
10.	Mandi/226	1	0-4	0.02	
	Total. .	353	538-13-05	40.54	

List of Villages-Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.

Sr. No.	Khewat/ Khataoni No.	Khasra No.	Type of ownership	Category of land	Prop. land for acquisition (In bigha)	Name & father name of owner	Boundaries				
							N	S	E	W	
1	2	3	4	5	6	7	8				
1. Nog Hadbast No. 178											
1.	1 min	1 min	50	Joint owner	Chahi	3-10	Total 2 shares:-Nand Lal son, Lata Devi,Narendra Kumari daughters Shiv Ram son Narainu in equal 1 share, Jagarnathu son Narainu son Moti 1 share local residents.	Balhi Billa	Badhyat	Jungle Sungal	Mian Bandia
2.	2 min	2 min	573/128/1	owner	Chahi	0-2	Lachhman Singh son Devi Saran son Moti local resident.				
3.	4 min	4 min	43/1	Joint owner	—	1-15	Lachhman Singh, Garja Ram sons Devi Saran son Moti in equal shares local residents.				
					Chahi	1-5					
					Gair Beed	0-10					
					Chahi	2-11					
			Kita-2			4-6					
4.	8 min	8 min	49/1	Joint owner	B. Kadim	0-9	Bangali, Chet Ram sons Ramdittu son Sheru in equal shares local residents.				
			51		Chahi	0-4					
			52/1		Chahi	1-11					
			Kita-3			2-4					
5.	9 min	9 min	40/1	Joint owner	Chahi	1-19	Total 2 shares:- Banta Ram son Guljari son Moti 1 share, Balbir Singh, Madan Lal, Sukh Dev sons Banta Ram son Gulzari in equal 1 share local residents.				
6.	10 min	10 min	646/41/1	Joint owner	Chahi	1-7	Mast Ram, Nand Lal sons, Sheela daughter, Lachhmi Devi widow Nikka son Tardu in equal shares local residents.				
7.	11 min	11 min	647/41/1	Joint owner	-	4-10	Total 5 shares:- Ram Lal, Roshan Lal, Rattan Lal, Shyam Lal sons Lakhu son Tardu in equal 4 shares, Sonu, Monu sons, Soma Devi widow PremLal son Lakhu in equal 1 share local residents.				
					Chahi	2-13					
					Bagicha Chahi	1-17					
					Khadatar	0-2					
					Kita-2						
8.	24 min	24 min	47/1	Joint owner	Chahi	0-2	Roharu, Sukhia, sons Govind son Mehlar in equal shares local residents.				
9.	31 min	31 min	113/1	owner	Chahi	0-4	Gain Chand son Kanshi Ram son Bajiru local resident.				
			113/2		Chahi	0-16					
			113/3		Chahi	0-1					
			Kita-3			1-1					
			110	owner Gair Morusi	Chahi	0-5	Gain Chand owner Majkur----- -X---- Chando daughter Bajiru son Gohru local resident Gair Morusi				
	Total		Kita-4			1-6					
10.	37 min	40 min	125/1	Joint owner	Chahi	0-9	Jagar Nath, Sita Ram sons Hariman son Ram Dass in equal shares local residents.				
11.	42 min Abal	45 min	660/127	owner	Chahi	0-5	Manohar Lal son Jeet Ram son Sudama local resident.				
			662/127/1		Chahi	0-3					
	45 min Abal	48 min	186/2/1		Barani	0-14					
			Kita-4								

12.	42 min Dom 46 min	45 min 49min	661/127	owner	Chahi	0-4	Baldev son Jeet Ram son Sudama local resident.
			186/1/1		Barani	0-6	
			201/1		Khadatar	0-2	
			Kita-3			0-12	
13.	43 min	46 min	659/127	owner	Chahi	0-4	Nand Lal son Jeet Ram son Sudama local resident.
14.	44 min	47 min	663/127/1	owner	Chahi	0-6	Prem Lal son Pars Ram son Sudama local resident.
			644/34/1		Chahi	0-19	
			Kita-2			1-5	
15.	45 min Dom	48 min	35/1	Joint owner	Chahi	0-6	Total 560 shares:- Mani Ram 283 shares, Pyare Singh 277 shares son Krishan Singh son Ganga Ram local residents.
			662/127/2		Chahi	2-7	
			Kita-2			2-13	
16.	49 min	52 min	574/128/1	Joint owner	Chahi	0-6	Total 4 shares:- Nand Lal, Chaman Lal sons Bhikhu son Sardaru in equal 1 share, Anku son Shyam Lal son Bhikhu 1 share, Jiwani daughter Sardaru son Dundia 2 shares local residents.
17.	60	63	111	Joint owner	Chahi	0-2	Total 174 shares:- Lachhman Singh, Garja Ram sons Devi Saran son Moti in equal 6 shares, Munshi, Ram Lal in equal 18 shares sons, Ramjani, Sita Devi in equal 12 shares daughters Sunder son Moti, Devi Ram, Ranjeet son Dilbar son Naodha in equal 138 shares local residents ----- X----- ---- Devi Ram, Ranjeet in equal shares hissadarar bajatehi 138 shares baneej Gair Morusi 36 shares min Janib digar hissadarar.
18.	61 min	64 min	112	owner	Chahi	0-2	Ranjeet, Devi ram sons Dilbar son Naodha equal share local resident.
			188/1		Barani	0-12	
			188/2		Barani	0-4	
			Kita-3			0-18	
19.	69 min Abal	72min	288/1	Joint owner	GM Kuhal	0-11	Total 184320 shares :- Nand lal son, Lata Devi, Narendra Kumari daughters Shiv ram son Narainu in equal 4800 shares, Jagarnathu son Narainu son Moti 4800 shares, Lachhman Singh, Garja Ram sons Devsaran son Moti in equal shares 9600 shares, Munshi, Ram lal in equal 7040 shares sons, Ramjani 2560 shares daughter Sunder son Moti, Bangali , Chet Ram son Ramditu son Sheru in equal 14400 shares, Banta ram son Gulzari son Moti 7200 shares, Balbir Singh, Madan Lal, Sukh Dev sons Banta Ram son Gulzari in equal 7200 shares, Ram Lal, Roshan Lal, Rattan Lal, Shyam Lal sons Lakhu son Tardu in equal 13824 shares , Sonu, Monu sons, Soma Devi widow Prem Lal son Lakhu in equal 3456 shares, Mast Ram, Nand Lal sons, Sheela Devi daughter, Lachhmi Devi widow Nikka son Tardu in equal 17280 shares,

							<p>Lekh Ram, Ram Lal, Joginder sons Bhagat Ram son Gandhi in equal 720 shares, Sant Ram son Gandhi son Dhari 9360 shares, Antriksh, Tushar sons, Sujatarani widow Ramdyal son Anant ram in equal 120 shares, Shekhar, Sonu sons, Aruna Devi daughter Ramleela daughter Anant ram in equal 150 shares, Sita ram son, Lajia Devi, Neelam Devi daughters Anant ram son Gandhi in equal 450 shares, Bhupender son Balak ram son Gokul 2160 shares, Rohru, Sukhia sons Govind son Mehlar in equal 2160 shares, Gian Chand son Kanshi Ram son Bajiru 10800 shares, Roop Singh son Tulshi son Sadhu 4320 shares, Jagar Nath, Sita Ram son Hariman son Ram Dass in equal 3456 shares, Prem lal son Parsh ram son Sudama 5376 shares, Mani Ram, Piare Singh sons Krishan singh son Ganga rem in equal 5376 shares, Nand Lal, Manohar lal in equal 3584 shares Baldev 3520 shares son Jeet ram son Sudama, Ramku daughter Dundia son Moti 360 shares, Nand lal, Chaman lal son Bhikhu son Sardaru in equal 275 shares, Nand Lal, Chaman lal son Bhikhu son Sardaru in equal 275 shares, Anku son Shyam lal son Bhikhu 225 shares, Shyam lal son Bhikhu son Sardaru 25 Shares, Phulan, Kanta daughters, Krishni widow Bhikhu son Sardaru in equal 75 shares, Jiwani daughter, Suharu widow Sardaru son Dundia in equal 1200 shares, Lachman, Sohan lal, Sita ram sons Ram singh son Gosau in equal 1080 shares, Roshan lal son Budhu son Saran 2880 shares, Pushpa alias Kamla widow Daya ram son Budhu 2880 shares, Devi ram son, kalo Devi widow Sheru son Mohan in equal 5760 shares, Ranjeet, Devi ram son Dilbar son Naudha in equal 2160 shares, Mania ram son, Maya Devi daughter Ganpat son Phuhnu in equal 2520 shares, Babu ram son Garja son Goverdhan 17280 shares local residents, Savitri Devi wife Gorkh Singh son Durga 1728 shares resident of Balwar.</p>				
20.	69 min Dom	75 min	48/1	Joint owner	Chahi	0-1	<p>Total shares 7920 shares:- Lekh Ram, Ram Lal, Joginder son Bhagat Ram son Gandhi in equal 720 shares, Rohru, Sukhia son Govind son Mehlar in equal 2160 shares, Nand Lal, Chaman Lal in equal 325 shares, Shyam Lal son, Fullan Devi, Kanta Devi daughters, Krishani widow Bhikhu son Sardaru in equal 200 shares, Anku son</p>				

							Shyam Lal son Bhikhu 225 shares, Jiwani daughter, Suharu widow Sardaru son Dudhia in equal 1200 shares, Mania Ram son, Maya Devi daughter Ganpat son Fuhnu in equal 2520 shares, Sita Ram son, Lajya Devi, Neelam Devi daughters Anant ram son Gandhi in equal 360 shares, Shekhar, Sonu sons, Aruna Devi widow Ramleela daughter Anant Ram in equal 120 shares, Antriksh, Tushar sons, Sujatarani widow Ramdyal son Anant Ram in equal 90 shares local residents, -----X----- -----Sukhia, Rohru in equal 2160 shares-hissadaran Bajatehi Bancej Gair Morusi 5760 shares Min Janeeb digar hissadaran.				
21.	110 min	120 min	271/1	Joint owner	-	3-17	Total 11760 shares:- Brij Lal, Shyam Lal, Narottam Dutt sons, Ramvanti, Hardei daughters Ginu son Jyoti in equal 11200 shares, Kuldeep, Madan Lal sons Shiv Ram son Raghbir in equal 140 shares, Parkash Chand, Hari Ram in equal 105 shares sons, Rattani Devi 35 shares widow Arjan son Raghubeer, Raju Ram, Sohan Lal in equal 80 shares sons, Ram Pyari 24 share widow Bhagat Ram son Raghbir, Abhishek 24 shares son, Ankita, Dixita daughters, Pavana Devi in equal 12 shares widow Baldev Kumar son bhagat ram, Shashi Pal, Khem Chand sons, Rita Devi daughter, Satya Devi widow Nand Lal son Raghbir in equal 140 shares local residents.				
			272/2		Barani Beed Khadatar	3-2 0-15					
			273/1 276/1		- Barani Beed Khadatar GM Dhig Barani	4-5 4-0 0-5 2-14 0-2					
			Kita-4				10-18				
22.	129 min Abal	139 min	189/1	Joint owner	Barani	0-2	Ram Pal, Suman Kumar sons Lekh Ram son Badhawa in equal shares local residents.				
			189/2		Barani	0-7					
			Kita-2				0-9				
		139 min	190/2	Joint owner, lease Darinda	- Barani Khadatar GM Abadi	2-7 1-12 0-13 0-2	Ram Pal etc. owners Majkoor---X----- Ram Pal, Suman Kumar in equal shares hissadar total 47 shares bila lease 31 shares, lease Dahindagan 16 shares, Akhilesh Sankhayan son Narender Kumar son ----- resident of Jukhala lease Garinda 16 shares.				
	G. Total		Kita-3				2-16				
23.	129 min Dom	139 min	190/1	owner,	Barani	0-6	Leela Devi widow Jagar Nath son Bali Ram local resident.				
24.	137 min	147 min	192	owner,	Barani	3-1	Jagat Pal son Sant Ram son Jiunu local resident.				
			513/455/ 255/1		Baghicha Barani	0-1					
			Kita-2				3-2				
25.	143 min	153 min	26/1	Joint owner	Chahi	4-6	Total 12 shares:- Devi Ram, Anant Ram, in equal 7 shares, Shiv Singh 5 shares sons Budhu son Hajarar local residents.				
			27/1		Chahi	1-17					
			36		Chahi	0-5					

			37		Chahi	0-6				
			38/1		-	7-14				
					Chahi	7-9				
					GM Abadi	0-5				
			Kita-5			14-8				
26.	221 min	233 min	24/1	Joint owner	Chahi	0-1	Abadi Deh.			
			25/1		Kohli	0-5				
			198/1		Barani	0-19				
			Kita-3			1-5				
	Grand Total		Kita-53			60-6				
2. Bahli Billa Hadbast No. 151										
1.	1 min	1 min	62/38	Joint owner		0-11	Total 7 shares:- Ram Sahai, Ram Lal in equal 6 shares sons, Geeta Devi 1 share, daughter Kirpu son Lohka local residents.	up Muhal Jangal Jhaleda	Muhali Nog	Muhali Bahli Jhaleda
					Barani	0-4				Muhali Dahi
					GM Abadi	0-7				
			63/38/1		Barani	0-3				
			65/38/1		Barani	0-5				
			74/46/1		Banjar Kadim	0-2				
			74/46/2		Banjar Kadim	0-3				
			Kita-5			1-4				
2.	2 min	2 min	34	Joint owner		0-10	Total 1395 shares:- Jagar Nath 320 shares son, Banti Devi, Reeta Devi, Meera Devi daughters, Karm Dei in equal 755 shares widow Sukh Ram son Lohka, Ashok Kumar, Pankaj Kumar in equal 256 shares son, Ram Pyari 64 shares widow Krishanu Ram son Sukh Ram local residents.			
					Barani	0-6				
					Khadatar	0-4				
			37/1			0-8				
					Barani	0-4				
					Khadatar	0-4				
			67/38/1			3-18				
					Barani	2-13				
					Khadatar	0-12				
					GM Abadi	0-11				
					GM Beed	0-2				
			67/38/2		Khadatar	0-4				
			70/39/1		Khadatar	0-12				
			73/46/1			0-12				
					Banjar Kadim	0-6				
					Khadatar	0-6				
			73/46/2		Khadatar	0-2				
			76/50			3-10				
					Barani	3-4				
					Khadatar	0-6				
			51/1		Khadatar	1-17				
			Kita-9			11-13				
3.	3	3	75/50	Owner	Barani	0-5	Budhi Ram son Lohka son Jokhar local resident.			
4.	4 min	4 min	64/38	Joint owner	Barani	0-2	Total 8590 shares:- Ram Sahai, Ram Lal sons ,Ram Pyari, Roshani Devi, Rattani Devi, Geeta Devi daughters, Janki Devi widow Kirpu son Lohka in equal shares 2265 shares, Ashok Kumar, Pankaj Kumar in equal			

							2048 shares sons, Ram Pyari 512 shares widow Krishanu Ram son Sukh Ram, Jagar Nath 2560 son, Banti Devi, Reeta Devi, Meera Devi daughters, Karm Dei in equal 1040 shares widow Sukh Ram son Lohka, Budhi Ram son Lohka son Jokhar 165 shares local residents.				
5.	5	5	49	Joint owner	Barani	0-6	Total 30 shares:- Ashok Kumar, Pankaj Kumar in equal 4 shares sons, Ram Pyari 1 share widow Krishanu Ram son Sukh Ram, Jagar Nath son, Banti Devi, Reeta Devi, Meera Devi daughters, Karm Dei widow Sukh Ram son Lohka in equal 25 shares local residents.				
6.	7	7	54/53	Joint owner	GM Kandhar	0-5	Total 3 shares:- Prem Lal son Pars Ram son Sudama 1 share, Mani Ram, Paire singh sons Krishan singh son Ganga Ram in equal 1 share, Nand lal, Manohar lal, Baldev singh sons Jeet Ram son Sudama in equal 1 share local residents.				
7.	9 min	9 min	14/1	Joint owner	Barani	0-2	Anant Ram, Tulsi Ram, Kanshi Ram, Sada Ram Sita Ram sons Dandu son Maoji in equal shares local residents.				
			27/1		Barani	0-1					
			Kita-2			0-3					
8.	10	11	35	Joint owner	Barani	0-12	Aman Kumar, Raman Kumar sons Brij Lal son Dittu in equal shares local residents.				
			36		Barani	0-5					
			Kita-2			0-17					
9.	11	12	52/1	Joint owner	Khadatar	6-5	Total 96 shares:-Brahmu, Devraj, Surinderpal sons, Bimla, Veena daughters, Chinta devi widow Kanshi ram son Bardu in equal 8 share, Kuldeep; Lalit sen sons, Santosh, Ambika, Jagtamba daughters Bakashi son Bardu in equal 8 share, Daulat Ram son, Shavitri, Anita daughters, Rampyari widow Nathu son Bardu in equal 8 share, Ganga Ram, Hemraj, Deshraj sons, Bohri Devi, Bhima Devi daughters Parwatu daughter Bardu in equal 5 shares, Pavan Kumar, Perveen Kumar sons, Saroj Devi daughter Perm Lal son Parwatu in equal 1 share, Bashudev, Amarnath, Bhavdev sons Banti Devi daughter Parwatu in equal 1 share, Kapil son, Joyti daughter Kanta Devi daughter Parwatu in equal 1 share, Dropati, Krishani daughters Bardu son Foju in equal 16 shares, Dev Kumar, Suresh Kumar, Prem Kumar, Surender Kumar sons, Manju Bala, Kumari Raj Mala daughters, Banti widow Mansha Ram son Gokal in equal 8 share, Aman Kumar, Raman Kumar sons Brij Lal son Dittu in equal 40 shares local residents.				
			52/2		Khadatar	0-3					
			Kita-2			6-8					
10.	12	13	30	Joint owner	GM Abadi	0-5	Total 5 shares:- Aman Kumar, Raman Kumar sons Brij Lal son Dittu in equal 1 share, Patu, Devi				

							@ Tilphu, Dimbo ,Fifdi daughters Gusaun son Shindu in equal 4 shares local residents.				
11.	14	15	31/1	Joint owner	GM Abadi	0-1	Rattan Lal, PremLal, Shyam Singh sons Ram Saran son Mehlar in equal shares local residents.				
	G. T.		Kita-26			21-9					
3. Bahli Jhaleda Hadbast No. 153											
1.	1 min	1 min	35/1	Joint owner	-	0-17	Total 3750 shares- Roshan Lal, Prem Kumar, Shyam Lal, Amarjeet sons lachhman son Madho in equal 1250 shares, Brij Lal, Kuldeep Kumar, Chaman Lal, Gain Chand,Gopal son Sant Ram son Madho in equal 1250 shares, Sita Ram son Kanshi Ram son Madho in equal 1241 shares, Chandermani son Sita Ram son Kanshi Ram 9 shares local residents.	Up Mahal Jungle Jhaleda	Muhai Nog	Kuddi	Bahli Billa
			36/1		Barani	0-15					
					Beed Khadatar	0-2					
						3-2					
					Barani	0-15					
					Khadatar	1-17					
					GM Bad	0-10					
			Kita-2			3-19					
2.	2 min	2 min	46/1	Joint owner	Barani	0-1	Total 16 shares, Ram Krishan, Ramesh in equal 4 shares sons, Sarwanoo 3 shares widow Munshi son Dutt, Savitri widow Mast Ram son Munshi 1 share, Tulsi son Dutt son Guju 8 shares local residents.				
	G. Total		Kita-3			4-0					
4. Bharathu Hadbast No. 149											
1.	3min	3 min	50/1	Joint owner	Kohli	0-3	Bhuri Singh,Balbir Singh, Balwant Singh S/O Prem Singh S/O Gulaba in equal shares, local residents.	Baghdi	Kuddi	JungleBrans	Jungle Jhaleda & Bahli Jhaleda
2.	5 min	5min	60/1	Joint owner	Kohli	0-3	Total shares-2 shares, Kartar Singh, Sanjay Kumar sons, Roshani widow Sukhia s/o Fihja in equal 1 share, Bhuri Singh, Balbir Singh, Balwant Singh Sons Sunita Devi, Sheela Devi daughters Prem Singh s/o Gulaba in equal shares 1 share local residents.				
3.	6min	6min	36	Joint owner	-	1-5	Kali Dass, Baldev Singh, Shiv Ram sons, Brahmi Devi daughter, Banti Devi widow Sahlo Ram s/o Bihari in equal share, local resident.				
					Kohli	1-2					
					Beed. Khadatar	0-3					
4.	8 min	8 min	34	Joint owner	-	0-18	Total shares -2 shares, Kali Dass,Baldev Singh,Shiv Ram sons, Brahmi Devi daughter, Banti Devi widow Sahlo Ram s/o Bihari in equal 1 share, Saola @ Shyam Lal s/o Bihari son Kapuru in 1 equal share, local residents.				
					Kohli	0-15					
					GM Pathar	0-3					
5.	11min	11min	30/1	Joint owner	Kohli	2-1	Total shares -3 shares, Bhuri Singh, Balbir singh, Balwant Singh Sons, Sunita Devi , Sheela Devi daughters Prem Singh s/o Gulaba in equal 1 share, Kali Dass, Baldev Singh, Shiv Ram Sons, Brahmi Devi daughter, Banti Devi widow Sahlo Ram s/o Bihari in equal 1 share, Saula @ Shyam Lal s/o Bihari son Kapuru 1 share, local residents.				
6.	13 min	14 min	42/1	Gair Morusi	Kohli	0-1	Shaunu son Lachhman son Fihja local resident -----X----- Bakhsi son Lachhmu son Medu local resident, Gair Mourusi.				

7.	14 min	15 min	44	Joint owner	Kohli	0-14	Total shares -140 shares, Manoj Kumar, Balwinder Kumar sons, Pano Devi widow Tota son Bohra in equal 13 shares, Pyar Singh son Bohra son Fithu 13 shares, Tulsi son Fithu son Chhaju 75 shares, Roshan son Bohra son Fithu 39 shares, local residents.
		16 min	27/1	Gair Morusi	Kohli	0-15	Manoj Kumar as described above, Pyar Singh, Roshan, Jai Dei, Lachhmi, Manoj Kumar, Balwinder Kumar, Pano Devi Hissadaran Dhani Ram son Gusaunu son Jalam local residents Gair Mourusi.
	Total Khewat		Kita-2			1-9	
8.	22 min	27 min	45/1	Joint owner	Kohli	1-0	Parkash son Bangali son Sadhu local residents.
			45/3		Kohli	0-2	
			Kita-2			1-2	
9.	24 min	29 min	49/1	Joint owner	Kohli	0-9	Jai Singh, Chaman Lal sons Nand Lal son Lobhi in equal shares-local residents.
			61/1		Kohli	0-5	
			Kita-2			0-14	
10.	37 min	43 min	405/32/1	Joint owner	Kohli	0-1	Total 5 shares- Jagar Nath, Sada Ram, Daolat Ram, Hari Dass sons Bakshi son Lachhmu in equal 4 shares, Rajesh Kumar, Chain Singh, Ranjeet sons, Geeta Devi widow Anant Ram son Bakshi in equal 1 share, local residents.
			405/32/2		Kohli	0-1	
			416/43/1		Kohli	2-6	
			Kita-3			2-8	
11.	41 min	47 min	406/32/1	Joint owner	Kohli	0-2	Total 36 shares, Manish Kumar, Parveen Kumar in equal 26 shares sons, Kumari Ranjna, Kumari Arti daughters, Indi in equal 3 shares widow Pritam Chand son Ganga Ram, Gulabi widow Ganga Ram son Lachmu 7 shares, local residents.
			417/43/1		Kohli	0-7	
			Kita-2			0-9	
12.	42 min	48 min	418/43/1	Joint owner		0-18	Narainu, Prabhu, Nuratu, Budhu, Dhyan Singh sons, Sheela Devi daughter Kanshi Ram son Mendu in equal shares local residents.
			419/43/1		Kohli	0-17	
					GM Pathar	0-1	
					Kohli	0-10	
			Kita-2			1-8	
13.	45 min	51 min	407/32/1	owner	Kohli	0-4	Budhu son Kanshi Ram son Mendu local resident.
14.	46 min	52 min	35	Joint owner / Gair Morusi		0-17	Total 32 shares, Hariman, Bali Ram, Rattan Lal in equal 6 shares, Billa-Rahin sons , Ranjeet 8 shares Billa Rehan-4 shares, Rehan 4 shares, son Sant Ram son Tikhu, Prem Lal, Nand Lal sons Sukh Ram son Khajana in equal 6 shares Billa-Rehan, Lachhmi daughter Moti son Khothu- 3 shares Billa- Rehan. Balak Ram, Saoju Ram son Gangu son Naodha in equal 6 shares, Billa Rehan Sant Ram Son Shiv Ram son Chaodhary- 3 shares Billa Rehan, local resident, Parshinoo daughter, Darshnu widow Sadhu local residents-
					Kohli	0-14	
					GM Pathar	0-3	

							Mutihina ----- X ----- -- Lachhmu, Parvatu, Murthinan- 2/3rd baneej Gair Mourusi 1/3rd.				
15.	49 min	56 min	500/31/1	owner	-	1-2	Ram Lal son Shivia son Fithu - local resident				
					Kohli	0-17					
					GM Beed	0-5					
16.	50 min	57 min	501/31/1	Joint owner	-	1-6	Total 112 shares, Poonam,Rajni Devi, Aarti, Anju Devi, Lata Devi, daughters, Urmilla Devi widow Kala Ram son Lekh Ram, in equal 24 shares, Ram Dev- 28 shares son, Chando widow Lekh Ram son Shivia 39 shares, Ashish Kumar son, Kiran Kumari daughter, Indi Devi widow Ravinder Kumar son Lekh Ram in equal 21 shares, local residents.				
					Kohli	1-2					
					GM Beed	0-4					
17.	51 min	58 min	26/1	owner		1-16	Devi Ram son Dhani Ram son Gusaun local resident.				
					Kohli	1-12					
					GM Beed	0-4					
			28/1		-	6-1					
					Kohli	5-15					
					GM Pathar	0-6					
			29/1		Kohli	0-0-05					
			Kita-3			7-17-05					
		62 min	37/1	owner	Kohli	0-5	Devi Ram as described above- Dhani Ram hissadar-exchange Dahinda Pyar Singh son Lalman son Sardaru local resident- exchange Garhinda.				
	G.T.	Kita-4				8-2-05					
18.	62 min	76 min	396/65/1	Joint owner	Kohli	0-4	Total 24 shares;- Santosh Kumar 14 shares, son, Sarswati Devi 1 share daughter, Damodari Devi 9 shares widow Banshi son Gokal local residents.				
19.	70 min	88 min	33	Joint owner	Kohli	0-7	Roshan Lal Kashmir Singh son Saula son Narainu in equal shares local residents.				
	G.T.	Kita-29				24-3-05					
5. Baghdi Hadbast No. 148											
1.	31 min	36 min	219/1	Joint owner/ Gair Morusi	-	7-4	Total shares 112896:- Mahinder Singh, Krishan Gopal Sons, Urmilla Kumari daughter, Nirmala Devi widow Shyam Lal son Budhi Singh in equal 420 shares, Bhuri Singh son Fihna son Saran 546 shares, Mehar Singh son Kala son Saran 546 shares, Nanki, Durgi daughters Saran son Molak in equal 504 shares, Sunil Kumar son, Champa Devi, Seema Devi daughters, Rampyari widow Ranjeet Singh son Sant Ram in equal 2464 shares, Pyar Singh, Prem Singh, Jai Singh sons, Savitri Devi in equal 12320 shares daughter, Damodari Devi widow Sant Ram son Parvatu 3696 shares, Sunder Lal son Parvatu daughter Gokal 18480 shares, Rajesh Kumar, Naresh Kumar sons, Urmilla Devi daughter, Rupa Devi widow	Saltu	Bharathu & Jungle Brans	Jungle Brans	Bharathu
					Barani	5-1					
					Khadatar	0-10					
					GM Beed	1-4					
					GM Abadi	0-9					
					-	0-19					
					Barani	0-14					
					GM Pathar	0-5					
			351/1								

							Rattan Lal son Parvatu in equal 18480 shares, Jagdish, Rajender, Krishanu in equal 16920 shares, Rup Lal 13704 shares son, Rajdai, Bikramu Devi in equal 1128 shares daughters Situ son Narainu, Roshan Lal, Kashmir Singh sons Saulu son Narainu in equal 23688 shares local residents. -----X----- Total 110880 Shares:- Rup Lal 13704 shares, Jagdish, Rajender, Krishanu in equal 16920 shares, Rajdai, Bikramu Devi in equal 1128 shares, Roshan Lal, Kashmir Singh in equal 23688 shares, Sunder Lal 18480 shares, Rajesh Kumar, Naresh Kumar, Urmilla Devi, Rupa Devi in equal 18480 shares, Sunil Kumar, Champa Devi, Seema Devi, Rampyari in equal 2464 shares, Pyar Singh, Prem Singh, Savitri Devi in equal 12320 shares, Damodari Devi 3696 shares bajatehi Baneej Gairmoursi min janib Digar Hissadaran 2016 shares.				
			Kita-2			8-3					
2.	53 min	58 min	217/1/1	Joint owner	Khadatar	0-10	Total 10 shares:- Muninder Singh son Hans Raj son Amar Singh 5 shares, Arun Singh 4 shares son, Hemavati 1 share widow Rattan Singh son Vijay Ram residents of Salnoo.				
3.	93 min	100 min	348/1	Joint owner/G. Morusi	-	8-1	Total 3226720 shares:- Hema Devi widow Prem Singh son Khadka 1210020 shares, Lalman 564375 shares, Mast Ram 235299 shares, Jagbir Singh son, Kaoshalya, Vidya in equal 190275 shares daughters, Achhri Devi 18401 shares widow Pohlo son Rama, Babu Ram, Mangat Ram, Raju @ Devi Ram, Punnu Ram son Niku son Rama in equal 1008350 shares local residents. ----X----- Total 2016700 shares:-Pohlo son Rama son Arjun 1008350 shares, Babu Ram, Mangat Ram, Raju @ Devi Ram, Punnu Ram in equal 1008350 shares hissadaran baneej gair moursi min janeeb Hema Devi hissadara 1210020 shares.				
					Barani	1-15					
					Khadatar	6-6					
			349/1		-	5-15					
					Barani	4-15					
					GM Beed	1-0					
			Kita-2			13-16					
	G. Total		Kita-5			22-9					
6. Berri Rajadian Hadbast No. 141											
1.	144 min	163 min	568/112/1	Joint owner	Banjar Kadim	0-7	Total 3 shares:-Krishan Dass, Roshan Lal sons Gorkh son Duru @ Durga in equal 2 shares, Kanta Devi widow Prem Lal son Gorkh 1 share local residents.	Salnoo	Dasgaon	Khater	Jungle Brans
	GT.		Kita-1			0-7					
7. Khater Hadbast No. 130											
1.	1 Min	1 Min	567/185/2	Joint owner	Khadatar	5-14	Total 8 shares:- Ram Parkash son, Godawari in equal 2 shares daughter, Hema Devi 6 shares Widow Prema son Khadka resident of Salnoo.	Muhai Behda	Muhai Jhira, Kot	Muhai Modar	Muhai Khari Balochra
			569/188			3-19					
					Barani	3-0					
					Beed Khadatar	0-14					
					GM Abadi	0-5					
			Kita-2			9-13					

		2	572/189	Gair Morusi	Barani		Ram Parkash etc. as described above:- Heema Devi hissadara marfat Durga, Chhota sons Chuha son Masadi in equal shares local residents Gair Morusian.				
	G.T.		Kita-3			9-16					
2.	11 min	12 min	461/384/84	Joint owner		1-11	Total 42 shares:- Balwantraj, Raj Kumar sons, Amri Devi daughter, Jai dai w/d Krishanu Ram son Ramdhan in equal 7 shares, Prem Chand, Jagdish Kumar son Ramdhan son Khajana in equal 14 shares, Shyam Lal, Suresh Kumar son Tota Ram son Sohnu Ram in equal 18 shares, Kuldeep son Amar Nath son Shiv Ram 3 share local residents.				
					Barani	1-10					
					GM Pathar	0-1					
3.	12 min	13 min	458/83/1	Joint owner	-	3-12	Total 56700 shares: -Balwantraj, Raj Kumar in equal 6825 shares sons, Amri Devi daughter, Jai dai in equal 2625 shares w/d Krishanu Ram son Ramdhan, Prem Chand, Jagdish Kumar sons Ramdhan son Khajana in equal 18900 shares, Shyam Lal, Suresh Kumar son Tota Ram son Sohnu Ram in equal 23652 shares, Judha Devi daughter Sohnu Ram son Sangaru 6488 shares, Kuldeep son Amar Nath son Shiv Ram 4050 shares local residents.				
					Barani	2-7					
					GM Abadi	1-5					
4.	13 min	14 min	466/86	Joint owner	-	3-9	Total 6 shares:- Balwantraj, Raj Kumar sons, Amri Devi daughter, Jai dai w/d Krishanu Ram son Ramdhan in equal 1 share, Prem Chand, Jagdish Kumar sons Ramdhan son Khajana in equal 2 share, Shyam Lal, Suresh Kumar son Tota Ram son Sohnu Ram in equal 3 share local residents.				
					Barani	3-0					
					GM Abadi	0-9					
		15	30		Khadatar	0-3	Balwantraj etc:- Total 3 shares:- Balwantraj, Raj Kumar, Amri Devi, Jai dai in equal 1 share, Prem Chand, Jagdish Kumar in equal 2 shares hissadaran.				
			45		Barani	0-14					
			186		Khadatar	0-10					
			187		Khadatar	0-1					
			Kita-4			1-8					
	G.Total		Kita-5			4-17					
5.	15 min	18 min	46	Joint owner	Banjar Kadim	0-13	Total 270 shares:- Punam w/o Baljeet Singh son Lachhmi 90 shares, Pawan Kumar, Chaman Lal, Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 33 shares sons, Krishani 57 shares widow Bhuri Singh son Pohlo, Dev Raj son Kanshi Ram son Ramditta 20 shares, Rattana, Prem Chand in equal 40 shares son, Shanti, Brahmi in equal 10 shares widows Kanshi Ram son Ramditta. Mandeep Singh, Gagandeep Singh sons Shaktu son Kanshi Ram in equal 20 shares local residents.				
			53		Khadatar	0-10					
			Kita-2			1-3					
6.	16	20	48	Joint owner		4-2	Total 11070 share:- Ajay Kumar, Vijay Kumar sons, Rattani Devi				

					Barani	3-6	widow Sukh Lal son Chint Ram in equal 2025 shares. Punam w/o Baljeet Singh son Lachhmi 1665 shares, Pawan Kumar, Chaman Lal, Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 1353 shares sons, Krishani 2337 shares widow Bhuri Singh son Pohlo. Dev Raj, Prem Chand in equal 1640 shares, Rattna son, Rattani in equal 820 shares daughter, Shanti, Brahmi in equal 410 shares widows Kanshi Ram son Ramditta, Mandeep Singh, Gagandeep Singh sons Shaktu son Kanshi Ram in equal 820 shares- local residents.				
					Beed Khadatar	0-6					
					GM Pathar	0-8					
					GM Abadi	0-2					
7.	17 min	21 min	513/118/1	Joint owner	-	4-12	Total 28080 shares:- Punam w/o Baljeet Singh son Lachhmi 8280 shares, Kumari Mehar Daughter Hardyal Singh son Lachhmi 135 shares, Pawan Kumar, Chaman Lal, Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 3432 shares sons, Krishani 5928 shares widow Bhuri Singh son Pohlo, Dev Raj, Rattna in equal 4160 shares, Prem Chand 1270 shares son, Shanti, Brahmi in equal 1040 shares widows Kanshi Ram son Ramditta, Mandeep Singh 1985 shares. Gagandeep Singh 1040 shares son Shaktu son Kanshi Ram. Mast Ram son Om Parkash son Ramdittu 810 shares local residents.				
					Barani	4-2					
					GM Abadi	0-8					
					GM Pathar	0-2					
8.	18 min	22 min	565/184	Joint owner	Khadatar	0-4	Total 16 shares:-Desh Raj 4 shares son, Shakuntla Devi 1 share widow Rup Lal son Lachhman, Karm Singh 6 shares son, Chinti 5 shares widow Lachhman son Fuhnu local residents.				
9.	21 min	25 min	451/68/1	Joint owner	-	6-18	Total 576 shares:- Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 174 shares, Sunil Kumar 281 shares son, Dimpal daughter, Roshani in equal 121 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram local residents.				
					Barani	5-7					
					GM Abadi	0-14					
					GM Pathar	0-17					
10.	22	26	353/31	Joint owner	-	0-12	Total 1200 shares- Prakash Chand son, Kala in equal 600 shares daughter, Lachhmi Devi 263 shares widow Tulsi Ram son Sheru, Ravender son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal son Tulsi Ram in equal 225 shares, Jitender Kumar son Prakash Chand son Tulsi Ram 112 shares local residents.				
					Barani	0-6					
					GM Abadi	0-5					
					GM Pathar	0-1					
						6-18					
					Barani	6-0					
					B.Khadatar	0-5					
					GM Abadi	0-13					
			Kita-2			7-10					
11.	23 min	27min	38/1	Joint owner	Banjar Kadim	0-1	Total 48 shares:- Rohru son Sheru son Kania 16 shares. Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 8 shares. Sunil Kumar 4 shares sons, Dimpal daughter,				
			600/251		Barani	1-1					
			Kita-2			1-2					

							Roshani in equal 4 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram Parkash Chand son, Kala in equal 8 shares daughter, Lachhmi Devi 5 shares widow Tulsi Ram son Sheru. Ravinder son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal sons Tulsi Ram in equal 3 shares local residents.				
12.	24	28	44	Joint owner	Banjar Kadim	0-16	Total 96 shares:-Karm Singh 18 shares son, Chinti 15 shares widow Lachhman son Fuhnu. Desh Raj 12 shares son, Shakuntla Devi 3 shares widow Rup Lal son Lachhman, Rohru son Sheru son Kania 16 shares. Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 8 shares .Sunil Kumar 4 shares son, Dimpal daughter, Roshani in equal 4 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram. Parkash Chand son, Kala in equal 8 shares daughter, Lachhmi Devi 5 shares widow Tulsi Ram son Sheru. Ravinder son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal son Tulsi Ram in equal 3 shares local residents.				
13.	25	29	684/462/38 4/ 85	Joint owner	GM Dukan	0-1	Total 8 shares:- Daropti widow Ramu son Taunu 4 shares, Sanjay Kumar son, Sapna daughter, Rupa Devi Widow Babu Ram son Budhu in equal 3 shares, Sarika, Srishti daughters, Kaushallya Devi widow Vijay Kumar son Babu Ram in equal 1 share Prema son Khadka local residents.				
14.	27 min	31 min	67/1	Joint owner		0-19	Total 40 shares:- Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 11 shares, Sanjay Kumar son, Sapna daughter in equal 4 shares daughter, Rupa Devi widow 17 shares widow Babu Ram son Budhu, Sarika, Srishti daughters, Kaushalya Devi widow Vijay Kumar son Babu Ram in equal 2 shares, Amar Nath son Kalia son Moti 6 shares local residents.				
					Khadatar	0-14					
					GM Abadi	0-5					
15.	29 min	33 min	728/449/66	Joint owner	Barani	0-4	Hoshiar Singh, Jaswant Singh, Satish Kumar sons, Sundri Devi widow Tarhadu son Moti in equal shares local residents.				
16.	30 min	34 min	51	Joint owner	Barani	0-1	Total 192 shares:- Chet Ram, Achhar Singh sons Balia son Moti in equal 64 shares. Amar Nath son, Sapna Kumari in equal 32 shares daughter, Khalaili Devi 19 shares widow Kalia son Moti. Abhisek, Aniket sons, Niko Devi @ Manisha Devi widow Hans Raj son Kalia in equal 13 shares. Hoshiar Singh, Jaswant Singh, Satish Kumar sons, Sundri Devi widow Tarhadu son Moti in equal 64 shares local residents.				
			54			2-18					
					Banjar Kadim	0-3					
					Khadatar	2-15					
			57/1			1-16					
					Barani	1-10					
					GM Abadi	0-6					
			58			0-13					
					Barani	0-5					
					GM Abadi	0-8					
			Kita-4			5-8					

17.	33 min	37 min	515/120/1	Joint owner		7-11	Sant Ram, Jodha sons, Parvatu widow Tulsi son Lala in equal shares local residents.
					Barani	6-6	
					GM Abadi	1-5	
			121		Barani	0-14	
			Kita-2			8-5	
18.	34 min Abal	38 min	729/449/66/1	owner	Barani	0-3	Satish Kumar son Tarhadu son Moti local resident.
19.	34 min Dom	38 min	729/449/66/2/1	owner	Barani	2-18	Roshan Lal son Kanshi Ram son Kadaru local resident.
			817/790/488/94		Barani	0-8	
			816/786/689/670/506/98/1			2-3	
					Barani	1-19	
					GM Abadi	0-4	
			814/776/617/412/279/1			2-14	
					Khadatar	2-10	
					GM Pathar	0-4	
			Kita-4			8-3	
20.	35 min	40 min	818/790/488/94/1	owner	Barani	1-4	Rajender Kumar son Kanshi Ram son Kadaru local resident.
			95		Barani	0-5	
			815/786/689/670/506/98/1		Barani	0-13	
			813/776/617/412/279/1		-	1-13	
					Khadatar	1-10	
					GM Pathar	0-3	
			Kita-4			3-15	
21.	36	41	791/488/94	Joint owner	Barani	0-3	Roshan Lal, Rajender Kumar sons Kanshi Ram son Kadaru in equal shares local residents.
22.	39 min Abal	44 min	785/689/670/506/98/1	Joint owner	Barani	1-1	Total 54 shares: -Ganga Singh 17 shares son, Damodari 22 shares widow Hari Dass son Kadaru local residents. Sonika Devi wife Bharat Bhusan son Sada Ram 5 shares resident of Binola, Sundru Devi Wife Sankar son Khajana 10 shares resident Bhater Uprali.
23.	39 min Dom	44 min	792/488/94	Joint owner	Barani	4-5	Ganga Singh son, Damodari widow Hari Dass son Kadaru in equal shares local residents.
			490/96		GM Abadi	0-1	
			657/493/96/1		Barani	1-5	
			Kita-3			5-11	
24.	43 min	48 min	453/382/69/1	Joint owner/ Gair Morusi	Barani	2-4	Total 4 shares:- Damodari widow Hari Dass son kadaru 1 share. Hoshiar Singh, Jaswant Singh, Satish Kumar sons, Sundri Devi widow Tarhadu son Moti in equal 3 shares local residents -----X----- Hoshiar Singh, Jaswant Singh, Satish Kumar, Sundri Devi in equal 3 shares bajatehi baneej Gair Morusi 1 share min Janib Damodari hissadara.

25.	44 min	49 min	122/1	Joint owner	Barani	0-17	Total 10 shares:- Kamla,Bimla Devi, Geeta Devi, Kaoshalya Devi daughters Dalela son Fihna in equal 1 share. Basant Singh, Krishan Chand son Piru son Fihna in equal 5 shares. Kamla wife Hukam Chand son Bardu 1 share. Bimla Devi wife Harnam Singh son unknown 1 share Local resident, Kaoshalya Devi wife Gian Singh son Kirpu 1 share resident of Chhajwala, Geeta Devi wife Karm Singh son Rabhal 1 share resident of Baloh.
			126/1		Barani	0-1	
			613/269		Khadatar	7-10	
			Kita-3			8-8	
26.	46 min	55 min	517/129/1	Joint owner	Barani	0-3	Total 2852 shares:-Joginder Singh, Rajender Kumar in equal 744 shares son, Madi Devi 341 shares widow Nandu son Piru. Ravi Kumar son, Manisha Kumari daughter, Ruko Devi widow Surender Kumar son Nandu in equal 341 shares. Basant Singh 736 shares, Krishan Chand 690 shares sons Piru son Fihna local residents.
			517/129/2		Barani	0-1	
			Kita-2			0-4	
27.	47 min	56 min	82/1	Joint owner	-	5-5	Total 1560 shares:- Joginder Singh,Rajender Kumar sons, Madi Devi widow Nandu son Piru in equal 531 shares. Ravi Kumar son, Manisha Kumari daughter, Ruko Devi widow Surender Kumar son Nandu in equal 177 shares .Basant Singh son Piru son Fihna 294 shares. Kuldeep Singh, Ramesh Chand, Surjeet Singh sons Basant Singh son Piru in equal 96 shares. Avtar Singh son Kashmir Singh son Mahajan 32 shares local residents. Chaman Lal son Pars Ram son Gokal 16 shares resident of Niharkhan Basla. Sita Ram son Sant Ram son Mastana 12 shares. Ajay Kumar son Bishan Dass son Sant Ram 12 shares. Krishan Chand son Piru son Fihna 390 shares local residents.
					Barani	4-19	
					GM Abadi	0-4	
					GM Pathar	0-2	
28.	49 min	58 min	789/766/652/478/388/91/1	Joint owner	Barani	0-9	Total 7 shares:- Parmjeet, Shamsher Singh sons,Anjna Kumari, Sheela Devi daughters, Savitri Devi widow Sukh Ram son Mani Ram in equal 1 share. Babu Ram, Parkash Chand, Ram Pal sons, Savitri Devi,Soma Devi, Sunita daughters, Parshinoo widow Mani Ram son Budhu in equal 6 shares local residents.
	206 min	221 min	486/93		GM Abadi	0-1	
			612/268/1		Khadatar	1-2	
			417/283/1			4-3	
					Banjar Kadim	3-19	
					GM Pathar	0-4	
			Kita-4			5-15	
29.	54 min	63 min	693/508/103/1	Joint owner/ Gair Morusi	-	4-3	Total 540 shares:- Punam w/o Baljeet Singh son Lachhmi 45 shares, Pawan Kumar,Chaman Lal,Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 33 shares sons, Krishani 57 shares widow Bhuri Singh son Pohlo.Dev Raj, Rattna, Prem Chand in equal 60 shares sons, Shanti, Brahmi in equal 10 shares widows Kanshi Ram son Ramditta, Mandeep Singh, Gagandeep Singh sons Shaktu son Kanshi Ram in equal
					Barani	3-15	
					GM Abadi	0-8	
			442/59/1		Banjar Kadim	0-1	
			Kita-2			4-4	

							20 shares. Narendra widow Ram Lal son Vijay Ram 270 shares. Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 45 shares local residents. -----X----- Total 540 shares:- Punam 45 shares, Pawan Kumar, Chaman Lal, Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 33 shares, Krishani 57 shares. Dev Raj, Rattna, Prem Chand in equal 60 shares. Shanti, Brahmi in equal 10 shares, Mandeep Singh, Gasgandeep Singh in equal 20 shares. Geeta Devi 45 shares bajatehi 270 shares banceej Gair Morusi min janeeb Narendra 270 shares hissadara.			
30.	55	65	32	Joint owner/Gair Morusi	-	2-2	Total 1008 shares:- Rohru son Sheru son Kania 240 shares, Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 120 shares, Sunil Kumar 60 shares son, Dimpal daughter, Roshani in equal 60 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram, Parkash Chand son, Kala in equal 120 shares daughter, Lachhmi Devi 75 shares widow Tulsi Ram son Sheru. Ravinder son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal son Tulsi Ram in equal 45 shares local residents. Sita Ram son, Swaru, Jai dai daughters Gopala son Jagga in equal 72 shares, Nirmla Devi, Suman Devi, Kushum Devi daughters Brahmu son Gopala in equal 132 shares, Geeta Devi widow Brahmu son Gopala 36 shares, Pritam Singh, Suresh Kumar son Roshan Lal son Gopala in equal 16 shares, Abnish Kumar son, Maya Devi daughter Ramesh Chand son Roshan Lal in equal 8 shares, Jagdish, Pyar Singh son, Kamla, Banti, Neema daughters Banjaru daughter Gopala in equal 20 shares, Vikash Thakur son, Reena Kumari, Monika Kumari, Sonu Kumari daughters Premrata daughter Banjaru in equal 4 shares residents of Nalag. -----X----- Himat Singh, Hukam Chand in equal 15 shares, bajatehi baneej Gair Morusi 6 shares min janeeb digar hissadara.			
					Banjar Kadim	1-4				
					GM Beed	0-18				
31.	56 min	66 min	39/1	Joint owner/Gair Morusi	Banjar Kadim	0-5	Total 672 shares:- Rohru son Sheru son Kania 176 shares, Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 88 shares, Sunil Kumar 44 shares son, Dimpal daughter, Roshani in equal 44 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram, Parkash Chand son, Kala in equal 88 shares daughter, Lachhmi Devi 55 shares widow Tulsi Ram son Sheru. Ravinder son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal son Tulsi Ram in equal 33 shares. Rohit Kumar son, Lata Devi, Sapna Devi daughter,			

							Kala Devi widow Jodha son Sansaru in equal 16 shares. Sukhia 64 shares, Rama Nand 16 shares son Sansaru son Mohan. Kasu daughter Negi son Jawahar 48 shares local residents----- -----X----- Total 672 shares:- Rohru 176 shares, Himat Singh 88 shares, Sunil Kumar 44 shares, Dimpal, Roshani in equal 44 shares, Parkash Chand, Kala in equal 88 shares. Lachhmi Devi 55 shares. Ravinder, Prinkal, Sheela Devi in equal 33 shares bajatehi 528 shares baneej Gair Morusi min janceeb Sukhia, Rama Nand, Kasu, Rohit Kumar, Lata Devi, Sapna Devi, Kala Devi in equal 144 shares hissadaran.				
32.	57	67	40	Joint owner/ Gair Morusi	Banjar Kadim	0-7	Total 64 shares:- Rohru son Sheru son Kania 16 shares, Himat Singh son Munshi Ram son Sheru 8 shares, Sunil Kumar 4 shares son, Dimpal daughter, Roshani in equal 4 shares widow Hukam Chand son Munshi Ram, Parkash Chand son, Kala in equal 8 shares daughter, Lachhmi Devi 5 shares widow Tulsi Ram son Sheru. Ravinder son, Prinkal daughter, Sheela Devi widow Nand Lal son Tulsi Ram in equal 3 shares. Mansha son, Manbharu widow Balia son Laturia in equal 16 shares local resident -----X----- Rohru 16 shares, Himat Singh 8 shares, Sunil Kumar 4 shares, Dimpal, Roshani in equal 4 shares, Parkash Chand, Kala in equal 8 shares. Lachhmi Devi 5 shares. Ravinder, Prinkal, Sheela Devi in equal 3 shares bajatehi 48 shares baneej Gair Morusi min janceeb Mansha, Manbharu 16 shares hissadaran.				
33.	58 min	68 min	37/1	Joint owner/Gair Morusi	-	2-18	Total 691200 shares:- Purshottama widow Parkash Chand son Ramdittu 336 shares, Judhya widow Dhayna son Jalam 21600 shares, Sukh Dei widow Pola son Naranjan 21600 shares, Hardei widow Shiv Ram son Jyoti 12960 shares, Mangla Devi widow Sant Ram son Pohlo 2025 shares. Ghoga, Gorju widows Ghamira son Bhajnu in equal 21600 shares, Abhishek Thakur son Chaman Lal son Ram Dass 1050 shares, Darshnu widow Sansaru son Kaji 405 shares, Krishani widow Bardu son Sansaru 135 shares, Kaili widow Balku son Jiunu 14400 shares, Resmu widow Gokal son Gurmukh 1200 shares. Dwarku widow Sangara son Fuhnu 10800 shares, Roop Singh, Rattan Singh son Chint Ram son Fuhnu in equal 383686 shares, Vijay Kumar, Ajay Kumar sons, Rattani Devi widow Sukh Lal				
					Barani	1-18					
					GM Abadi	1-0					

							son Chint Ram in equal 191843 shares, Saoli widow Ramdhan son Fuhnu 2160 shares, Panchu widow Bhagat Ram son Fuhnu 5400 shares local residents. -----X----- Vijay Kumar, Ajay Kumar, Rattani in equal 191843 shares .Roop Singh, Rattan Singh in equal 383686 shares bajatehi 575529 shares baneej Gair morusi minjaneeb digar hissadaran 115671 shares.				
34.	59 min	69 min	691/672/99/1	Joint owner	Barani	0-4	Total 8 shares:- Sanjay Kumar son, Sapna in equal 2 shares daughter, Rupa Devi widow Babu Ram son Budhu 5 shares, Sarika, Shresti daughter, Kaoshalya Devi widow Vijay Kumar son Babu Ram in equal 1 share local resident.				
35.	60 min	70 min	440/56/1	Joint owner/Gair Morusi	Barani	4-6	Total 20 shares:- Karm Singh 8 shares son, Chinti 5 shares widow Lachhman son Fuhnu, Desh Raj 6 shares son, Sakuntla Devi 1 share widow Rup Lal son lachhman Local residents.				
36.	87	99	125	Joint owner	Barani	0-3	Total 24 shares:- Abhia Ram, Rattan Lal, Vidya Sagar sons Balku son Foju in equal 15 shares, Surrender, Rajender sons Kirpa son Balku in equal 5 shares local residents. Resmu daughter Foju son Kundo resident of Bhater Uperli 4 share.				
37.	88	100	123	Joint owner	Barani	0-10	Total 9240 shares:- Surrender Kumar, Sanjeev Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram @ Magan Dass son Jamnu in equal 1267 shares, Ronki Parshad, Sant Ram sons Jamnu son Jiunu in equal 1764 shares, Abhay son, Kanta Devi widow Daya Sagar son Jamnu in equal 882 shares. Neelam Kumar @ Anil Kumar 574 shares, Kuldeep Kumar, Kashmiri Lal in equal 308 shares sons Bishan Dass son Jamnu, Yash pal son Ram Dass son Sangaru 980 shares . Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 1155 shares, Ram Lok, Shri Ram, Nand Lal sons, Premi, Champa daughters, Nikki widow Mohanu son Fithu in equal 1980 shares Dev Raj, Parshotam, Pankaj Kumar sons, Madhu Devi daughter Rupa daughter Mohnu in equal 330 Shares local residents.				
38.	89	101	124	Joint owner	Barani	0-8	Total 4 shares:- Babu Ram 3 shares son, Gurdei 1 share widow Krishanu son Kiru local resident.				
39.	90 min	102 min	282/1	Joint owner	-	5-18	Total shares 177724800 shares:- Lekh Ram son Kirpa son Masadi 4768500 shares resident of Khalet, Surrender, Rajinder sons Kirpa son Balku in equal 3856875 shares .Abhia Ram, RattanLal, Vidya Sagar sons Balku son Foju in equal				
					Banjar Kadim	4-6					
					Khadatar	1-8					
					Beed Khadatar	0-4					

							<p>11570625 shares local residents. Resmu daughter Foju son Kundo 3085500 shares resident of Bhater Uperli. Hari Dass son Ramdittu son Ganesha 9256500 shares. Shiv Ram son Tikhu son Ganesha 9256500 shares, Surender Kumar, Sanjeev Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram @ Magan Dass son Jamnu in equal 7323260 shares, Ronki Parshad, Sant Ram sons Jamnu son Jiunu in equal 10195920 shares, Abhay son, Kanta Devi widow Daya Sagar son jamnu in equal 5097960 shares, Neelam Kumar @ Anil Kumar 3317720 shares, Kuldeep Kumar, Kashmiri Lal in equal 1780240 shares sons Bishan Dass son Jamnu, Yash pal son Ram Dass son Sangaru 5664400 shares. Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 6675900 shares, Ram Lok ,Shri Ram,Nand Lal sons, Premi, Champa daughters, Nikki widow Mohanu son Fithu in equal 11444400 shares, Dev Raj, Parshotam, Pankaj Kumar sons, Madhu Devi daughter Rupa daughter Mohnu in equal 1907400 Shares, Om Parkash 1264450 shares, Suresh Kumar son, Ram Pyari in equal 6721550 shares widow Devi Roop son Narainu, Ram Lal son, Lachhmi Devi, Ram Kali daughters Radha daughter Narainu in equal 3993000 shares, Rakesh son, Geeta widow Roda son Koka in equal 1496550 shares, Kalu son Koka son Mohan 1496550 shares, Kanchan, Toto son, Meena Kumari daughter, Madi widow Santu son Ghungar in equal 2993100 shares, Savitri widow Khajana son Hiru 598620 shares, Naresh Kumar son, Pooja Kumari, Arti Kuimari daughters, Urmila Devi widow Khem Raj son Balia in equal 119724 shares, Gopal, Dina Nath sons, Indira Devi , Madhu daughters Balia son Hiru in equal 478896 shares, Gopal Dass son, Fifdi widow Mahantu son Hiru in equal 598620 shares.Tilak Raj, Jai Nand sons, Achhri Devi widow Giga son Hiru in equal 14265240 shares, Shyam Lal, Jai Krishan, Prem Lal sons Munshi Ram son Ramji in equal 1347390 shares, Shalendra wife Pawan Kumar son Munshi Ram 449130 shares, Buidhu, Niknu son Ramji son Mohan in equal 3593040 shares, Raj Kumar son, Brinda daughter, Rattani widow Nikdu son Ramji in equal 1796520 shares, Hari Kumar, Anil Kumar sons, Sarita daughter, Heera widow Jonki @ Janki Ram son Ramji in equal 1796520 shares. Raj Kumar, Ramesh Chand sons, Gambhari Devi widow Mani Ram son Banjaru in equal 7152750 shares,</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Babu Ram 8330850 son, Gurdei 2776950 shares widow Krishanu son Kiru, Rattan Lal son Sudama son Jodhu 6171000 shares, Dinesh Kumar, Balram sons Rattan Lal son Sudama in equal 2468400 shares, Kuldeep Chand, Lalit Sen son Bakshi son Bardu in equal 7152750 shares, Basu Dev, Om Parkash sons Lakhu son Fithu in equal 2993100 shares, Dassi daughter Sudama son Jodhu 2468400 shares local residents.				
40.	92 min	106	71/1	Joint owner	Barani	0-3	Total 6 shares :- Yog Raj, Pawan Kumar sons, Suman Lata, Nisha Kumari daughters Rup Lal son Tita in equal 3 shares Billa Rehan Hans Raj son Chandu son Banshi 1 share billa Rehan, Chandu son Bansi son Budhu 2 share Rehan local residents. Pano wife Hutasan son unknown resident Bhater Uperli Murthina.				
41.	94 min	108 min	72/1	Joint owner/ Gair Morusi	Barani	0-2	Total 12 shares:- Yog Raj ,Pawan Kumar sons, Suman Lata, Nisha Kumari daughters Rup Lal son Tita in equal 3 shares, Hans Raj son Chandu son Banshi 1 share, Chandu son Bansi son Budhu 2 shares local residents. Narendra widow Ram Lal son Vijay Ram 6 shares resident of Majhasu ----- X----- Chandu, Tita, Hans Raj, Rup Lal bajatehi 1 share banij Gair Morusi 1 share min Janeeb digar hissadaran.				
42.	101	115	483/92	Joint owner	GM Shop	0-1	Total 2 shares:- Ram Lal son Moti son Shyamu 1 share resident of Ropa Kulatar. Inder Dutt son Mahant Ram son Rama 1 share resident Kashmaila.				
43.	102 min	116 min	482/92/1	Joint owner/ claimant Rehan	GM Abadi	0-1	Total 2 shares:- Chaman Lal son Krishanu son unknown 1 share resident Padhyan, Dalip Chand son Kanshi Ram son unknown 1 share resident Hatwar----- X----- Bishan Dass, Nika sons, Roshani daughter, Dasodha widow Lachhman son Kapura in equal share local residents Dabedar Rehanan.				
44.	104	118	476/388/91	Joint owner	GM Abadi	0-2	Ramesh Chand, Gopal Dass, Subhash Chand sons, Vidya wife Shiv Dutt son Lachhman in equal shares residents Mahasan Lehdi Tehsil Sundernagar.				
45.	117 min Abal	131 min	798/741/ 605/258 /1	owner	Barani	0-2	Jeet ram son Sunder son Nikku resident Lehar Teh. Sundernager Distt. Mandi.				
46.	117 min Doam	131 min	798/741/ 605/258 /2	owner	-	3-10	Malo @ Roshani widow Gopala son Fandhi local resident.				
					Barani	3-5					
					GM Abadi	0-5					

47.	119	133	797/741/ 605/258	owner	Barani	0-2	Akshya Kumar son Kuldeep Chand son Gain Chand resident of Aouhar Teh. Ghumarwin.
48.	120 min	134 min	740/605/ 258/1	Joint owner	-	4-4	Total 2 shares:-Lekh Ram, Piar Singh in equal 1 share sons, Daropti 1 share widow Saran @ Ramsaran son Fandhi local residents.
					Barani	3-9	
					GM Abadi	0-15	
49.	121 min	135 min	747/294/1	Joint owner	-	3-13	Pinkal Kumar son,Suharu widow Chhota son Chuha in equal shares local residents.
					Khadatar	3-9	
					Beed Khadatar	0-4	
			747/294/2		Khadatar	0-1	
			295/1		Barani	0-6	
			296		Banjar Kadim	0-6	
			297/1			1-13	
					Khadatar	1-4	
					Beed Khadatar	0-9	
			298/1		Banjar Kadim	0-2	
			Kita-6			6-1	
50.	122 min	136 min	746/294/1	Joint owner	Banjar Kadim	0-1	Anant Ram, Nand Lal sons Durga son Chuha in equal shares local residents.
			305/1		Khadatar	4-1	
			Kita-2			4-2	
51.	123	137	303	Joint owner	Barani	0-19	Total 16 shares:- Khajana son Sangaru son Gurmukh 1 share, Shyam Lal, Suresh Kumar sons Tota Ram son Sohanu Ram in equal 1 share, Anant Ram, Nand Lal sons Durga son Chuha in equal 7 shares, Pinkal Kumar son, Suharu widow Chhota son Chuha in equal 7 shares local residents-----X----- ----- Durga, Chhota in equal 14 shares bajatehi baneej Gair Morusi 2 shares min Janeeb digar hissadaran.
52.	125 min	139 min	413/283/1	owner	-	1-18	Sunka Ram son Durga son Chuha local resident.
					Basrani	1-13	
					GM Beed	0-5	
53.	130	144	477/388/91	Joint owner	GM Abadi	0-2	Purshottam Lal, Gian Chand, Puran Chand sons Girdhari Lal son Ganesh Dass in equal shares residents Ghandalwin Tehsil Ghumarwin.
54.	161	175	414/283	owner	-	4-19	Kirpa son Biptu son Tikhu resident of Bhater Uperli.
					Banjar Kadim	2-10	
					GM Pathar	0-9	
					Banjar Jadid	2-0	
55.	164	178	257	Joint owner	Khadatar	0-16	Total 12 shares:- Nikki widow Dhanu son Makodu 1 share, Judhya, Vrikamu daughter Makodu son Jawahar in equal 1 share, Kala son, Mahantu widow Tatu son Jawahar in equal 4 shares, Soma Devi daughter Thewad son Fuhnu 3 shares local residents. Kamal Kumar son Balak Ram son Gapia 3 shares

							resident of Tehsil Sundernagar Distt. Mandi.				
56.	165 min	179 min	24/1	Joint owner	Khadatar	1-9	Total 1032 shares:- Shashi Sharma son Kishan Chand son Kanshi Ram 48 shares, Basu Dev son Kanshi Ram son Narpal 24 shares resident of Badai Tehsil Baldwara Distt. Mandi. Shashi son Kishan Chand son Bhagat Ram 72 shares resident Kalohad Tehsil Sundernagar Distt. Mandi. Niki widow Dhanu son Makodu 86 shares, Judhya, Vrikamu daughters Makodu son Jawahar in equal 86 shares, Kala 100 shares son, Mahantu 172 shares widow Tatu son Jawahar, Soma daughter Thewad son Fuhnu 186 shares. Anshul Kumar son, Nitika Kumari, Manisha Kumari daughters, Asha Devi widow Pawan Kumar son Shiv Ram in equal 129 shares. Subhash Chand son Shiv Ram son Fuhnu 129 shares local residents.				
57.	166 min	180 min	21/1	Joint owner	-	2-9	Total 24 shares:- Subhash Chand, Suresh Chand sons Chaodhary Singh son Rama Ram in equal 3 shares resident of Khansara Tehsil Ghumarwin Distt. Bilaspur, Nikki widow Dhanu son Makodu 2 shares, Judhya, Vrikamu daughters Makodu son Jawahar in equal 2 shares, Kala son, Mahantu widow Tatu son Jawahar in equal 8 shares. Soma daughter Thewad son Fuhnu 6 shares, Anshul Kumar son, Nitika Kumari, Manisha Kumari daughters, Asha Devi widow Pawan Kumar son Shiv Ram in equal 3 shares local residents.				
					Barani	0-14					
					Khadatar	1-15					
58.	167 min	181 min	25/1	Joint owner	-	17-4	Total 387720 shares:- Munshi Ram son Pohlo son Mohan 6480 shares local resident, Sakina Devi wife Munshi Ram son Pohlo 1080 shares resident of Bhagot Tehsil Ghumarwin, Kirpa Ram son Pohlo son Chuhru 3240 shares, Bimla Devi wife Kirpa Ram son Pohlo 3240 shares local residents, Shashi Sharma son Kishan Chand son Kanshi Ram 8640 shares. Basu Dev son Kanshi Ram son Narpal 9720 shares resident Badai Tehsil Baldwara Distt. Mandi, Shashi son Kishan Chand son Bhagat Ram 9720 shares resident of Kalohad Tehsil Sundernagar Distt. Mandi. Niki widow Dhanu son Makodu 43110 shares, Judhya, Vrikamu daughters Makodu son Jawahar in equal 32310 shares. Kala 36540 shares son, Mahantu 64620 shares widow Tatu son Jawahar, Soma Devi 73332 shares Meena Devi, Reena Devi in equal 5238 shares daughters Thewad son Fuhnu. Anshul				
					Barani	14-16					
					Beed	0-10					
					Khadatar						
					GM Abadi	1-6					
					GM Pathar	0-12					

							Kumar son, Asha Devi widow Pawan Kumar son Shiv Ram in equal 45225 shares. Subhash Chand son Shiv Ramson Fuhnu 45225 shares local residents.				
59.	172 min	186 min	50	Joint owner	-	8-5	Total 280 share:-Subhash Chand son, Pano Devi daughter, Bimla Devi widow Parsh Ram son Santa in equal 105 shares, Ravi Dogra son, Priyanka daughter, Premi Devi widow Ramesh Kumar son Parsh Ram in equal 35 shares. Joginder Singh, Mohinder Lal, Ranjeet Singh in equal 65 share son, Rampyari, Meera Devi, Beena Devi, Maya Devi in equal 5 shares daughters Gulaba son Budhu, Suresh Kumar, Surender Kumar, Rakesh Kumar in equal 56 shares sons, Kamla 14 shares widow Prema son Budhu local residents.				
					Barani	6-6					
					Beed Khadatar	0-19					
					GM Abadi	1-0					
						0-18					
					Barani	0-15					
					GM Pathar	0-3					
						3-17					
					Khadatar	3-14					
					GM Pathar	0-3					
					Kita-3	13-0					

[illegible]

							Ananya Wife of Munish son Subhash Chand 1 share resident of Jangal Sungal Uperla.				
3.	5 min	5 min	184/1	Joint owner	Barani	0-3	Suresh Kumar son Devi Rup son Narainu Rahin local resident, Sukh lal son Khajana son ---- resident of Salonu Murathin -----x----- Total 3 shares:- Gulaba, Ramu sons Fihna son Dhugal in equal 2 shares, Krishanu son Jangi son Fihna 1 share local residents Daawedariyan sale.				
4.	7 min	7 min	373/121	Joint owner	Barani	1-19	Rakesh son, Geeta Devi widow Roda son Kukka in equal shares local residents.				
			374/122		Barani	0-11					
			Kita-2			2-10					
5.	8 min	8 min	372/121/1	Joint owner	Barani	0-18	Total 14 shares:- Ramesh Chand, Madan Lal in equal 9 shares sons, Shailendra 1 share daughter Kalu son Kuka, Rohit son, Tanuja, Harsha, Pratigya, Shailja daughters, Manorma widow Pawan Kumar son Kalu in equal 4 shares local residents.				
			375/122/22		Barani	1-12					
			Kita -2			2-10					
6.	10 min	10 min	67/1	Joint owner	Barani	0-2	Total 1008 shares :- Ramesh Chand 307 shares, Madan Lal 335 shares son, Shailendra 69 shares daughter Kalu son Kuka, Rohit son, Tanuja, Harsha, Pratigya, Shailja daughters, Manorma widow Pawan Kumar son Kalu in equal 297 shares local residents.				
7.	14 min	15 min	298/136/1	Joint owner	Barani	0-18	Total 2580 shares:- Savitri widow Khajana son Hiru 291 shares, Naresh Kumar son, Pooja, Arti daughters, Urmila Devi widow Khem Raj son Balia in equal 172 shares, Gopala, Dina Nath sons Balia son Hiru in equal 344 shares, Tilak Raj, Jai Nand sons, Achhri Devi widow Giga son Hiru in equal 1032 shares, Gopal Dass son, Fifdi widow Mahantu son Hiru in equal 456 shares, Bishan Dass, Nikka Ram sons Lachhman son Kapura in equal 165 shares, Geeta Devi wife Bishan Dass son Lachhman 60 shares local resident, Rajender Kumar son Dandu son Kapuru 60 shares resident of Jhanor.				
			298/136/2		GM Abadi	0-6					
			Kita-2			1-4					
8.	15 min	16 min	139/1	Joint owner	Barani	0-17	Total 12 shares:- Savitri widow Khajana son Hiru 3 shares, Naresh Kumar son, Pooja, Arti daughter, Urmila Devi widow Hem Raj son Balia in equal 1 share, Gopala, Dina Nath sons Balia son Hiru in equal 2 shares, Tilak Raj, Jai Nand sons, Achhri Devi widow Giga son Hiru in equal 3 shares, Gopal Dass son, Fifdi widow Mahantu son Hiru in equal 3 shares local residents.				
9.	18 min	20 min	92/1	purchaser	Barani	0-19	Total 80 shares:- Harish @ Harish Kumar, Anil Kumar sons, Sarita Devi daughter, Heera Devi widow Jaonki @ Janki Ram son Ramji in equal 20 shares, Shyam				

							Lal, Prem Lal in equal 10 shares, Jai Kishan 10 shares son Munshi Ram son Ramji, Jai Lal son, Vidya Devi widow Budhu son Ramji in equal 20 shares, Ritish Kumar, Pravesh Kumar sons, Reena Devi widow Surender son Niknu in equal 3 shares, Sanju @ Sanjeev Kumar, Pardeep Kumar in equal 8 shares sons, Hema Devi 5 shares widow Niknu son Ramji, Vikram, Vikas sons, Sushma Devi widow Rajender Kumar son Niknu in equal 4 shares local residents. -----X----- Total 20 shares:- Ritish Kumar, Pravesh Kumar, Reena in equal 3 shares, Sanju @ Sanjeev Kumar, Pardeep Kumar in equal 8 shares, Hema Devi 5 shares, Vikram, Vikas, Sushma Devi in equal 4 shares seller Pyar Singh son Ramdhan son Fuhn purchaser.				
10.	19 min Abal	21 min	314/194/1	Joint owner		0-12	Total 1110 shares:- Raj Kumar 202 shares son, Brinda Devi daughter, Rattani widow Nikru son Ramji in equal 700 shares, Ram Pal son Magni son ----- 111 shares, Samriti, Nidhi, Rohini daughters, Suman widow Ram Rattan son Chandu in equal 60 shares, Sukh Ram son Sansaru son Mohan 37 shares, local residents.				
					Barani	0-9					
					GM Abadi	0-3					
11.	19 min Dom	21 min	249/195/1	Joint owner	Barani	0-13	Total 30 shares:- Raj Kumar 6 shares son, Brinda Devi daughter, Rattani widow Nikdu son Ramji in equal 20 shares, Ram Pal son Magni son--- 3 shares, Sukh Ram son Sansaru son Mohan 1 share local residents.				
12.	23 min	25 min	93/1	Joint owner	Barani	2-2	Total 210 shares:- Harish @ Hari Kumar, Anil Kumar sons, Sarita Devi daughter, Hira Devi widow Jonki @ Janki Ram son Ramji in equal 40 shares, Shyam Lal, Prem Lal in equal 45 shares, Jai Krishan 45 shares son Munshi Ram son Ramji, Jai Lal son, Vidya Devi widow Budhu son Ramji in equal 40 shares, Ritish Kumar, Pravesh Kumar sons, Reena Devi widow Surender son Niknu in equal 6 shares, Sanju @ Sanjiv Kumar, Pardeep Kumar in equal 16 shares sons, Heema Devi 10 shares widow Niknu son Ramji, Vikram, Vikas sons, Sushma Devi widow Rajender Kumar son Nikdu in equal 8 shares local residents.				
13.	24 min	26 min	124/1	Joint owner	Barani	2-13	Total 8 shares:- Shyam Lal, Prem Lal sons Munshi Ram son Ramji in equal 1 share, Jai Lal son, Vidya Devi widow Budhu son Ramji in equal 2 shares, Raj Kumar son, Brinda Devi daughter, Rattani widow Nikdu son Ramji in equal 2 shares, Harish @ Hari Kumar, Anil				
			338/320/204/1		GM Abadi	0-14					
			325/254/211/1			0-6					
					Barani	0-5					
					Gm road	0-1					

			325/254/ 211/2		Barani	0-14	Kumar sons, Sarita Devi daughter, Heera Devi widow Jonki @ Janki Ram son Ramji in equal 2 shares, Jai Krishan son Munshi Ram son Ramji 1 share local residents.
			Kita-4			4-7	
	27		339/320/2 04	Joint owner		0-13	Shyam Lal etc :- Shyam lal, Jai Krishan, Prem Lal in equal shares hissadaran exchange Dehindgan, Sukh Ram, Rama Nand son Sansaru son Mohan in equal 2 shares, Rohit son, Kala Devi widow Jodha son Sansaru in equal 1 share local residents exchange Garindgan.
					Barani	0-10	
					GM Abadi	0-3	
	28		252/211	Owner	GM Abadi	0-1	Shyam Lal etc. :- Raj Kumar, Brinda Devi, Rattani in equal shares hissadaran Sellers, Neelam wife Sada Ram son Banshi resident Behal Kandaila purchaser.
	29		253/211	Owner	GM Abadi	0-2	Shyam Lal etc. :-Raj Kumar, Brinda Devi, Rattani in equal shares hissadaran Sellers, Rattani Devi wife Sukh Dev son Jamna Devi resident Tegu Baid Tehsil & Distt.Kullu purchaser.
	30		324/211	Owner	GM Abadi	0-2	Shyam Lal etc. :-Raj Kumar, Brinda Devi, Rattani in equal shares hissadaran Sellers, total 32 shares:- Surender Pal, Jitender, Mukesh sons, Sheela widow Sunder Lal son Ram lal in equal 1 share, Balak Ram son Ram Lal son Narainu 13 shares, Naveen Kumar, Rajesh Kumar sons, Kumari Pooja daughter, Savitri widow Niku Ram son Ram lal in equal 13 shares, Ram Pyari widow Babu Ram son Ram Lal 5 shares local residents purchasers.
	G.T.		Kita-8				
14.	30 min	37 min	198/1	Joint owner	Barani	0-1	Total 144 shares:- Raj Kumar, Ramesh Chand sons, Gambhri Devi widow Mani Ram son Kanhiya in equal 45 shares, Kuldeep, Lalit Sen sons Bagshi son Bardu in equal 63 shares, Lekh Ram son Kirpu son Masadi 36 shares local residents. Raj Kumar etc:- Kuldeep, Lalit Sen in equal shares hissadaran.
		41	120		Barani	1-10	
	G.T.		Kita-2			1-11	
15.	35 min	47 min	96/1	Joint owner	Barani	4-17	Total 428 shares:- Abhia Ram 107 shares, Rattan Lal 105 shares, Vidya Sagar 100 shares son Balku son Faoju, Narender Kumar son Rattan Lal son Balku 2 shares, Surender Kumar, Rajender Kumar sons Kirpa Ram son Balku in equal 107 shares, Kanchan Kumar son Santu son Ghungar 3 shares, Satya Devi wife Kanchan Kumar son Santu 4 shares local residents.
16.	36 min	48 min	458/75/1	Owner	Barani	2-3	Hari Dass son Ramdittu son Ganesha local resident.
			461/150/1		Barani	0-16	
			Kita-2			2-19	

17.	39 min	51 min	478/456/75/1	Joint owner	Barani	2-1	Neeraj Kumar, Rajesh Kumar, Madan Gopal sons, Heera Devi widow Shiv Ram son Tikhu in equal shares local residents.				
			460/150		Barani	4-4					
			Kita-2			6-5					
18.	40	52	477/456/75	Joint owner	Barani	0-6	Tarsem Singh, Suman Kumar sons Bhuri Singh son Pohlo in equal shares local residents.				
19.	45 min	57 min	287/68/1	Joint owner		2-2	Total 72 shares:- Babu Ram 27 shares son, Gurdei 9 shares widow Krishanu son Kidu, Dinesh Kumar, Balram son Rattan Lal son Sudama in equal 20 shares, Dassi daughter, Gano widow Sudama son Jodhu in equal 16 shares local residents. -----X-----Total 4 shares:- Babu Ram 3 shares, Gurdei 1 share hissadar.				
					Barani	1-2					
					GM Abadi	1-0					
		58 min	247/148/1		Barani	2-12	Babu Ram etc.-Dinesh Kumar, Balram, Dassi, Gano in equal shares hissadar.				
		59	286/68	Joint owner/purchaser	Barani	1-0	Babu Ram etc.- Babu Ram hissadar Seller, Roshan Lal, Rajender Kumar sons Kanshi Ram son Kadaru resident of Khater in equal share purchasers.				
		61	56	Joint owner	Khadatar	0-7	Babu Ram etc.-Total 7 shares:- Dassi 2 shares, Dinesh Kumar, Balram in equal 5 shares hissadar malkiat dehindgan. Total 14 shares:- Gapala Ram, Gulaba Ram, Likhu Ram sons, Jaina Devi Roshani in equal 10 shares daughters, Nika Ram 4 shares son Sihnu son Sadhu local residents malkiat Garindgan .				
		63	251/203/1	Joint owner	Barani	2-17	Babu Ram etc.-Total 6 shares:- Dassi 1 share, Dinesh Kumar, Balram in equal 5 shares hissadar malkiat Dehindgan, Nand lal, Babu Ram son Chet Ram son Achhra in equal 3 shares local residents Malkiat Garinda bajatehi baneer Gair Morusi 1 share min janeer Gano hissadar.				
	G.T.		Kita-5			8-18					
20.	49 min	75 min	128/1	Joint owner	Barani	1-13	Surender Kumar, Sanjeev Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram son Jamnu in equal shares local resident.				
21.	50 min Abal	76 min	78/1	Joint owner	Barani	1-13	Total 17310720 shares:- Surender Kumar, Sanjeev Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram son Jamnu in equal 1813504 shares, Ronki Prashad, Sant Ram son Jamnu son Jiunu in equal 2802688 shares, Abhay 531622 shares son, Kanta 700672 shares widow Daya Sagar son Jamnu , Neelam Kumar @ Anil Kumar 741888 shares, Kuldeep Kumar, Kashmiri Lal in equal 659456 shares son Bishan Dass son Jamnu, Yash Pal son Ram Dass son Sangaru 2293760 shares, Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 2472960 shares,				

							Ram Lok, Shri Ram in equal 1884160 shares, Nand Lal 925175 shares son, Premi, Champa in equal 1413120 shares daughters Mohan son Fatu, Dev raj, Parshotam, Pankej Kumar sons, Madhu Devi daughter Rupo daughter Mohan in equal 706560 shares local residents. Suresh Kumar son Dhayna Ram son Shiv Dayal resident of Ladda, Tehsil Ghumarwin 179200 shares, Sushma Devi wife Joginder Kumar son Bhola Ram resident of Balh Churani 118335 shares, Sanjeev Kumar son Jagar Nath son Jiunu Ram resident of Sunhani, Tehsil Jhandutta 50715 shares, Nand Lal son Surrender son Pohlo 16905 shares local residents.				
22.	50 min Dom	76 min	140/1	Joint owner	Barani	20-1	Total 17310720 shares:- Ronki Prashad, Sant Ram son Jamnu son Jiunu in equal 2802688 shares, Abhay 531622 shares son, Kanta 700672 shares widow Daya Sagar son Jamnu, Surrender Kumar, Sanjiv Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram son Jamnu in equal 1813504 shares, Neelam Kumar @ Anil Kumar 741888 shares, Kuldeep Kumar, Kashmiri Lal in equal 659456 shares son Bishan Dass son Jamnu, Yash Pal son Ram Dass son Sangaru 2472960 shares, Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 2472960 shares, Ram Lok, Shri Ram in equal 1884160 shares, Nand Lal 925175 shares son, Premi, Champa in equal 1413120 shares daughters Mohan son Fatu, Dev raj, Parshotam, Pankej Kumar sons, Madhu Devi daughter Rupo daughter Mohan in equal 706560 shares, Nand Lal son Sunder son Pohlo 16905 shares local residents. Sushma Devi wife Joginder Kumar son Bhola Ram resident of Balh Churani 118335 shares, Sanjeev Kumar son Jagar Nath son Jiunu Ram resident of Sunhani Tehsil Jhandutta 50715 shares.				
23.	51 min	77 min	197/1	Joint owner		6-5	Total 19110 shares:- Ronki Prashad, Sant Ram son Jamnu son Jiunu in equal 3094 shares, Abhay son, Kanta Devi widow Daya Sagar son Jamnu in equal 1547 shares, Surrender Kumar, Sanjiv Kumar sons, Pushpa Devi, Meena Devi daughters Magni Ram son Jamnu in equal 2002 shares, Neelam Kumar @ Anil Kumar 819 shares, Kuldeep Kumar, Kashmiri Lal in equal 728 shares son Bishan Dass son Jamn, Yash Pal son Ram Dass son Sangaru 2730 shares, Geeta Devi daughter Mast Ram son Sangaru 2730 shares, Ram Lok, Shri Ram in equal 2080 shares, Nand Lal				
					Barani	6-2					
					Khadatar	0-2					
					GM Choi	0-1					

							260 shares son , Premi , Champa in equal 1560 shares daughters Mohan son Fatu, Dev raj, Parshotam, Pankej Kumar sons, Madhu Devi daughter Rupo daughter Mohan in equal 780 shares, Nand Lal son Sunder son Pohlo 780 shares local residents.				
24.	58 min	84 min	260/228/55/1	Joint owner	Banjar Kadim	0-1	Sunka Ram, Parkash Chand sons, Roshani Devi, Meera Devi, Bimla Devi daughter, Prabhi Devi widow Krishanu son Jangi in equal shares local residents.				
25.	62 min	88 min	118/1	Joint owner	Barani	0-12	Kuldeep, Lalit Sen sons Bakshi son Bardu in equal shares local residents.				
26.	63 min	89 min	73/1	Joint owner	Barani	3-16	Total 3326820 shares:- Hans Raj Bhardwaj son Balku son Chuha 168210 shares, Babu Ram, Neelam Kumar in equal 266733 shares son, Manju Kumari daughter , Rupi Devi in equal 69687 shares, Sunil Kumar, Mahender Singh, Anikesh Kumar sons, Meera Devi widow Jagdish son Dhani Ram in equal 401835 shares, Parveen Kumar, Ashish Kumar, Satpal sons Dhani Ram son Bhagtu in equal 1205505 shares, Kuldeep, Ashok Kumar sons Sukh Ram son Sansaru in equal 404950 shares, Rama Nand sons Sansaru son unknown 404950 shares, Rohit son, Kala Devi widow Jodh Singh son Sansaru in equal 404950 shares local residents.				
27.	79 min	105 min	123/1	Joint Owner	Barani	0-18	Basu Dev, Om Parkash son Lakhu son Fithu in equal shares local residents.				
28.	93	120	80	Joint owner	GM Abadi	0-8	Total 108 shares:- Khajana, Sohanu sons , Banjaru daughter, Gaino widow Sangaru son Gurmukh in equal 27 shares, Ramdhan son Khajana son Sangaru 14 shares, Tota son Sohanu son Sangaru 13 shares, Nain Singh son Ramditta son Gohra 18 shares, Pawan, Chaman Kumar, Tarsem Singh, Suman Kumar in equal 12 shares sons, Krishani Devi, Kadsu Devi in equal 3 shares widows Bhuri Singh son Pohlo ,Ramdei widow Pohlo son Ramditta 3 shares, Rattna, Prem Chand, Saktu, Dev Raj sons, Satya , Rattani, Mahanti, Amri in equal 16 shares daughters, Brahmi Devi, Shanti in equal 2 shares widow Kanshi Ram son Ramditta local residents----- --X----- Total 54 shares:- Nain Singh 18 shares, Pawan, Chaman Kumar, Tarsem Singh, Suman Kumar, Ram Dei in equal 15 shares, Kadsu Devi, Krishani Devi in equal 3 shares, Rattna, Prem Chand, Saktu, Dev Raj, Satya, Rattani, Mahanti, Amri in equal 16 shares, Shanti, Brahmi Devi in equal 2 shares-				

							hissadaran marfat, total 3 shares:- Nanku son Ramu son Ghina 1 share. Krishanu son Jagi daughter Ghina 1 share, Pardeep Kumar, Sunil Kumar sons Sunka son Krishanu in equal 1 share local residents- Gair Morusiyen.				
29.	94	121	57/1	Joint owner	-	0-18	Total 140 shares:- Babu Ram, Neelam Kumar in equal 39 shares sons, Manju Kumari daughter, Rupri Devi in equal 29 shares widow Krishanu son Chuha, Heera Devi, Kashmira Devi, Saroj Devi daughters Keshav Ram son Chuha in equal 2 shares, Sunil Kumar 35 shares son, Kumari Dimpal daughter, Roshani in equal 35 shares widow Hukam Chand son Munshi local residents.				
					Barani	0-17					
					GM Abadi	0-1					
30.	97	124	94	Joint owner	GM Abadi	0-8	Sant Ram, Jodh Singh sons, Parvatu widow Tulsi son Lala in equal shares resident of Village Khater.				
31.	98	125	307/192	Joint owner	GM Abadi	0-6	Total 2 shares:-Rajender Kumar, Roshan Lal sons Kanshi Ram son Kadaru in equal 1 share, Ganga Ram son, Damodari widow Hari Dass son Kadaru in equal 1 share local residents. ----X----- Rajender Kumar, Roshan Lal in equal share hissadaran -exchange Dehinda, Kishori Lal son Jai Dev son Mehlar local residents exchange Garinda .				
		126	193		-	0-12	Rajender Kumar etc:-Ganga Ram, Damodari in equal share hissadaran bayan, total 3 shares:- Sukh Ram, Rama Nand sons Sansaru son Mohan in equal 2 shares, Rohit son, Kala Devi widow Jodha son Sansaru in equal 1 share local residents Mustrian.				
					Barani	0-2					
					GM Abadi	0-10					
	G.T		Kita-2			0-18					
32.	99 min	127 min	310/192	Joint owner	-	0-8	Total 20 shares :- Rajender Kumar, Roshan Lal sons Kanshi Ram son Kadaru in equal 10 shares, Ganga Ram sons, Damodari widow Hari Dass son Kadaru in equal 5 shares ,Rup Lal, Nand Lal sons, Sakuntla Devi daughter, Nanki Devi widow Gulaba Ram son Gokal Ram in equal 4 shares , Hem Raj son Manju Devi daughter, Sukhan Devi widow Vijay Ram son Gulaba Ram in equal 1 share local residents.				
					Banjar Kadim	0-6					
					Beed Khadat	0-2					
33.	103 min	131 min	367/79/1	Joint owner	Barani	1-3	Total 160 shares:- Bachitar Singh, Netar Singh sons, Champa Devi daughter, Mangla Devi widow Sant Ram son Pohlo in equal 33 shares, Bhag Singh, Shankar, Rai Singh in equal 123 shares sons, Krishani Devi, Kaoshalya Devi, Radha Devi, Kanta Devi in equal 4 shares daughters Pohlo son Changa local residents.				

34.	104	132	382/187	Joint owner	-	1-2	Total 10 shares:-Chaman Lal, Raj Kumar, Nika Ram sons, Tilfu Devi in equal 9 shares daughter, Hardei 1 share widow Shiv Ram son Jyoti local residents.
					Barani	0-16	
					GM Abadi	0-6	
35.	105 min	133 min	119/1	Owner	Barani	1-6	Shankar son Khajana son Gokal local resident.
36.	106 min	134 min	285/64/1	Joint owner		1-15	Total 964 shares:- Abhia Ram 219 shares, Rattan Lal 195 shares, Vidya Sagar 187 shares son, Kamla Devi 8 shares daughter Balku son Faoju ,Surender Kumar, Rajender Kumar sons Kirpa Ram son Balku in equal 186 shares local residents, Pritam Chand @ Pritam Singh sons Dumnu Ram son Dila Ram 2 shares resident of Village Chambi Tehsil Sundernagar, Vinay Kumar, Chetan son, Lata Devi widow Haribhaj son Bhola in equal 6 shares, Larju Devi Widow Bhola son Dara 2 shares, Brij Lal son Shiv Ram son Fithu 2 shares, Inder Singh son Panjku son Chailu 2 shares, Lata Devi wife Parma Nand son Prabhu 5 shares local residents, Chaman Lal son Prabhu son Thuthu Ram 4 shares, resident Nanawana Pargna Sariun, Sat Pal son Dhani Ram son Bhagtu 2 shares, Ramdhan, Jagar Nath son Gokal son Moti in equal 4 shares, Yash Pal Singh son Hardev son lachhman 4 shares resident Ghangot Kalan, Kuldeep Chand son Amar Nath son Shiv Ram 80 shares, Manohar Lal, Gain Chand sons Krishan Dayal son Gokal in equal 4 shares local residents, Ashu wife Vinod Kumar son Jagar Nath 2 shares, Vifeka wife Sanjay Kumar son Jagar Nath 2 shares, Sunita Devi wife Jagar Nath son Krishan Dayal 2 shares, Rajender Kumar son Sita Ram son Tardu Ram 2 shares resident of Nalag, Mast Ram son Soi son Fala 12 shares, Kanta wife Mast Ram son Soi 16 shares local residents Hem Prabha son Laturia son Jalam 8 shares resident of Sundernagar, Gapala son Hemu son Laturia 8 shares resident of Bharari Tehsil Sundernagar.
					Barani	1-0	
					GM Abadi	0-15	
37.	107	135	308/192	Joint owner	GM Abadi	0-7	Total 3 shares: - Rama Nand, Sukh Ram son Sansaru son Mohan in equal 2 shares, Rohit son, Kala Devi widow Jodha son Sansaru in equal 1 share local residents.
38.	108 min	136 min	427/196/3/1	Joint owner		1-11	Total 60 shares:- Shiv Ram son Tikhu son Ganesha 30 shares, Rama Nand 15 shares, Sukh Ram 14 shares son Sansaru son Mohan, Raj Kumar son Nikru son Ramji 1 shares local residents.
					Barani	1-6	
					GM Abadi	0-5	
			426/196/2		Barani	0-8	
			Kita-2			1-19	

		137 min	425/196/ 2/1	Joint owner	Barani	1-18	Shiv Ram etc:-Shiv Ram hissadar malkiat Dehinda, total 160 shares:- Bachitar Singh, Netar Singh sons, Champa Devi daughter, Mangla Devi widow Sant Ram son Pohlo in equal 33 shares, Bhag Singh,Shankar, Rai Singh in equal 123 shares sons, Krishani Devi, Kaoshalya Devi, Radha Devi, Kanta Devi in equal 4 shares Daghters Pohlo son Chhanga local residents malkiat Garindgan.
	G.T.		Kita -3			3-17	
39.	111	144	378/186	Joint owner	GM Abadi	0-7	Rattan Lal, Rakesh Kumar, Kamlesh Kumar son Madu son Bajira in equal share local resident.
			385/187		-	0-6	
					Barani	0-2	
					GM Abadi	0-4	
			Kita -2			0-13	
40.	112	145	379/186	Owner	GM Abadi	0-2	Kapil Dev son Tulshi son Budhu Ram local resident.
41.	113	146	380/186	Owner	GM Abadi	0-2	Krishani widow Bardu son Sangaru local resident.
			383/187		-	0-2	
					Barani	0-1	
					GM Abadi	0-1	
			Kita-2			0-4	
42.	114 min	147 min	250/203/1	Joint owner	-	1-14	Total 1656 shares:- Babu Ram 381 shares son, Gurdai 207 shares Widow Krishanu son Kidu, Dinesh Kumar, Balram sons Rattan lal son Sudama in equal 460 shares, Dassi daughter, Gaino widow Sudama son Jodhu in equal 368 share, Jai Pal @ Chitru son Krishanu son Gandhi 240 shares local resident -----X----- Babu Ram, Gurdai, Jai Pal @ Chitru in equal share hissadaran.
					Barani	1-8	
					GM Abadi	0-6	
43.	116	150	365/79	Owner	-	0-8	Shankar son Khajana son Gokal local resident.
					Barani	0-2	
					GM Abadi	0-6	
44.	117	151	366/79	Owner	-	0-8	Kali Dass son Khajana son Gokal local resident.
					Barani	0-2	
					GM Abadi	0-6	
45.	133 min	167 min	81	Joint owner	-	0-16	Total 3 shares:- Nanku son Ramu son Finha 1 share, Sunku Ram, Parkash Chand sons, Roshani Devi, Meera Devi, Bimla Devi daughters, Prabhi Devi widow of Krishanu son Jangi in equal 1 share, Pardeep Kumar, Sunil Kumar son Sunka Ram son Krishanu in equal 1 share local residents.
					Barani	0-15	
					GM Abadi	0-1	
46.	146 min	180 min	53/2/1	Joint owner	-	0-14	Total 124 shares: - Rinku Kumar, Ravinder Kumar son Daya Ram son Sunder in equal 62 shares, Gobindu son Narainu son Sadhu 57 shares, Ram Dass son Govindu son Narainu 5 shares local residents.
					Barani	0-5	
					GM Abadi	0-9	
47.	164	198	74	Joint owner- Gair Morusi	Barani	0-6	Total 32 shares:- Niki widow Mohan son Fathu 1 share, Pars Ram son Santa son Jiunu 31 shares local residents. -----

							----- X----- Total 217 shares:- Pars Ram, Bharu Devi in equal shares hissadaran bajatehi baneej Gair Morusi 7 shares minjaneeb digar hissadaran.				
48.	165 min	199 min	291/90/1	Joint owner	Barani	3-18	Total 3042 shares:- Babu Ram son, Gurdai widow Kidu son Jodhu 1521 shares, Dinesh Kumar, Balram son Rattan Lal son Sudama in equal 791 shares, Dassi 284 shares daughter, Gains 338 shares widow Sudama son Jodhu local residents- Savitri Devi Wife of Nathu Ram son Gorkhu 54 shares resident Panjian, Jai Ram son Durga Dass son Bardu 54 shares resident Matyara Sub Tehsil Baldwara.				
49.	166	200	384/187	Owner		0-4	Lekh Ram son Ram Saran son Sardaru local resident.				
					Barani	0-2					
					GM Abadi	0-2					
50.	167	201	417/185	Owner	Barani	0-3	Jagtamba wife Lekh Ram son Ram Saran resident Baloh.				
			118/185		Barani	0-2					
			Kita-2			0-5					
51.	168	202	420/386/187	Owner	Barani	0-7	Pyari wife Pyare Lal son Ramdittu resident of Chamyon.				
52.	174 min	208 min	210	Owner	GM Factory	0-8	ACC Limited Barmana.				
			323/254/211/1		GM Factory	1-13					
			323/254/211/2		GM Factory	0-12					
			319/204 /1		GM Factory	0-13					
			Kita-4			3-6					
	G.Total		Kita-83			104-5					
9. Barmana Hadbast No. 128											
1.	2 min	2 min	205/126/30/1	Joint owner	Barani	6-14	Total 48 shares:- Sanjeev Kumar Thakur, Vikash Kumar Thakur sons Achhru son Lalman in equal 8 shares, Banshi son Lalman son Chhaju -4 shares, Babu Ram, Sher Singh in equal 8 shares, Chen Singh, Kamlesh son Govind son Chhaju in equal 4 shares, Dina Nath, Batan Singh, Rattan Singh sons Daya Ram son Chhaju in equal 12 shares, Amar Chand - 6 shares, Joginder Singh 3 shares son Paras Ram son Chhaju, Nihant son Hans Raj son Parsh Ram 3 shares local residents.	Satuj	Nalag	DPF Jantahal	Bhater Uperit
			200/78/29/1		-	1-4					
					Barani	0-14					
					GM Beed	0-10					
			132/53/1		Barani	17-4					
			135/54/1		Barani	14-19					
			Kita-4			40-1					
2.	7 min	10 min	51/1	Joint owner	Barani	0-1	Total 144 shares:- Rama Nand, Sukh Ram sons Sansaru son Mohan in equal 16 shares, Rohit son, Kala Devi in equal 7 shares widow, Lata Devi, Sapna Devi in equal 1 share daughters Jodh Singh son Sansaru, Rattan Lal, Jai Pal sons Kishan Singh son Durga in equal 6 shares, Nika Ram 12 shares son, Parshinu 6 shares daughter Durga son Mohan, Om Parkash son				

							Ramdittu son Mohan 24 shares, Kashu daughter Negi son Jwahar 24 shares, Kanshi Ram son, Chinta daughter Kadaru son Sadhu in equal 16 shares, Ganga Ram son, Damodari widow Hari Dass son Kadaru in equal 8 shares, Ram Singh son Ranjeet Singh son Deepu 24 shares local resident-----X----- Kanshi Ram, Ganga Ram, Chinta, Damodari, Ram Singh in equal shares hissadaran malkiat Dehindgan, Total 240 shares:- Kali Dass, Daolat Ram, Chhota Ram sons Khajana son Gusaun in equal 120 shares, Hem Raj 42 shares, Parkash Chand son, Maya Devi in equal 24 shares daughter, Kaodi Devi 19 shares widow Nandu son Gusaun, Vikash, Anil sons, Reena Devi, Seema Devi daughters, Lachhmi Devi widow Baldev Singh son Nandu in equal 35 shares local residents malkiat Garindgan.				
2.	Cont.	11	48		Barani	0-19	Rama Nand etc. as described above:-Total 4 shares:- Kanshi Ram Ganga Ram, Chinta, Damodari, Ram Singh in equal shares hissadaran malkiat Dehindgan, Total 4 shares:- Om Parkash son Ramdittu son Mohan 1 share, Nikka Ram 2 shares son, Parshinoo 1 share, daughter Durga son Mohan local residents malkiat Gardindgan.				
	G. Total		Kita-2			1-0					
3.	8 min	12 min	37/1	Joint owner	Bagicha Baranai	0-8	Total 144 shares, Rama Nand, Sukh Ram sons Sansaru son Mohan in equal 16 shares, Rohit son, Kala Devi in equal 7 shares widow, Lata Devi, Sapna Devi in equal 1 share daughters Jodh Singh son Sansaru, Nika Ram 12 shares son, Purshinu 6 shares daughter Durga son Mohan, Om Parkash son Ramdittu son Mohan 30 shares, Kashu daughter Negi son Jawahar 24 shares, Kanshi Ram son, Chinta daughter Kadaru son Sadhu in equal 16 shares Ganga Ram son, Damodari widow Hari Ram son Kadaru in equal 8 shares Ram Singh son Ranjeet Singh son Deepu 24 shares local residents.				
			47/1		Barani	1-3					
			Kita-2			1-11					
4.	9 min	13 min	45/1	Joint owner	Barani	1-14	Total 48 shares:- Kashmir Singh 7 shares, Rajender Singh 21 shares son Kala son Balia, Mansha 14 shares son, Chuhnki 6 shares, daughter Balia son Laturia local residents.				
5.	10 min	14 min	46/1	Joint owner	Barani	2-9	Total 288 shares:- Nirmla daughter Brahm son Gopala 48 shares, Sita Ram sons, Suharu, Jai Dei daughters Gopala son Jagha in equal 144 shares, Jagdish, Pyar singh sons, Kamla, Banti, Neema daughters Banjaru daughter Gopala in equal 40 shares, Vishal Thakur son,				

							Reena Kumari, Monika Kumari, Sonu Kumari daughters Prem lata daughter Banjaru in equal 8 shares, Avnish Kumar son, Maya Devi daughter, Indra widow Ramesh Chand son Roshan in equal 9 shares, Pritam Singh, Suresh Kumar in equal 24 shares sons, Kala Devi 15 shares widow Roshan son Gopala local residents.				
6.	13 min	17 min	211/198/181/22/1	Joint owner	Barani	0-2	Total 100640 shares:- Bachitar Singh, Netar Singh sons, Champa Devi daughter, Mangla Devi widow Sant Ram son Pohlo in equal 7293 shares, Bhag Singh, Shankar Ram, Rai Singh in equal 19023 shares sons, Krishani, Kaoshalya, Radha, Kanta in equal 884 shares daughters Pohlo son Changa, Nitish Kumar son, Sunita Devi widow Jagdish son Sahlo in equal 9520 shares, Kuldeep Chand son, Indra Devi daughter, Kala Devi widow Nihala son Fithu in equal 41440 shares, Madan Lal son Dhani Ram son Hiru 8880 shares, Babu Ram 8160 shares, Bhagat Ram 5440 shares son Gopala Ram son Shiv Dayal local residents.				
7.	14 min	18 min	56	Joint owner	Banjar Kadim	0-2	Total 2 shares :- Thakur Dass son Tulsi son Gopala 1 share, Sunita Devi widow Amar Singh son Tulsi 1 share local residents.				
8.	15 min	19 min	52/1	Joint owner	GM Abadi	0-2	Kali Dass, Daolat Ram, Chhota Ram sons Khajana son Gusaun in equal shares local residents.				
9.	17 min	21 min	50/1	Joint owner	GM Abadi	0-1	Total 2016 shares:- Nirmala daughter Brahm son Gopala 336 shares, Sita Ram son, Suharu, Jai Dei daughters Gopala son Jagga in equal 144 shares, Jagdish, Pyar singh sons, Kamla, Banti, Neema daughters Banjaru daughter Gopala in equal 40 shares, Vishal Thakur son, Reena Kumari, Monika Kumari, Sonu Kumari daughters Prem lata daughter Banjaru in equal 8 shares, Avnish Kumar son, Maya Devi daughter, Indra widow Ramesh Chand son Roshan in equal 9 shares, Pritam Singh, Suresh Kumar in equal 24 shares son, Kala Devi 15 shares widow Roshan son Gopala, Kali Dass, Daolat Ram, Chhota Ram sons Khajana son Gusaun in equal 720 shares, Hem Raj, Parkash Chand in equal 384 shares sons, Maya Devi 72 shares daughter, Kaodi Devi 104 shares widow Nandu son Gusaun, Anil Kumar, Vikas sons, Reena Devi, Seema Devi daughters, Lachhmi Devi widow Baldev Singh son Nandu in equal 160 shares, local residents. -----X----- Total 160 shares:- Kali Dass, Daolat Ram, Chhota Ram, Hem Raj, Parkash Chand,				

							Maya Devi, Kaodi Devi, Anil Kumar, Vikas, Reena Devi, Seema Devi, Lachhmi Devi in equal 120 shares Baneej Gair Moursi-40 shares Min Janeeb digar hissadaran .				
10.	20 min Abal	24 min	218/196/29/2/1	Joint owner	Barani	2-5	Nitish Kumar son, Sunita Devi widow Jagdish son Sahlo in equal shares local residents.				
	22min Abal	51 min	216/107/23/3/1		Barani	1-6					
			Kita-2			3-11					
11.	20 min Doam	24 min	218/196/29/1/1	Joint owner	Barani	1-12	Total 3 shares:- Kuldeep Chand 2 shares son, Kala Devi 1 share widow Nihala son Fithu local resident.				
	22 min Doam	51 min	216/107/23/4/1		Barani	1-9					
			Kita-2			3-1					
12.	20 min Som	24 min	180/22/1	Joint owner	GM Abadi	0-2	Total 6 shares:- Nitish Kumar son , Sunita Devi widow Jagdish son Sahlo in equal 3 shares, Kuldeep Chand 2 shares son, Kala Devi 1 share widow Nihala son Fithu local residents. -----X----- Total 3 shares:- Kuldeep Chand 2 shares, Kala Devi 1 share, hissadaran Bayan, Bhag Singh, Shankar Ram, Rai Singh sons Pohlo son Chhanga local residents mustarian.				
13.	22 min Som	51 min	216/107/23/2	Joint owner	GM path	0-1	Total 2 shares:- Nitish Kumar son , Sunita Devi widow Jagdish son Sahlo in equal 1 share, Kuldeep Chand son, Kala Devi widow Nihala son Fithu in equal 1 share - local residents. -				
14.	24 min	54 min	183/91/25/1	Joint owner	-	4-4	Total 846 shares:- Pyar Singh son Ramdhan son Fuhnu 81 shares, Neelam Kumari 15 shares daughter, Satya Devi 30 shares widow Sant Ram son Khajana, Lachhmi, Premi in equal 94 shares daughters, Ramdei 188 shares widow Kanshi Ram son Gandhi, Santosh Kumar 235 share son,Ganga Devi 47 shares widow Shankar son Gandhi, Ram Lal son Sukh Ram son Gandhi 46 shares, Rintu Kumar 46 shares son, Meera Devi 23 shares widow Roshan Lal son Sukh Ram, Rajesh Kumar ,Sunil Kumar sons Ram Lal son Sukh Ram in equal 23 shares, local residents, Kaoshalya Devi wife of Bhagi Rath son Ridku 18 shares residents of Bam Pargna Ajmerpur.				
					Barani	3-13					
					GM Abadi	0-11					
15.	25 min	55 min	41/1	Joint owner	GM Abadi	0-4	Total 21945 shares:- Vijay Kumar, Ajay Kumar sons, Rattani Devi widow Sukh Lal son Chinta in equal 7018 shares, Rattan Singh, Roop Singh son Chinta son Fuhnu 14036 shares resident of Nalag, Jonki, Niknu son Ramji son Gohda in equal 891 shares local resident-----X----- Vijay Kumar, Ajay Kumar, Rattani Devi in equal				

							7018 shares, Rattan Singh, Roop Singh in equal 14036 shares hisadaran bajatehi 21054 shares baneej Gair Moursi 891 shares min janib digar hisadaran.				
16.	29 min	59 min	128/39/1	Joint owner	-	7-18	Total 1980 shares:- Desh Raj son Khajana son Gokal 120 shares, Subhash Chand son, Kaoshalya widow Daolat Ram son Kahnu in equal 240 shares, Lachhmi, Premi in equal 220 shares daughters, Ram Dei 440 shares widow Kanshi Ram son Gandhi, Santosh Kumar 40 shares son, Ganga Devi 44 shares widow Shankar son Gandhi, Kaoshalya Devi wife of Saonu son Besaria 180 shares resident of Nalag, Ram Lal son Sukh Ram son Gandhi 220 shares, Rintu Kumar son Roshan Lal son Sukh Ram 220 shares, Rajesh Kumar, Sunil Kumar son Ram Lal son Sukh Ram in equal 110 shares, Meera Devi widow Roshan Lal son Sukh Ram 110 shares, Amarjeet son, Rekha Devi daughter, Sueeni Devi widow Babu Ram son Khajana in equal 27 shares, Ramku widow Khajana son Madu 9 shares, local residents.				
					Barani	6-1					
					GM Abadi	1-12					
					GM Khalwada	0-2					
					GM Beed	0-3					
17.	30	60	40	Joint owner	-	0-9	Total 1964 shares:- Roda, Kalu sons Kaila son Gohra in equal 297 shares, Kanchan, Toto son, Meena Kumari daughter, Madi widow Santu son Ghungar in equal 297 shares, Ramku daughter Sibu son Surjan 150 shares, Banjaru daughter Fatu son Tani, 340 shares, Masadi son Tani son Pritam 340 shares, Lohki widow Lehnu son Tani 340 shares, Rattan Lal son, Dassi daughter, Gano widow Sudama son Jodhu in equal 100 shares local residents. Saju daughter Jodhu son Gangu 100 shares residents of Bhater Uperli ----- X----- Masadi hisadard malkiat Dehinda Vijay Kumar, Ajay Kumar sons, Rattani Devi widow Sukh Lal son Chinta in equal 1 share, Rattan Singh, Rup Singh son Chinta son Fuhnu in equal 2 shares malkiat Garindgan.				
					Barani	0-6					
					GM Beed	0-3					
18.	33 min	63 min	38/1	Joint owner	-	3-11	Ranjeet Singh, Sanjay Kumar, Sunil Kumar sons, Chailu Devi widow Brahma Nand son Dhanu in equal shares local residents.				
					Barani	2-8					
					GM Abadi	1-3					
19.	38 min	74 min	189/57/1	owner	GM Factory	11-7	ACC Ltd. Barmana				
			59/1		GM Factory	3-19					
			61		GM Factory	2-1					
			116/99/66/1		GM Factory	1-6					
			67		GM Factory	0-13					
			68		GM Factory	0-10					
			69		GM Factory	1-0					
			70/1		GM Factory	0-6					
			Kita -8			21-2					
20.	39 min	75 min	49/1		GM Abadi	0-3	Abadi Deh				
			Kita-34			91-8					

10. Mandi Hadbast No. 226									
18.	21 min	21 min	85/12/1	Joint owner	-	0-10	Total 3 shares:- Joginder singh son Jeet ram son Shibu 1 shares local residents. Note.—Out of Total 1/3 share land 0-4 Bhiga proposed for aquisition. Rest 0-6 bhiga has been acquired through negotiation.	Muhai Manwa	Muhai Bhurati
					B.Kadim	0-6			
					GM Abadi	0-4			
Total land proposed for aquisition			Kita-353			538-13-05			

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 01 / XIII B of 2023

तारीख दायर : 03-06-2022

तारीख सुनवाई : 10-02-2023

जयदेई

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती इन्द्राज हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती जयदेई पुत्री स्व० श्री हरी राम, निवासी गांव ज्यावड़ा, डा० पलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख ग्राम ज्यावड़ा, पटवार वृत्त पलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०) में उसका नाम जयदेई पुत्री स्व० श्री हरी राम दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम ससुराल में अनिता शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा है। उसने इसके पक्ष में नकल जमाबन्दी ज्यावड़ा, शपथ-पत्र, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी व नकल परिवार रजिस्टर प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की है तथा अनुरोध किया है कि राजस्व अभिलेख मौजा ज्यावड़ा में मेरा नाम जयदेई पुत्री स्व० श्री हरी राम के स्थान पर अनिता शर्मा पुत्री स्व० श्री हरी राम दुरुस्ती की जाये।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-02-2023 को या इससे पूर्व इस अदालत को कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र बारे किसी को कोई एतराज/आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(रमन ठाकुर),

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०)।

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 02 /2023

Date of Institution : 17-01-2023

Sh. Darshan Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Vill. Nalagarh, Ward No. 5, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through : Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Darshan Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Vill. Nalagarh, Ward No. 5, Tehsil Nalagarh District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Pankaj Kumar s/o Sh. Darshan Kumar was born on 17-01-2023 at Ward No. 5, Nalagarh, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the birth of namely Pankaj Kumar s/o Sh. Darshan Kumar may file their objection in this court on or before 17-02-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 17th day of January, 2023.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Nalagarh, District Solan (H P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 01 /2023

Date of Institution : 16-01-2023

Smt. Suriya Begum w/o Shri Taj Mohd., r/o Vill. Ward No. 2, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through : Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Suriya Begum w/o Shri Taj Mohd., r/o Vill. Ward No. 2, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death

Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Isha d/o Sh. Taj Mohd. was born on 15-05-2004 at Ward No. 2, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh but her birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to Municipal Corporation Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the birth of namely Isha d/o Sh. Taj Mohd. may file their objection in this court on or before 16-02-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 16th day of January, 2023.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Nalagarh, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)**

In the matter of :

Sarbjeet Kaur d/o Rattan Singh, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh
. .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sarbjeet d/o Rattan Singh, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering her date of birth *i.e.* 20-04-1973 at r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Salogra Solan,

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sarbjeet Kaur d/o Shri Rattan Singh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-02-2023 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2023.

Seal.

MULTAN SINGH BANYAL,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 32 /2022

Date of Institution : 06-12-2022

Sh. Hari Ram s/o Late Shri Rabbi Ram, r/o Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Hari Ram s/o Late Shri Rabbi Ram, r/o Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his father Late Sh. Rabbi Ram was died on 30-11-1990 at Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh, but his death could not be registered in Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the death of Late Sh. Rabbi Ram may file his objection in this court on or before 20-02-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 20-01-2023.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 33 /2022

Date of Institution : 06-12-2022

Sh. Punnu Ram s/o Late Shri Rabbi Ram, r/o Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Punnu Ram s/o Late Shri Rabbi Ram, r/o Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his uncle Late Sh. Subha Singh was died on 15-10-1989 at Village Lehi, P.O. Karuwana, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh, but his death could not be registered in Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. within

stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Lehi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the death of Late Sh. Subha Singh may file his objection in this court on or before 20-02-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 20-01-2023.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Madhu Kumari *alias* Madhu Bala w/o Anil Katoch, r/o V.P.O. & Tehsil Indora, District Kangra, H.P. declare that in the school record of my son namely Uday Katoch, my name wrongly written as Madhu Bala instead of Madhu Kumari.

MADHU KUMARI
w/o Anil Katoch,
r/o V.P.O. & Tehsil Indora, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raj Chauhan s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Anji, P.O. Tara Devi, Tehsil & District Shimla, H.P. (Civil suit No. 89-A of 2021 filed in the court of Civil Judge, Court No. 3, Shimla, District Shimla, H.P., instituted on 06-12-2021 and decided on 24-06-2022) declare that I have changed my name from Ram Lal to Raj Chauhan. All concerned may note.

RAJ CHAUHAN
s/o Sh. Sant Ram,
r/o Village Anji, P.O. Tara Devi,
Tehsil & District Shimla (H.P.).